

यह - this, it      वह - that, it  
हाँ - yes      हाथ - hand

स्याही\* -  
है - is

# LEARN HINDI THROUGH ENGLISH

कान - ear      कापी\* - notebook  
कुरसी\* - chair      घड़ी\* - clock, watch  
नहीं - no, not      नाक\* - nose      पर -  
पुस्तक\* - book      बल - strength      भी -  
मंदिर - temple      में - in, at      मेज़\*  
यह - this, it      वह - that, it      स्याही\*  
हाँ - yes      हाथ - hand      है - is

Dr. N. Sreedharan



## PREFACE

भाषा बहता नीर - कबीरदास

A language is like a flowing stream - Kabirdas

“Write a better book,” my mind commanded me after I had gone through several self-instructor books, tempting people to learn Hindi. Most of these books, certainly good in parts, assure the reader that one can learn Hindi in thirty days. I beg to differ from that point of view. Also I do not understand why on earth one should be able to learn a language in thirty days? What is the hurry? Based on my quarter century of teaching career, I should honestly say that one cannot fully learn Hindi or, for that matter, any language within a month. I have been learning Hindi for well over fifty years and there are still miles to go. Hence I thought that there should be a better book, a two-in-one book, which, without making any tall claim, would enable the reader to acquire step by step a solid knowledge of Hindi through model sentences and also get acquainted with Hindi grammar in full, without much stress and strain.

There are no short cuts to knowledge. At the same time, some kind of promise by the author is essential so that the reader will confidently go through the lessons with optimism. As the author of this book, I assure that if one is willing to spend twenty more days in addition to the thirty days' claim made by other instructor books, one will reap full benefit from my book. In other words, through **Sura's Learn Hindi Through English**, one can gain a considerable knowledge of Hindi in 50 days, neither more nor less, because this book consists of exactly 50 lessons. Of course, it is assumed that the reader will devote one full hour daily (repeat daily) to learn each lesson. It will not serve any purpose if one practises these lessons by fits and starts, off and on. There should be consistency and regularity during the initial stages of learning a language. This book is a boon to readers who are serious about their aim and consistent in their approach.

Needless to say that before taking up the first lesson, one will have to spend a week in advance to learn the Hindi alphabet. That takes the total number of days to go through this book to 57 days!

This one week labour of learning the alphabet is well rewarded. The Hindi language is written in the Devanagari script. It is in the same script that Sanskrit, Marathi, Nepali and many North Indian dialects are written. Hence it will be easier to learn these languages straightaway without having to learn a new script for each. Further, the Hindi alphabet has the same letters which almost all Indian languages have, including Kannada, Telugu and Malayalam. Therefore, learning a new script may be necessary for some languages, but there will be no problem regarding pronunciation.

Learning a new language involves a lot of writing practice. Knowledge has to be transferred from the eyes to the fingers to make it permanent. Hence said Francis Bacon : “Reading maketh a full man; conference a ready man; and writing an exact man.” The learner should also practise writing the lessons given in this book.

One can become meticulous in the use of written language only through a good knowledge of grammar. Viewed from this angle, this book will also effectively serve as a standard book of Hindi grammar. As the grammar of a language rarely changes, this book has a permanent value and it deserves to occupy a proud place next to Wren and Martin's English grammar in the bookcase. It may be preserved as a family heirloom for the benefit of the younger and future generations also.

Then there is an exhaustive appendix at the end of the book covering a wide range of vocabulary and serving as a ready reference to help the reader in the day-to-day use of Hindi language in various spheres of life.

As a practice book to learn alphabet, as a reliable guide to Hindi grammar and as a treasure trove of examples and model sentences, besides being useful from the examination point of view, **Sura's Learn Hindi Through English** is a must for the learner as well as the learned.

As Hilaire Belloc said in another context: “Do not throw this book about... Preserve it as your chiefest treasure.”

N. Sreedharan

# HINDI ALPHABET

## Vowels

a	aa	e	ee
अ	आ	इ	ई
vu	voO	ri	
उ	ऊ	ऋ	
ey	ai	o	au
ए	ऐ	ओ	औ
	am	aha	
	अं	अः	

## Consonants

ka	kha	ga	gha	nga		
क	ख	ग	घ	ङ		
cha	chcha	ja	jha	gna		
च	छ	ज	झ	ञ		
ta	tta	da	dda	nna		
ट	ठ	ड	ढ	ण		
tha	ththa	dha	dhdha	na		
त	थ	द	ध	न		
pa	ppa	ba	bha	ma		
प	फ	ब	भ	म		
ya	ra	la	va			
य	र	ल	व			
sha	sha	sa	ha			
श	ष	स	ह			
ksha	thra	gna	shra			
क्ष	त्र	ज्ञ	श्र			
qa	kha	ga	za	ra	rha	fa
क	ख	ग	ज	ड़	ढ़	फ

ङ is pronounced as 'ng' in as in sing, England.

ञ as 'n' in pinch.

ड़ is similar to American 'r' as in very.

ढ़ is aspirated ङ. It is pronounced with an 'h' sound or with a breath.

ण is like strong 'n' with the tip of the tongue curled backwards and touching the tip of the palate.

श is very much like the English 'sh' in shut. It is pronounced with the tip of the tongue touching the palate.

ष occurs only in borrowed Sanskrit words. It is identical in pronunciation with श.

The sign ̣ chandrabindu placed above a letter indicates that it is nasalized, or spoken also through the nose.

Where use of English words with half open औ sound is desired, half-moon symbol should be placed above.

e.g.: कॉफी, ऑनरेरी, डॉक्टर, कॉल

## Note:

In the vocabulary box in each lesson, the asterisk symbol (\*) shows that the noun concerned is always used in feminine form and it takes verb in feminine form.

## Mode of writing consonants + vowels

ka	क	kha	ख	ga	ग	gha	घ	cha	च	chcha	छ	ja	ज	jha	झ
kaa	का	khaa	खा	gaa	गा	ghaa	घा	chaa	चा	chchaa	छा	jaa	जा	jhaa	झा
ki	कि	khi	खि	gi	गि	ghi	घि	chi	चि	chchi	छि	ji	जि	jhi	झि
kee	की	khee	खी	gee	गी	ghee	घी	chee	ची	chchee	छी	jee	जी	jhee	झी
ku	कु	khu	खु	gu	गु	ghu	घु	chu	चु	chchu	छु	ju	जु	jhu	झु
koo	कू	kho	खू	goo	गू	ghoo	घू	choo	चू	chchoo	छू	joo	जू	jhoo	झू
kru	कृ	khru	खृ	gru	गृ	ghru	घृ	chru	चृ	chchru	छृ	jru	जू	jhru	झृ
ke	के	khe	खे	ge	गे	ghe	घे	che	चे	chche	छे	je	जे	jhe	झे
kai	कै	khai	खै	gai	गै	ghai	घै	chai	चै	chchai	छै	jai	जै	jhai	झै
ko	को	kho	खो	go	गो	gho	घो	cho	चो	chcho	छो	jo	जो	jho	झो
kau	कौ	khau	खौ	gau	गौ	ghau	घौ	chau	चौ	chchau	छौ	jau	जौ	jhau	झौ
kam	कं	kham	खं	gam	गं	gham	घं	cham	चं	chcham	छं	jam	जं	jham	झं
kaha	कः	khaha	खः	gaha	गः	ghaha	घः	chaha	चः	chchaha	छः	jaha	जः	jhaha	झः

ta	ट	tta	ठ	da	ड	dda	ढ	tha	त	ththa	थ	dha	द	dhdha	ध	na	न
taa	टा	ttaa	ठा	daa	डा	ddaa	ढा	thaa	ता	ththaa	था	dhaa	दा	dhdhaa	धा	naa	ना
ti	टि	tti	ठि	di	डि	ddi	ढि	thi	ति	ththi	थि	dhi	दि	dhdhi	धि	ni	नि
tee	टी	ttee	ठी	dee	डी	ddee	ढी	thee	ती	ththee	थी	dhee	दी	dhdhee	धी	nee	नी
tu	टु	tту	ठु	du	डु	ddu	ढु	thu	तु	ththu	थु	dhu	दु	dhdhu	धु	nu	नु
too	टू	tthoo	ठू	doo	डू	ddoo	ढू	thoo	तू	ththoo	थू	dhoo	दू	dhdhoo	धू	noo	नू
tru	टृ	ttruu	ठृ	dru	डृ	ddru	ढृ	thru	तृ	ththru	थृ	dhru	दृ	dhdhru	धृ	nru	नृ
te	टे	tte	ठे	de	डे	dde	ढे	the	ते	ththe	थे	dhe	दे	dhdhe	धे	ne	ने
tai	टै	tтай	ठै	dai	डै	ddai	ढै	thai	तै	ththai	थै	dhai	दै	dhdhai	धै	nai	नै
to	टो	tto	ठो	do	डो	ddo	ढो	tho	तो	ththo	थो	dho	दो	dhdho	धो	no	नो
tau	टौ	ttau	ठौ	dau	डौ	ddau	ढौ	thau	तौ	ththau	थौ	dhau	दौ	dhdhau	धौ	nau	नौ
tam	टं	ttaam	ठं	dam	डं	ddam	ढं	tham	तं	ththam	थं	dham	दं	dhdham	धं	nam	नं
taha	टः	ttaha	ठः	daha	डः	ddaha	ढः	thaha	तः	ththaha	थः	dha	दः	dhdaha	धः	naha	नः

pa	प	pha	फ	ba	ब	bha	भ	ma	म	ya	य	ra	र	la	ल
paa	पा	phaa	फा	baa	बा	bhaa	भा	maa	मा	yaa	या	raa	रा	laa	ला
pi	पि	phi	फि	bi	बि	bhi	भि	mi	मि	yi	यि	ri	रि	li	लि
pee	पी	phée	फी	bee	बी	bhee	भी	mee	मी	yee	यी	ree	री	lee	ली
pu	पु	phu	फु	bu	बु	bhu	भु	mu	मु	yu	यु	ru	रु	lu	लु
poo	पू	phoo	फू	boo	बू	bhoo	भू	moo	मू	yoo	यू	roo	रू	loo	लू
pru	पृ	phru	फृ	bru	बृ	bhru	भृ	mrū	मृ	yru	यृ	-	-	lru	लृ
pe	पे	phe	फे	be	बे	bhe	भे	me	मे	ye	ये	re	रे	le	ले
pai	पै	phai	फै	bai	बै	bhai	भै	mai	मै	yai	यै	rai	रै	lai	लै
po	पो	pho	फो	bo	बो	bho	भो	mo	मो	yo	यो	ro	रो	lo	लो
pau	पौ	phau	फौ	bau	बौ	bhau	भौ	mau	मौ	yau	यौ	rau	रौ	lau	लौ
pam	पम	pham	फम	bam	बम	bham	भम	mam	मम	yam	यम	ram	रम	lam	लम
paha	पः	phaha	फः	baha	बः	bhaha	भः	maha	मः	yaha	यः	raha	रः	laha	लः

va	व	sha	श	sa	स	ha	ह
vaa	वा	shaa	शा	saa	सा	haa	हा
vi	वि	shi	शि	si	सि	hi	हि
vee	वी	shee	शी	see	सी	hee	ही
vu	वु	shu	शु	su	सु	hu	हु
voo	वू	shoo	शू	soo	सू	hoo	हू
vru	वृ	shru	शृ	sru	सृ	hru	लृ
ve	वे	she	शे	se	से	he	हे
vai	वै	shai	शै	sai	सै	hai	है
vo	वो	sho	शो	so	सो	ho	हो
vau	वौ	shau	शौ	sau	सौ	hau	हौ
vam	वम	sham	शम	sam	सम	ham	हम
vaha	वः	shaha	शः	saha	सः	haha	हः

## HINTS ON PRONUNCIATION

1. If a word ends in अ sound, then that sound is not pronounced fully, but clipped half.

अब ab आज aaj आम aam कल kal

घर ghar कलम Qalam राम Ram सिर sir

2. If a 3-letter word does not end in अ sound, but has the अ sound in the middle letter, then that letter is not pronounced fully, but cut short.

कमरा - kamra कमला - Kamla रुपया - rupya

कुरसी - kursi आदमी - aadmi

3. In a 4-letter word, if the second letter has अ sound, then that letter is not pronounced fully.

अकबर - Akbar कटहल - kathal शरबत - sharbat

दरवाजा - darwaza बचपन - bachpan तसवीर - tasveer

4. If the first letter has अ or इ sound and if the next letter is ह, then that अ/इ becomes ए sound.

पहला - pehla कहना - kehna रहमान - Rehman

बिहारी - Behari बहन - behn

5. ङ is similar to American “r” as in very. लड़ाई larayee. ढ is aspirated ङ (i.e. rh [rh]). चण्डीगढ़ - Chandigarh, अलीगढ़ - Aligarh.

6. श is a hissing sound, like the English ‘sh’ shut. It is pronounced with the tip of the tongue. e.g. Shankar, Sharmila.

7. ष occurs only in borrowed Sanskrit words. It is pronounced like श but with more pressure. e.g. Shanmukha, Santosh.

8. Some letters which have a dot below indicate that the words in which they occur, have been borrowed from Arabic, Persian, Turkish or English.

क - q कलम - qalam क़िला - qila

ख - kh ख़तम - khatam ख़बर - khabar

ग - gh मुग़ल - mughal ग़म - gham ग़ज़ल - ghazal

ज़ - z आज़ाद - Azad ज़मीन्दार - zamindar

फ़ - f फ़ाइनल - final फ़ेल - fail

In common speech, people ignore these niceties and pronounce them just like क, ख, ग, ज, फ, ड, ढ.

9. The dot placed above a letter (like अं) indicates one of the nasal sounds – ङ, अं, णं, नं, मं – depending upon the next consonant. This dot is called Anuswar.

i) If the next consonant is क, ख, ग, घ, then the preceding dot denotes ङ् sound. पंखा to be pronounced as पंङ्का, संगम as सङ्गम, कुंकुम as कुङ्कुम.

ii) If the next consonant is च, छ, ज, झ, then the preceding dot denotes ञ् sound. चंचल - चञ्चल, पंचम - पञ्चम.

iii) If the next consonant is ट, ठ, ड, ढ, then the preceding dot denotes ण् sound. ठंडा-ठण्डा, अंडा-अण्डा.

iv) If the next consonant is त, थ, द, ध, then the preceding dot denotes त् sound. संत - Sant, नंद-Nanda, अंधा - andha.

v) If the next consonant is प, फ, ब, भ, then the preceding dot denotes म् sound. चंपा - Champa, मुंबई - Mumbai, गंभीर - gambhir, कंबल-kambal, संबंध - Sambandh.

## CONCLUSION

Nowadays, for the convenience of DTP and printing press, the half-moon symbol is fast becoming obsolete. It has only pronunciation value now. हैँस = swan, हँस=laugh. Even here people are not very particular. Thus, आँख, ऊँट, हाँ, etc., are spoken and written as आख, ऊंट, हां. In other words, the Anuswar (dot) has dethroned Anunasic (half moon) in both speech and writing.

Hindi is a descendant of Sanskrit. In Sanskrit, every letter is spoken clearly as it is. So, in Hindi too, words are spoken exactly as they are written—keeping in mind the niceties shown above. Even these delicate distinctions get automatically absorbed in our speech in course of time. Hence, Hindi did not require a Daniel Jones-type scholar to produce a separate pronouncing dictionary. In Hindi, just utter each letter as it is—you will be fully and correctly understood.

- vi) If the next consonant is य, the preceding dot denotes ञ् sound.  
संयम - सञ्यम, संयोग-सञ्योग.
- vii) If the next consonant is र, ल, श, स, the preceding dot denotes ण् sound. संलग्न-sanlagna, मुंशी-munshi, कँस-Kansa, संसार-sansar. However, for convenience, म् sound also is heard—samlagna, Kamsa, Samsar.
- viii) If the next consonant is व, the preceding dot is pronounced as म्.  
संवाद - samvad, संवत् - samvat.
- ix) If the dot is on the last letter, pronounce with the nasal sound of n. नहीं - nahi(n), कहीं - kahi (n).

10. The half moon-like symbol (chandra bindhu) placed above a vowel indicates the nasal sound of the vowel. It is called Anunasik.

कहाँ - kaha(n)      हैँस - ha(n)s      बाँस - ba(n)s

*Note* : The dot above stands for (represents)

ङ, ञ, ण, न, म. (e.g. कं=क्+अ+म्).

The half moon above indicates that the vowel is nasalized.  
(e.g. कँ=क्+अँ).

In other words, the Anuswara (dot) follows a vowel. The Anunasik (half moon) is a modification of the pronunciation of the vowel itself.

11. The sign ‘:’ is call Visarga. It has the sound of ha (ह)—अतः -ataha, फलतः -falataha.

## WORD PRACTICE

Before going to Lesson 1, practise the following words by speaking and writing. While writing, try to draw the headline after writing the whole word as far as possible. In course of time, the hand will automatically find a convenient way of drawing the headline.

आ- come

गा - sing

छा - spread

जा - go

जूँ - louse

जौ - barley

तू - thou

थी - was (feminine)

दो - give, two

न, ना - no, not

पा - get

बू - smell

भी - also

ये - these

ला - bring

वे - those

से - by, than

सौ - hundred

है - is

अब - now

आग - fire

ईख - sugar-cane

ऊन - wool

खा - eat

घी - ghee, clarified butter

छू - touch

जी - sir, mind

जो - one who

ढो - carry

था - was (masculine)

दे - give

धो - wash

नौ - nine

पी - drink

बो - sow

या - or

रो - cry

ले - take

सी - sew

सो - sleep, so

ही - only

हो - are

आज - today

आम - mango

ऊख - sugar-cane

ऋण - loan

एक - one

और - and

खत - letter

चल - walk

जल - water, burn

ठग - cheat

ढंग - method

थोड़ा - little

नहीं - not

फेंक - throw

भून - roast

यश - fame

लड़ - quarrel

सह - put up with

अगर - if

इधर - here

उधर - there

एलान - announcement

ओहदा - rank, post

कलम - pen

गरम - hot

चंचल - unsteady

जवाब - reply, answer

टोकरी - basket

डाकिया - postman

तकिया - pillow

दहेज - dowry

ऐब - defect

कल - yesterday, tomorrow

घर - house

छत - roof

झट - at once

डर - afraid

तौल - weigh

दम - breath

पढ़ - read

बल - strength

मर - die

रथ - chariot

वह - he, she, it, that

हँस - laugh

आखिर - at last

ईंधन - fuel

ऊखल - mortar

ऐनक - spectacles

औषध - medicine

खराब - bad

घटना - incident

छतरी - umbrella

झगड़ा - quarrel

ठहर - stay

ढूँढना - search

थपकी - pat

धमकी - threat



नरम - polite  
फलना - bear fruit  
भावना - feeling  
याचना - entreaty  
लड़का - boy  
शरम - shame  
हलदी - turmeric  
आधुनिक - modern  
उपचार - cure  
कसरत - exercise  
गड़बड़ - confusion  
चारपाई - cot  
जानवर - animal  
टकटकी - stare  
डगमग - faltering  
थानेदार - police inspector  
नटखट - mischievous  
फुलवारी - flower garden  
भेदभाव - discrimination  
यातायात - transport  
विपरीत - on the contrary  
सराहना - to praise  
आदरणीय - respectable, revered  
ईमानदार - honest  
एकवचन - singular  
औपचारिक - formal  
खूबसूरत - beautiful

पतन - downfall  
बछड़ा - calf  
मस्ती - jollity  
रुपया - money, rupee  
वरना - otherwise  
सरदी - cold  
अक्सर - often  
इकतीस - thirty-one  
एकदम - suddenly  
खटमल - bug  
घुड़दौड़ - horse-race  
छिपकली - lizard  
झटपट - at once  
ठसाठस - packed  
तक्रदीर - luck, fate  
दमकल - fire engine  
पतझड़ - autumn  
बरतन - vessel  
मज़दूर - labourer  
रोज़गार - employment  
शामियाना - canopy  
होनहार - promising, destiny  
इतमीनान - satisfaction  
उदासीनता - indifference  
ऐतिहासिक - historical  
कठपुतली - puppet  
गुसलखाना - bathroom

चमकदार - bright  
झालरदार - frilled  
तहक्रीकात - enquiry  
दुरुपयोग - misuse  
नियमावली - prospectus  
मेहरबानी - kindness  
रासायानिक - chemical  
विचाराधीन - under consideration  
अजायबघर - museum  
उपकुलपति - Vice-Chancellor  
ज़मानतदार - bailor  
जगमगाहट - glitter  
टिमटिमाना - flicker  
थरथराना - tremble  
धारावाहिक - serial  
पहलवान - wrestler  
युवावस्था - youth  
लकड़हारा - woodcutter  
सूरजमुखी - sunflower  
इतिहासकार - historian  
गरमागरम - very hot  
नमकहराम - ungrateful

## CONJUNCT LETTERS

The Hindi consonant letters do not indicate the consonant sounds only. They stand for the particular consonant + अ. Thus क is k + a. When the consonant is to be expressed without the inherent अ, a right-slanting stroke called 'hal' (हल) is put below the letter. Thus we have क्, च्, द्, etc. So one may write kya (what) as क्या.

However, the use of 'hal' is not in much vogue. It is used with ड, छ, ट, ठ, ड, ढ or in some Sanskrit words like महान्.

While combining two letters:

1. Remove the vertical stroke (perpendicular line) of the first letter, i.e. the first letter will become half. ग् + थ = गथ, च् + छ = च्छ, त् + थ = तथ
2. If the first letter is formed in the stroke itself, then only half of that letter is joined to the second letter. क् + य = क्य, फ् + य = फ्य, न् + म = न्म, म् + ब = म्ब
3. In the case of letters in which, the vertical stroke does not appear (ड, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, ह), separately and fully, they retain the 'hal' mark. द् + ठ = द्ठ, द् + ध = द्ध ह् + व = ह्व  
However, till recently they were written one below the other, like ड, छ, ह, etc.,
4. If र is the first letter, it is written above the second letter, र् + ग = र्ग, र् + च = र्च, र् + द = र्द
5. When it comes after a letter having a vertical stroke, it is written as a left slanting stroke below and to the left of the vertical stroke.  
क् + र = क्र, ज् + र = ज्र, द् + र = द्र
6. When combined as second letter to छ, ट, ठ, ड, ढ, द, ह it is written thus below: द् + र = द्र, ड् + र = ड्र
7. Though क्ष, त्र, ज्ञ, श्र are included in the alphabet itself, they are nothing but conjuncts written in a special way. क् + ष = क्ष, त् + र = त्र, ज् + ञ = ज्ञ, श् + र = श्र

## Read and recognize

अध्यापक - teacher

इन्द्र - Indra

उल्लू - owl

ऐश्वर्य - wealth

क्षण - moment

ग्रह - planet

बच्चा - child

ज्यादा - much

चट्टान - rock

अड़्डा - resting place

त्याग - sacrifice

विद्यार्थी - student

जन्म - birth

प्यास - thirst

दफ्तर - office

सभ्य - civilized

सम्मान - honour

जल्दी - quickly

श्रद्धा - veneration

समस्या - problem

जिह्वा - tongue

स्याही - ink

ख्याति - fame

ज्वर - fever

प्यारा - lovable

शान्त - peaceful

हफ्ता - week

आक्रमण - invasion

ईश्वर - god

एकत्र - collected

क्यारी - flower-bed

खर्च - expenditure

कृतघ्न - ungrateful

अच्छा - good

झज्झर - goblet

मट्ठा - butter-milk

पुण्य - good deed

पथ्य - diet

ध्यान - meditation

अनन्नास - pineapple

प्रेम - love

डिब्बा - box, can, compartment

भ्रमर - bee

राष्ट्र - nation

व्याकरण - grammar

श्लोक - verse

स्थान - place

ह्रस्व - short

कर्म - action

ग्वाला - cowherd

ठण्डा - cool

व्यापार - business

पक्का - solid

गुप्त - secret

## CONTENTS

1. BASIC SENTENCES .....	1
2. THE IMPERATIVE .....	3
3. PRESENT TENSE 'BE' VERB .....	7
4. PRESENT INDEFINITE TENSE .....	9
5. PRESENT CONTINUOUS TENSE .....	13
6. GENDER .....	16
7. NUMBER .....	21
8. CASES .....	25
9. POSSESSIVE CASE .....	29
10. PRONOUNS .....	32
11. REFLEXIVE PRONOUN .....	35
12. ADJECTIVES .....	37
13. COMPARISON OF ADJECTIVES .....	40
14. ADVERBS .....	43
15. VERBAL NOUNS / GERUNDS .....	46
16. POST - POSITIONS .....	50
17. CONJUNCTIONS .....	54
18. INTERJECTIONS .....	56
19. FUTURE TENSE .....	57
20. FUTURE SUBJUNCTIVE .....	61
21. PAST TENSE 'BE' VERB .....	64
22. PAST IMPERFECT TENSE .....	66
23. PAST CONTINUOUS TENSE .....	69
24. PAST INDEFINITE TENSE .....	71
25. PAST INDEFINITE TENSE-TRANSITIVE VERBS .....	74
26. PRESENT PERFECT TENSE .....	79

27. PAST PERFECT TENSE .....	83
28. DOUBTFUL PRESENT TENSE .....	87
29. DOUBTFUL PAST TENSE .....	89
30. PAST CONDITIONAL TENSE .....	93
31. HABITUAL TENSE .....	96
32. SHOULD - MUST - OUGHT TO .....	100
33. AUXILIARY VERB - PRESENT TENSE - HAVE TO .....	104
34. AUXILIARY VERB - PAST TENSE - HAD TO .....	106
35. AUXILIARY VERB - FUTURE TENSE -WILL HAVE TO .....	108
36. AUXILIARY VERB 'CAN' .....	111
37. AUXILIARY VERB 'FINISH' .....	113
38. AUXILIARY VERB 'BEGIN' .....	116
39. AUXILIARY VERB - ALLOW .....	118
40. THE ABSOLUTE .....	120
41. PRESENT PARTICIPLE .....	123
42. PAST PARTICIPLE .....	126
43. COMPOUND VERBS .....	129
44. CAUSATIVE VERBS .....	134
45. VOICE .....	138
46. CONNECTING THE SENTENCES .....	142
47. THE USE OF कि AND वाला .....	145
48. AGREEMENT OF SUBJECT WITH VERB .....	149
49. SPECIAL FEATURES OF SOME CASES .....	152
50. PARTING ADVICE .....	157

### APPENDIX

## 1. BASIC SENTENCES

### प्रारंभिक वाक्य

1. यह क्या है? यह किताब है।  
What is this? This is (a) book.
2. वह क्या है? वह कलम है।  
What is that? That is (a) pen.
3. यह एक मंदिर है। वह कापी है।  
This is a temple. That is a notebook.
4. यह नाक है। वह कान है।  
This is nose. That is ear.
5. पुस्तक कहाँ है? पुस्तक मेज़ पर है।  
Where is the book? The book is on the table.
6. ज़मीन पर क्या है? ज़मीन पर कुरसी है।  
What is on the floor? The chair is on the floor
7. कलम हाथ में है। कलम में स्याही है।  
The pen is in the hand. There is ink in the pen.
8. क्या यह कागज़ है? नहीं, यह प्लास्टिक है।  
Is this a paper? No, it is plastic.
9. क्या वह एक मंदिर है? हाँ जी, वह एक मंदिर है।  
Is it a temple? Yes sir, that is a temple.
10. कलम और कागज़ मेज़ पर हैं।  
The pen and paper are on the table.
11. घड़ी भी दीवार पर है।  
The clock also is on the wall.
12. एकता बल है।  
Union is strength.

### VOCABULARY

एक - a, one

एकता\* - unity

और - and

कलम\* - pen

कहाँ - where

कागज़ - paper

### Appendix - I

#### Classified Vocabulary

Fruits	...	159
Flowers	...	159
Trees and their Parts	...	160
Vegetables	...	160
Grains and Pulses	...	161
Eatables	...	161
Birds	...	162
Animals	...	162
Insects	...	163
Parts of the Body	...	163
Diseases	...	164
Clothes	...	165
Gems and Jewels	...	165
Minerals	...	166
Relatives	...	166
Occupations	...	167
Building and its Parts	...	168
Household goods	...	169
Tools	...	170
Directions	...	170
Colours	...	170
Days of the Week	...	171
Names of Months	...	171
Names of Months (Indian)	...	171
Seasons	...	171
Time	...	171
Numerals	...	172
Special Numbers	...	173
Fractions	...	173
Devanagari Figures	...	173

### Appendix - II

Proverbs	...	174
Designations	...	177
Administrative Terms	...	179
Prefixes	...	182
Suffixes	...	183
Direct Verbs	...	184
List of Adjectives	...	186

कान - ear	कापी* - notebook	किताब* - book
कुरसी* - chair	घड़ी* - clock, watch	ज़मीन* -floor, ground
नहीं - no, not	नाक* -nose	पर - on,above
पुस्तक* - book	बल - strength	भी - also
मंदिर - temple	में - in,at	मेज़* - table
यह - this, it	वह - that, it	स्याही* - ink
हाँ - yes	हाथ - hand	है - is

**Note:**

1. Words with asterisk mark (\*) denote that they are feminine nouns. Then the adjective and the verb qualifying that noun also will be in feminine.
2. क्या means 'what'. But if क्या comes as the first or the earliest word, then it is not translated. The sentence should be treated as interrogative (i.e. yes or no - type - question)

तुम्हारा नाम क्या है? What is your name?

क्या यह तुम्हारा घर है? Is this your house?

## 2. THE IMPERATIVE

### विधि

The Imperative denotes: command, order, request, warning, prohibition, entreaty, etc. Therefore the subject will always be in second person, i.e. thou, you, you-respect (तू, तुम, आप). Sometimes the subject may not be mentioned.

तू is used in addressing god, servants or children and in affection for mother, sister, younger brother, etc., or for expressing strong feelings like contempt or anger.

तुम is used in addressing family members, equals, servants and juniors:

आप is the polite and respectful form of address for all, both in singular and in plural. It is used in addressing strangers and superiors. As there is only one 'you' in English for singular-plural-respect, आप is translated as 'you please'.

When तू is the subject, the verb remains in its root form. e.g. Thou get out - तू बाहर जा।

When तुम is the subject, ओ (letter or sound) is appended to the root of the verb, e.g. You come - तुम आओ। You read - तुम पढ़ो (पढ़+ ओ)

When आप is the subject, इए (letter or sound) is appended to the root of the verb. e.g. You (please) come - आप आइए। You (please) speak आप बोलिए (बोल+ इए)।

You go - sleep - bring - eat - sit - write - play - see

तुम जाओ - सोओ - लाओ - खाओ - बैठो - लिखो - खेलो - देखो।

आप आइए - सोइए - लाइए - खाइए - बैठिए - लिखिए - खेलिए - देखिए।

आइए, जाइए, etc., are also written as आइये, जाइये, etc., but the former forms are preferable.

More politeness or entreaty is expressed by adding गा to the verb already used.

आप कल आइएगा। Please kindly come tomorrow.

आप एक पत्र भेजिएगा। You please send a letter.

The negative or prohibitive form of the Imperative is obtained by placing मत or न immediately before the verb.

Of the two, न is polite but weak. मत is emphatic but less polite. नहीं (naheen) is never used in Imperative.

तुम कुर्सी पर मत बैठो। Don't sit on the chair.

तुम न जाओ। Don't go.

जोगी मत जा, मत जा, पाँव पड़ूँ तोरी। You ascetic (Krishna), don't go, don't go, I fall upon your feet. (Mirabai)

#### Imperative

तू + verb root	तू पढ़
तुम + ओ (letter / sound)	तुम लाओ। तुम रखो।
आप + इए (letter / sound)	आप सोइए। आप बोलिए।

#### Exceptions

The following verbs behave irregularly when ओ or इए is added:

Verb root		Subject	
		तुम	आप
take	ले	लो	लीजिए
give	दे	दो	दीजिए
drink	पी	पिओ	पीजिए
do	कर	करो	कीजिए

#### MODEL SENTENCES

1. तुम जाओ और एक मेज़ लाओ।  
You go and bring a table.
2. हाथ में कलम लो।  
Take (hold) the pen in the hand
3. कलम से कागज़ पर लिखो।  
Write on the paper with pen.

4. एक किलो गेहूँ का आटा दो।  
Give one kilo wheat flour.
5. कलम में स्याही नहीं है। जाओ और थोड़ी स्याही लाओ।  
There is no ink in the pen. Go and get some ink.
6. मोहन, उठो, गरम चाय पिओ।  
Mohan, get up, drink hot tea.
7. विमला, एक हिन्दी गीत गाओ।  
Vimala, sing a Hindi song.
8. हमेशा सच बोलो। कभी झूठ मत बोलो।  
Always speak the truth. Never tell a lie.
9. आप दुकान में रूमाल मत खरीदिए।  
You please don't buy handkerchief in a shop.
10. हमेशा मातृभाषा में बात कीजिए।  
Please always speak in mother-tongue.
11. आप ठंडा (ठंढा) पानी मत पीजिए।  
You please don't drink cold water.
12. आज यहाँ मत ठहरिए।  
Please don't stay here today.
13. आप हमें गणित सिखाइए।  
You please teach us mathematics.
14. तुम एक दुकान खोलो और रुपये कमाओ।  
Open a shop and earn money.
15. तुम हमेशा खादी वस्त्र पहनो।  
Always wear khadi clothes.
16. अक्सर इधर-उधर मत दौड़ो।  
Don't run here and there often
17. आप बैंक से हजार रुपये निकालिए।  
You please withdraw a thousand rupees from bank.

**VOCABULARY**

अक्सर - often, frequently	आ - come
आज - today	आटा - flour
इधर - here	उठ - get up
उधर - there	कमा - earn
कर - do	कल - yesterday, tomorrow
खरीद - buy	खोल - open
गरम - hot	गा - sing
गीत - song	गेहूँ - wheat
ठंडा - cold	ठहर - stay, wait
दुकान* - shop	दौड़ - run
निकाल - take out	पत्र - letter
पहन - wear	पानी - water
पी - drink	बात* - matter, talk
मातृभाषा* - mother-tongue	यहाँ - here
सच - truth	सिखा - teach
हज़ार - thousand	हमेशा - always

Note:-

In Imperative, even if the subject is not indicated or missing, one can guess it by looking at the verb. If it ends in ओ (letter or sound), then the subject is you (singular). If the verb ends in ऐ (letter or sound), then the subject is you (respect or plural).

**3. PRESENT TENSE 'BE' VERB**

वर्तमानकाल 'होना' क्रिया

Singular		Plural	
I am	मैं हूँ	We are	हम हैं
You are	तुम हो	You are	आप हैं
He	is यह/वह है	These	are ये/वे हैं
She		Those	
It		They	

Note :

1. All plural have the same ending हैं ।
2. To indicate negative, use नहीं. It comes before verb.
3. Though मैं stands for I, while talking, a person may use हम. Particularly writers and people in power tend to use हम instead of मैं ।
4. आप, ये, वे denote singular also if they are used to point out to a respectable person.
5. यह, वह are also pronounced as ये, वो ।

**MODEL SENTENCES**

1. मैं गोपालदास हूँ। मैं अध्यापक हूँ।  
I am Gopaldas. I am a teacher.
2. तुम कौन हो? क्या तुम राम हो?  
Who are you? Are you Ram?
3. वह किशोर नहीं है, बल्कि राकेश है।  
He is not Kishore but Rakesh.
4. क्या यह कमला है? नहीं, यह विमला है।  
Is she Kamala? No, she is Vimala.
5. यह एक कुत्ता है। कुत्ता एक पालतू जानवर है।  
This is (it is) a dog. The dog is a domestic animal.
6. हम सब भारत के हैं। हम भारतीय हैं।  
We all belong to India. We are Indians.

7. क्या आप प्राध्यापक हैं? नहीं, मैं डाक्टर हूँ।  
Are you (respect) a lecturer? No, I am a doctor.
8. वे अमर, अकबर और आंटनी हैं।  
They are Amar, Akbar and Antony.
9. वह सफ़ेद कागज़ है।  
That is a white paper.
10. भारत एक बड़ा और पुराना देश है।  
India is a big and ancient country.
11. गाँव में सौ घर हैं, सब छोटे-छोटे।  
There are 100 houses in the village - all very small.
12. क्या यह घर ख़ाली नहीं है?  
Is this house not vacant?
13. छिपकली दीवार पर है।  
The lizard is on the wall.
14. परमेश्वर अपने स्वर्ग में हैं, दुनिया में सब ठीक-ठाक है।  
God's in His heaven -  
All's right with the world. (Robert Browning)
15. मैं शायर तो नहीं। मैं आशिक भी नहीं।  
I am no poet. I am not a lover either.

**VOCABULARY**

अध्यापक - teacher	आशिक - lover	कुत्ता - dog
के - of	कौन - who	ख़ाली - vacant
गाँव - village	घर - house	छिपकली * - lizard
छोटा - small	जानवर - animal	ठीक - O.K. all right
तो - of course, so	दुनिया * - world	देश - country
पालतू - domestic, tame	पुराना - old	प्राध्यापक - lecturer
बड़ा - big	बल्कि - but	शायर - poet
सफ़ेद - white	सब - all	सौ - hundred

**4. PRESENT INDEFINITE TENSE**

**सामान्य वर्तमान काल**

The present indefinite tense, known as simple present tense, indicates an action in the present, an action taking place now. e.g. I go, You come, It runs, She sings, They shout, etc.

In Hindi, the indefinite is formed by adding the suffix ता,ते or ती according to the gender and number of the subject.

Then the sentence is rounded off with हूँ,हो,है,हैं as shown in Lesson - 3 to indicate present tense.

Subject	Verb root	Masculine suffix	Feminine suffix	Present tense
मैं	जा	ता	ती	हूँ
तुम	जा	ते	ती	हो
यह, वह	जा	ता	ती	है
हम, आप	जा	ते	ती	हैं
ये, वे				

Note :

- All masculine plural have the same suffix ते added to the verb root.
- All feminine subjects take the same suffix ती added to the verb root.
- All plurals, both masculine and feminine, have the same present tense indicator हैं.
- The negative नहीं will come before verb. When नहीं is used, tense need not be shown. e.g. does not go - नहीं जाता।
- But if the subject is feminine plural and if नहीं is used, then the verb takes a dot above. e.g. Girls do not jump - लड़कियाँ नहीं कूदतीं।
- Nowadays women increasingly use हम instead of मैं for singular. When they use हम they end the sentence with masculine plural verb instead of feminine verb. Thus, instead of saying मैं जाती हूँ, a modern woman will say हम जाते हैं. For plural also they say हम जाते हैं.



**MODEL SENTENCES : Masculine**

1. मैं चाय पीता हूँ।  
I drink tea.
2. तुम किसको पत्र लिखते हो?  
Whom do you write the letter to ?
3. बच्चा कब सोता है?  
When does the baby sleep?
4. क्या यह लड़का आजकल संगीत सीखता है?  
Does this boy learn music nowadays?
5. हम रोज़ दुकान जाकर दूध ख़रीदते हैं।  
We go to the shop daily and buy milk.
6. आप ज़रूरत से ज़्यादा हँसते हैं।  
You laugh more than necessary.
7. ये कभी झूठ नहीं बोलते।  
They never speak falsehood.
8. हम ज़मीन पर नहीं बैठते।  
We do not sit on the floor.
9. वे मज़दूर एक कारख़ाने में काम करते हैं।  
Those labourers work in a factory.
10. तोता पेड़ पर बैठकर अमरूद खाता है।  
Sitting on the tree the parrot eats guava
11. सूरज दुनिया को प्रकाश देता है।  
The sun gives light to the world.
12. आकाश में (आसमान पर) तारे चमकते हैं।  
The stars twinkle in the sky.
13. सचिव धन्यवाद देते हैं और लोग घर लौटते हैं।  
The secretary thanks and the people return home.
14. क्या यहाँ अच्छा मक्खन मिलता है?  
Is good quality butter available here?

15. घोड़े तेज़ दौड़ते हैं। बैल धीरे-धीरे चलते हैं।  
The horses run fast. The bullocks walk slowly.
16. तुम सबेरे से शाम तक घर में क्या करते हो?  
What do you do from morning to evening at home?

**Feminine**

1. मैं शामको शरबत नहीं पीती।  
I do not drink juice in the evening
2. तुम क्यों बात-बात पर रोती हो?  
Why do you cry on every little thing ?
3. सरला तीन भाषाओं में अच्छा गाती है।  
Sarala sings well in three languages .
4. मछली हमेशा पानी में रहती है और उसमें तैरती है।  
The fish always lives in water and swims in it.
5. वह बुढ़िया बाज़ार में फल-फूल बेचती है।  
That old woman sells fruits and flowers in the market street.
6. ग़रीब औरतें रेशमी साड़ियाँ नहीं पहनतीं।  
Poor women do not wear silk sarees.
7. हम, छात्रावास की छात्राएँ, चावल नहीं खातीं, गेहूँ ही खाती हैं।  
We, the students of the hostel, do not eat rice, we eat wheat only.
8. मदाम, आप क्या ख़रीदती हैं?  
Madam, what do you buy ?
9. मेरी माताजी एक महाविद्यालय में काम करती हैं।  
My mother works in a college.
10. गाय चरागाह में आराम से चरती है।  
The cow grazes in the pasture comfortably.
11. अध्यापिका अख़बार पढ़ती हैं।  
The lady teacher reads newspaper.

**VOCABULARY**

अखबार- newspaper  
 अच्छा - good  
 आजकल - nowadays  
 आसमान - sky  
 कभी नहीं - never  
 कारखाना - factory  
 गरीब - poor  
 चर - graze  
 चावल - rice  
 छात्रावास - hostel  
 ज्यादा - much  
 तारा - star  
 तोता - parrot  
 धन्यवाद - thanks  
 प्रकाश - light, shine  
 फूल - flower  
 बुढ़िया \* - old woman  
 बेच - sell  
 मछली \* - fish  
 महाविद्यालय - college  
 रो- cry, weep  
 लड़का - boy  
 सचिव - secretary  
 सूरज - sun

अमरूद - guava  
 आकाश- sky  
 आराम- comfort  
 औरत \* - woman  
 काम - work  
 क्योंकि - because  
 चमक \* - shine, twinkle  
 चरागाह \* - pasture  
 छात्रा \* - girl student  
 जरूरत \* - need  
 झूठ - lie, falsehood  
 तैर - swim  
 दूध - milk  
 पेड़ - tree  
 फल - fruit  
 बच्चा - child  
 बाज़ार - market place  
 मक्खन - butter  
 मज़दूर - labourer  
 रेशमी - of silk  
 रोज़ - daily  
 लौट - return  
 साड़ी\* - saree  
 हँस - laugh

**5. PRESENT CONTINUOUS TENSE**

**तात्कालिक वर्तमान काल**

When a work has started and is continuing at present (e.g. I am going), the process is indicated by inserting रहा/रहे/रही between verb root (e.g. आ ) and the appropriate present tense indicator हूँ, हो, है, हैं

रहा is used if the subject is masculine singular

रहे is used if the subject is masculine plural or a respected male.

रही is used if the subject is feminine

To denote negative, नहीं is put before verb.

Subject	Root	Masculine -ing	Feminine -ing	Present tense
मैं	आ	रहा	रही	हूँ
तुम	आ	रहे	रही	हो
यह } वह } हम } आप } ये } वे }	आ	रहा	रही	है
	आ	रहे	रही	हैं

1. All masculine plurals have the same ending --रहे हैं
2. All feminine subjects take रही
3. All feminine plurals have the same ending हैं

**MODEL SENTENCES : Masculine**

1. मैं आज रात मद्रास जा रहा हूँ।  
I am going to Madras this night
2. तुम ऊपर क्या देख रहे हो?  
What are you seeing above ?
3. वह भिखारी क्यों लगातार चिल्ला रहा है?  
Why is that beggar continuously screaming?

4. यह कुत्ता चोर को देखकर भौंक रहा है।  
Seeing a thief this dog is barking
5. हम हिन्दी में पत्र लिख रहे हैं  
We are writing letters in Hindi.
6. आप क्यों हमेशा हँस रहे हैं?  
Why are you always laughing?
7. ये यात्री गंगा में नहा रहे हैं।  
These pilgrims are bathing in the Ganga.
8. वे भक्त लोग तिरुमला पहाड़ से उतर रहे हैं।  
Those devotees are getting down from Tirumala hill.
9. अध्यापक गणित में सवाल पूछ रहे हैं।  
The teacher is asking questions in maths.

**Feminine**

1. मैं रेडियो में खबर सुन रही हूँ।  
I am listening to the news in the radio
2. तुम मंदिर में पूजा कर रही हो।  
You are worshipping in the temple
3. शैलजा खाना परोस रही है।  
Shailaja is serving food.
4. नौकरानी बरतन साफ़ कर रही है।  
The servant-maid is cleaning vessels.
5. हम गरम दूध पी रही हैं।  
We are drinking hot milk
6. आप मेरी बात नहीं सुन रही हैं।  
You are not listening to my talk
7. ये दोनों लड़कियाँ नाटक में भाग ले रही हैं।  
These two girls are taking part in the drama
8. घड़ी छः बजा रही है।  
The clock is striking six

9. रेल गाड़ी अभी आ रही है।  
The train is coming just now.
10. सानिया मिर्ज़ा हैदराबाद में निवास कर रही है।  
Sania Mirza is residing in Hyderabad.

**VOCABULARY**

अभी - just now	उतर - get down, descend	ऊपर - up, above
खबर* - news	खाना - food	गणित - mathematics
चिल्ला - shout	चोर - thief	छः - six
नहा - bathe	नाटक - drama	नौकरानी* - servant maid
परोस - serve	पूछ - ask	बजा - strike (clock)
बरतन - vessel	भक्त - devotee	भाग - part, share
भिखारी - beggar	भौंक - bark	यात्री - traveller
रात* - night	लगातार - continuously	सवाल - question
साफ़ - clean	सुन - hear, listen	

## 6. GENDER

### लिंग भेद

There are two genders in Hindi: i) Masculine (पुल्लिंग), ii) Feminine (स्त्रीलिंग). The Hindi gender system is partly natural (based on sex) and partly grammatical (based on usage).

In the case of living things, we can easily identify the gender of the word. e.g., boy, father, king, bullock brother, man, husband, etc., are naturally masculine.

Similarly, girl, mother, queen, cow, sister, woman, wife are feminine.

But the problem of determining the gender arises when the noun is a lifeless thing like house, wall, pen, mountain, potato, etc.

In the case of inanimate things, there are some general rules to determine the gender.

- By form: to decide by the last letter of the word:  
आ ending denotes masculine : कमरा, कपड़ा, लोटा  
ई ending denotes feminine : गाड़ी, चड़ी, टोपी  
(According to a research, among the inanimate things, the following words which end in ई alone are masculine:  
जी, ची, दही, पानी, मोती)
- By imagination on the basis of meaning :  
पहाड़, पेड़, समुद्र, जहाज़, आकाश, पत्थर, etc., are masculine as they are big, hard, terrible or powerful. लता, माला, नाव, etc., are feminine as they are soft or small. भाषा is feminine as we learn it from our mother. नदी is feminine as it is worshipped as a goddess.
- Some nouns do not come under any rule. It is difficult to say why any of them is masculine or feminine. We can remember their gender only by practice.  
कान, मार्ग, आलू, नयन masculine  
आँख, नाक, सड़क, दीवार feminine

- Present tendency in Hindi is to use some nouns in the common gender e.g. मंत्री, मित्र. श्रीमती इंदिरा गांधी पंद्रह वर्ष भारत की प्रधानमंत्री थीं।
- Among the collective nouns (names of groups), some of them are always used in masculine and some others are always used in feminine. झुंड, मंडल, समूह, कुटुंब, संघ, दल masculine  
भीड़, सेना, फौज, सभा, प्रजा, सरकार, पुलिस, संतान, टोली feminine
- Though living things consist of males and females, some are always used in masculine and some others always in feminine.  
उल्लू, भेड़िया, कौआ, चीता, खटमल, पक्षी, मच्छर, खरगोश  
शिशु, कीड़ा, केंचुआ - always masculine  
मक्खी, कोयल, चील, बिल्ली, मैना, गिलहरी, तितली, मछली,  
चिड़िया - always feminine.

### Rules for formation of feminine from masculine

- By changing the final अ/आ into ई  
देव-देवी, बंदर-बंदरी, पुत्र-पुत्री  
बेटा-बेटी, घोड़ा-घोड़ी, दादा-दादी
- By changing the final अ/आ into इया  
खाट-खटिया, कुत्ता-कुतिया, बूढ़ा-बुढ़िया, चूहा-चुहिया
- By adding इन  
बाघ-बाघिन, सुनार-सुनारिन, जुलाहा-जुलाहिन, मालिक-मालिकिन
- By adding नी/आनी  
शेर-शेरनी, ऊँट-ऊँटनी, मोर-मोरनी  
देवर-देवरानी, नौकर-नौकरानी, सेठ-सेठानी
- By adding न (last ई becomes इ)  
धोबी-धोबिन, तेली-तेलिन, माली-मालिन
- By adding आइन  
पंडित-पंडिताइन, ठाकुर-ठाकुराइन
- By changing vowel sound  
नायक-नायिका, प्रिय-प्रिया, बालक-बालिका, अध्यापक-अध्यापिका

8. Some nouns have different forms in feminine  
पति-पत्नी, बैल-गाय, भाई-बहन, राजा-रानी, पिता-माता, बाप-माँ, पुरुष-  
स्त्री, मर्द-औरत, ससुर-सास, वर-वधू, विद्वान-विदुषी, कवि-कवयित्री
9. Sometimes masculine nouns are formed from feminine nouns  
by adding various suffixes :
- |                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| भैंस - she-buffalo     | भैंसा - he-buffalo                 |
| राँड- widow            | रँडुआ- widower                     |
| ननद - husband's sister | ननदोई - husband's sister's husband |
| बहन - sister           | बहनोई - sister's husband           |
| मौसी - mother's sister | मौसा - aunt's husband              |

### MODEL SENTENCES

- कोयल काली होती है, तोता हरा होता है और गौरैया भूरी होती है ।  
The cuckoo is black, the parrot is green and the sparrow is brown. (होता stands for a general statement. It means ' happens to be')
- नीबू खट्टा होता है और सेब मीठा ।  
The lemon is sour and the apple is sweet.
- आकाश में एक हवाईजहाज़ उड़ रहा है ।  
An aeroplane is flying in the sky.
- खान में सोना मिलता है ।  
Gold is available in the mine.
- सड़क पर तीन हाथी चलते हैं ।  
Three elephants move along on the road.
- मैदान में सिपाही कसरत करते हैं ।  
The soldiers do physical exercise in the field.
- यह गाय काफ़ी दूध नहीं देती ।  
This cow does not give enough milk.
- हिन्दी पाठ्य पुस्तक में दस कविताएँ हैं ।  
There are ten poems in the Hindi text-book.

- विनयमोहन तिप्पू सुलतान की तलवार दिखाता है ।  
Vinayamohan shows (exhibits) Tippu Sultan's sword.
- भालू पेड़ पर चढ़ रहा है ।  
The bear is climbing up the tree.
- यह नया अख़बार ताज़ी ख़बरें देता है ।  
This new newspaper gives fresh (latest) news.
- सुशीला की आवाज़ अत्यंत मीठी है ।  
Sushila's voice is very sweet.
- यह बहुत पुरानी इमारत है ।  
This is a very old building.
- कल से नया वर्ष शुरू हो रहा है ।  
The new year begins from tomorrow
- आज हवा धीरे-धीरे चल रही है ।  
Today the wind is blowing slowly.
- नल से पानी गिर (बह) रहा है ।  
Water is flowing from the pipe.
- यह घड़ी अक्सर तेज़ चलती है ।  
This clock often goes fast.
- यह सड़क कहाँ जाती है?  
Where does this road go (lead to )?
- आपको क्यों गुस्सा आता है ?  
Why do you get angry?
- महाबलिपुरम् मद्रास से कितनी दूर है ?  
How far is Mahabalipuram from Madras?
- पेड़ पर बैठकर पक्षी गाता है/चिड़िया गाती है ।  
Sitting on the tree, the bird sings.
- यह गली लंबी है और गंदी भी ।  
This lane is long and dirty too.
- बिल्ली की आँखें अँधेरे में चमकती हैं ।  
The cat's eyes shine in the dark.
- पहाड़ी पर कई झरने हैं ।  
There are many springs on the hill.

25. जुलाहे कपड़े बुनते हैं ।  
The weavers weave clothes.
26. पुलिस आ रही है, भागो ।  
The police is coming, run away (escape).
27. तमिलनाडु में लोग चावल ही खाते हैं ।  
The people of Tamilnadu eat only rice.
28. वह बुढ़िया खाना पका रही है ।  
That old woman is cooking food.

**VOCABULARY**

अंधेरा - darkness	आवाज़* - voice, sound
इमारत* - building	उड़ - fly
कविता* - poem	कसरत* - exercise
काफ़ी - enough	खान* - mine
गंदा - dirty	गली* - lane, alley
गाय* - cow	गिर - fall
गुस्सा - anger	चढ़ - climb
चिड़िया* - bird	जुलाहा - weaver
झरना - waterfall	तलवार* - sword
ताज़ा - fresh	तेज़ - fast
दूर - distant, far	पका - to cook
पक्षी - bird	पाठ्य पुस्तक* - text book
बह - flow	बिल्ली* - cat
बुन - weave	भालू - bear
मीठा - sweet	लंबा - tall
वर्ष - year	शुरू - begin
सड़क* - road	सिपाही - soldier
सोना - gold	हवा* - air
हवाई जहाज़ - aircraft	हाथी - elephant

**7. NUMBER**

**वचन**

A noun denoting one person or one thing is said to be in the singular number. A noun denoting more than one person or thing is said to be in the plural number.

The plural number is also used as a polite and respectful form with reference to a single person, a superior.

The singular number is inherent in the base (fundamental) form of a noun. e.g. घोड़ा, लड़का गाय, आदम

But there are also a large number of nouns which look similar in both singular and plural. e.g. घर, बैल, ऋषि, साधु, भाई, डाकू, मुनि. In these cases, we can find out their number with the help of the context. e.g. एक घर/दो घर, घर में/घरों में, मोटा बैल/मोटे बैल, डाकू भागता है/डाकू भागते हैं ।

Plurals are formed according to the following rules.

- All masculine nouns ending in आ change the आ to ए.  
घोड़ा-घोड़े, हीरा-हीरे, बेटा-बेटे, रास्ता-रास्ते, तारा-तारे  
Exception : Some nouns signifying a relationship with repetitive letter do not change in the plural. e.g. काका, चाचा, दादा, नाना, मामा. Words used directly from Sanskrit do not change. e.g. राजा, पिता, योद्धा. A few more unclassified nouns do not change in plural. e.g. अगुआ, नेता, मुखिया, वक्ता, लाला.
- All other masculine nouns remain unchanged in the plural.  
घर, बैल, आदमी, साधु, उल्लू.
- Feminine nouns ending in inherent अ take ऐँ sound in the plural.  
आँख-आँखें, औरत-औरतें, कलम-कलममें, दीवार-दीवारें, रात-रातें, गाय-गाएँ
- Feminine nouns ending in इ, ई will end in इयाँ in plural  
जाति-जातियाँ, तिथि-तिथियाँ, नीति-नीतियाँ, कुरसी-कुरसियाँ, गाड़ी-गाड़ियाँ, नदी-नदियाँ, स्त्री-स्त्रियाँ, बेटी-बेटियाँ, रानी-रानियाँ

5. Other feminine nouns take **एँ** in plural. e.g. ऋतु-ऋतुएँ, बहू-बहुएँ, माता-माताएँ, सेना-सेनाएँ, माला-मालाएँ, वस्तु-वस्तुएँ. It is usual to write **यें** for **एँ**. But **यें** form had better be avoided. The plural sign is **एँ** and not **यें**.
6. Feminine words ending in **या** take a chandrabindu in plural. e.g.  
कुटिया-कुटियाँ, गुड़िया-गुड़ियाँ, चिड़िया-चिड़ियाँ, बुढ़िया - बुढ़ियाँ

Note:

The words **लोग, गण, वर्ग, वृन्द** (people, group, class) are appended to some masculine nouns to denote plurality but as a class : **राजा लोग, आर्य लोग, पाठकगण, वाद्यवृन्द**. Among these, **गण** takes singular verb. As **वे, ये, आप** are also used as singular to indicate respect, **लोग** is added to them to emphasize a plural sense : **वे लोग, ये लोग, हम लोग, तुम लोग**.

### MODEL SENTENCES

1. रात में चूहे इधर-उधर दौड़ते हैं ।  
Rats run here and there at night.
2. इंद्रधनुष में सात रंग हैं ।  
The rainbow has seven colours.
3. बंदरगाह में कितने जहाज़ हैं ?  
How many ships are there in the harbour?
4. पंजाब में पाँच नदियाँ बहती हैं । सभी नदियाँ समुद्र में जाकर गिरती हैं ।  
Five rivers flow in Punjab. All rivers fall into the sea.
5. भारत में स्त्रियाँ चूड़ियाँ पहनती हैं ।  
Women in India wear bangles.
6. छात्रावास में तीन बहनें रहती हैं ।  
Three sisters live in the hostel.
7. नदी में नावें चलती हैं ।  
Boats move(sail) in the river.

8. रामकृष्ण कुछ पुस्तकें खरीद रहा है ।  
Ramakrishna is buying some books.
9. मैं चार भाषाएँ जानता हूँ ।  
I know four languages.
10. डाकिया चिट्ठियाँ/पत्र ला रहा है ।  
The postman is bringing letters.
11. बरसात में मच्छर बहुत काटते हैं ।  
Mosquitoes sting much in rainy season.
12. दो टोकरियाँ लाओ ।  
Bring two baskets.
13. मेज़ पर कई बंदूकें हैं ।  
There are many guns on the table.
14. नौकरानी कपड़े धो रही है ।  
The servant maid is washing clothes.
15. बग़ में सुंदर फूल खिलते हैं । (फूल खिले हैं गुलशन-गुलशन) ।  
Beautiful flowers bloom in the garden.
16. समुद्र के किनारे पर कई दुकानें हैं ।  
There are many shops on the sea-shore
17. भीमराव रोज़ बहुत मिठाइयाँ खाते हैं ।  
Bheemrao eats a lot of sweets daily.
18. बाज़ार में विदेशी खिलौने भी मिलते हैं ।  
Foreign toys also are available in the market place.
19. गाँवों में खेत अधिक हैं, इमारतें कम ।  
In villages, agricultural fields are more and buildings less.
20. हिन्दी में कई अख़बार निकलते हैं ।  
Many newspapers are published in Hindi.
21. कांचीपुरम की रेशमी साड़ियाँ मशहूर हैं ।  
Kanchipuram silk sarees are famous.
22. जंगल में जानवर रहते हैं ।  
Animals live in the forest.
23. यह चिड़िया रोज़ दो अंडे देती है ।  
This bird gives (lays) two eggs daily.

24. संसार में कई देश हैं ।  
There are many countries in the world.
25. भारत में कई धर्म, जातियाँ और भाषाएँ हैं ।  
There are many religions, castes and languages in India.
26. जमशेदपुर में कारखाने बहुत हैं ।  
There are a lot of factories in Jamshedpur.
27. वाराणसी में मंदिर कितने हैं ?  
How many temples are there in Varanasi?

**VOCABULARY**

अंडा - egg	इंद्रधनुष - rainbow	कपड़ा - cloth
काट - cut, sting	किनारा - shore	खिल - bloom
खिलौना - toy	खेत - agricultural field	गुलशन - garden
चिट्ठी* - letter	चूहा - rat	जंगल - forest
जहाज़ - ship	टोकरी* - basket	डाकिया - postman
नाव* - boat	धर्म - religion	धो - wash
बंदरगाह - harbour	बरसात* - rain	बाग - garden
मच्छर - mosquito	मिठाई* - sweet	मिल - available
विदेशी - foreign	संसार - world	समुद्र - sea
सुंदर - beautiful		

**8. CASES**

**कारक**

Case is that form of a noun or pronoun which expresses its relation with some other word in the sentence. The relationship indicated is like subject, object, means, purpose, advantage, separation, origin, possession, material, composition, place, time, etc.

There are eight case-endings in Hindi

1. **ने** This is added to the subject only in certain tenses of the past, when the verb has an object. राम ने खाया ।
2. **को** It is added to that noun which is also the object e.g. Call Rama : राम को बुलाओ. को is not generally necessary when the object is inanimate. See cinema : सिनेमा देखो । फल लाओ । मिल, पूछ take से not को.
3. **से** It is equivalent of by. It denotes the tool with which a thing is done. e.g. They went to Karachi by plane : वे हवाई जहाज़ से कराची गये ।
4. **को** It stands for 'to'. I give money to Sita : मैं सीता को रुपये देता हूँ । It need not be added to the name of a place. e.g. I am going to Delhi : मैं दिल्ली जा रहा हूँ ।
5. **से** It means from, than. The monkey falls from the tree : बंदर पेड़ से गिरता है । Bharat is older than Lakshman : भरत लक्ष्मण से बड़ा है।
6. **का** This connects two nouns. It stands for 'of' or 's'. Use का if the second noun is masculine singular. Use की if the second noun is feminine. Use के if the second noun is masculine plural or respectable person. It is also used if the second noun is masculine and is followed by one more case. राम का घर, राम की गाय, राम की बहनें, राम के कपड़े, राम के घर से।
7. **में, पर** in, at. घर में, पेड़ पर. नहाना (bathe) takes से not में.
8. **हे, अरे** etc., Used to call some one. भाइयो और बहनो, ए लड़की, हे ईश्वर, अरे नीच (O wretch !)



Note:

1. If there is a case symbol after a masculine noun ending in आ, then change that आ into ए .  
कमरा + में = कमरे में, लड़का+को=लड़के को । This rule is not applicable to masculine words shown as exceptions in the previous lesson like राजा, पिता.
2. If a case comes after a plural, add ओँ sound or letter.  
घर-घरों में, घोड़े-घोड़ों पर, गाएँ - गायों को.
3. With feminine nouns ending in ई, it is shortened to इ and यों is added in plural if followed by a case sign. e.g. लड़कियों ने, कुर्सियों पर
4. When a case sign comes after a noun it is written separately.  
e.g. दिल्ली में
5. If case sign comes after a pronoun, it is joined to the pronoun.  
e.g. तुम+को= तुमको. But पर is written separately for clarity.  
e.g. आप+पर=आप पर

#### MODEL SENTENCES:

1. रहीम को बाज़ार भेजो ।  
Send Rahim to market.
2. आजकल अध्यापक छात्रों को नहीं पीटते ।  
Nowadays teachers do not cane the students.
3. खराब फलों को बाहर फेंको । चाकू से मत काटो ।  
Throw away the rotten fruits. Don't cut with knife.
4. प्रयत्न से मनुष्य सफल होता है ।  
By effort, man becomes successful.
5. सुजाता कलम से पत्र लिखती है ।  
Sujatha writes letter with pen.

6. हम आँखों से देखते हैं ।  
We see with the eyes.
7. अफ़सर कार से दफ़्तर जाते हैं ।  
The officer goes to office by car.
8. अध्यापक लक्ष्मी को पुरस्कार देते हैं ।  
The teacher gives the prize to Lakshmi.
9. रवि को यह पुस्तक दीजिए ।  
Please give this book to Ravi.
10. गंगा हिमालय से निकलती है ।  
The Ganges starts from the Himalayas.
11. पिताजी पुस्तकालय से किताबें लाते हैं ।  
Father brings books from the library.
12. इतिहास से हम कई बातें सीखते हैं ।  
We learn many things from history.
13. बालटी में गरम पानी है । दवात में लाल स्याही है ।  
There is hot water in the bucket. There is red ink in the ink pot.
14. क्या तुम दिन में भी सोते हो ?  
Do you sleep in the daytime also?
15. पहाड़ पर एक पुराना मंदिर है ।  
There is an old temple on the mountain.
16. मेज़ पर कई किताबें हैं ।  
There are many books on the table.
17. डाल पर एक गिलहरी दौड़ती है ।  
A squirrel runs on the branch (of the tree).
18. धोबी का गधा बाग़ में चर रहा है ।  
The washerman's donkey is grazing in the garden (park).
19. दिल्ली भारत की राजधानी है ।  
Delhi is the capital of India.
20. पंजाब के लोग स्वभाव से वीर हैं ।  
The people of Punjab are by nature heroic.

21. सतीश के पिताजी क्या करते हैं ?  
What does Satish's father do?
22. हम जीभ से बोलते हैं ।  
We talk with (the help of) the tongue.
23. अरे लड़के, वहाँ मत दौड़ो ।  
You boy, don't run there.
24. करीम अब्दुल का दोस्त है ।  
Kareem is Abdul's friend.
25. सीता के पति का नाम रामनाथ है ।  
Sita's husband's name is Ramnath.

**VOCABULARY**

इतिहास - history	खराब - rotten	गधा - donkey
गिलहरी* - squirrel	छात्र - student	डाल* - tree branch
दफ़्तर- office	धोबी- washerman	पीट - beat
पुरस्कार - prize	प्रयत्न - attempt	बालटी* - bucket
बाहर - outside	राजधानी* - capital city	सफल - successful
स्वभाव - one's nature		

**9. POSSESSIVE CASE**

**संबंध कारक**

The possessive case is denoted by the sign का (of, 's). It denotes the relationship between a noun / pronoun and another noun.

1. If the next (second) noun in Hindi is masculine singular, का is used before it  
Mohan's horse मोहन का घोड़ा Rama's brother राम का भाई  
Sita's dog सीता का कुत्ता Sita's house सीता का घर
2. If the next (second) noun in Hindi is masculine plural, के is used before it.  
Boys of the school स्कूल के लड़के Mohan's horses मोहन के घोड़े  
Sita's dogs सीता के कुत्ते Trees of the forest जंगल के पेड़  
Houses of stone पत्थर के मकान Plays of Kalidasa कालिदास के नाटक
3. If the second noun in masculine is followed by another case (को, से, का, के, की, में, पर) then the का before the second noun becomes के  
in Gopal's hand गोपाल का हाथ में=गोपाल के हाथ में  
from the neighbouring house बगल का घर से= बगल के घर से  
to Sarla's brother सरला का भाई को = सरला के भाई को
4. If the second noun in Hindi is feminine की is used before it.  
Gopal's mare गोपाल की घोड़ी । Rahim's sisters रहीम की बहनों  
To Ram's mother राम की माँ को । girls of the school स्कूल की लड़कियाँ  
an assembly of women स्त्रियों की सभा distance of one mile एक मील की दूरी  
paper boat कागज़ की नाव produce of the field खेत की उपज

through your kindness murder of woman  
 आपकी कृपा से स्त्री की हत्या  
 dining table खाने की मेज़ love of mother माँ की ममता

5. A peculiar use of के is met with in such sentences as :

एक राजा के तीन रानियाँ थीं । A king had three queens  
 मेरे (मैं+के) एक बहिन है । I have one sister.

This usage denotes just the existence of queens and sister to king and I. एक राजा की तीन रानियाँ थीं will mean that there were three queens married to the king. The emphasis is on possession. However, this usage is not encouraged.

### MODEL SENTENCES

1. गोविन्द के स्कूल का नाम क्या है ?  
What is the name of Govind's school?
2. गुलाब का फूल खूबसूरत है ।  
The rose flower is pretty.
3. हरि की माँ बीमार है । इसलिए वह परसों से अस्पताल में है ।  
Hari's mother is ill. Hence she is in the hospital from day before yesterday.
4. राजन की कलम में स्याही नहीं है ।  
There is no ink in Rajan's pen.
5. सुरेश के घर में कौन रहता है ?  
Who lives in Suresh's house?
6. गंगा का पानी मीठा है ।  
The water of the Ganges is sweet.
7. मैं राधा के भाई को नहीं जानता ।  
I do not know ( am not acquainted with ) Radha's brother.
8. प्रसाद की गाय कितना दूध देती है ?  
How much milk does Prasad's cow give (yield)?

9. प्रेमा के कुत्ते का नाम नीरो है ।  
The name of Prema's dog is Nero.
10. बाग का मालिक कौन है ?  
Who is the owner of the garden?
11. भारत में अब एकता की भावना कमजोर है ।  
The feeling of unity is now weak in India.
12. लीला के घर में कितने कमरे हैं ?  
How many rooms are there in Leela's house?
13. यहाँ हिन्दी की किताबें कहाँ मिलती हैं ?  
Where do Hindi books are available here?
14. आपके घर का किराया कितना है ?  
What is the rent of your house?

### VOCABULARY

कमजोर - weak	किराया - rent, charge	खूबसूरत - pretty
गुलाब - rose	बीमार - ill	मालिक - owner

## 10. PRONOUNS

### सर्वनाम

A pronoun is a word used instead of a noun. It helps the speaker or writer to avoid clumsily repeating the name of a person every time. The Hindi pronouns are as follows.

Singular : मैं, तुम, यह, वह, जो, कौन, कोई ( तुम is singular in usage )

Plural : हम, आप, ये, वे, जो, कौन, कोई

जो who (relative); कौन who (question); कोई somebody, anybody

In English when a case is added to a pronoun, the latter changes its form. e.g. to + I = to me, by + he = by him, etc., In Hindi also similar changes take place when case-endings are added to the pronouns, as shown below.

Pronoun	ने	को	से	का	के	की	में	पर
मैं	मैंने	मुझे	मुझसे	मेरा	मेरे	मेरी	मुझमें	मुझ पर
तुम	तुमने	तुमको	तुमसे	तुम्हारा	तुम्हारे	तुम्हारी	तुम में	तुम पर
यह	इसने	इसको	इससे	इसका	इसके	इसकी	इसमें	इस पर
वह	उसने	उसको	उससे	उसका	उसके	उसकी	उसमें	उस पर
हम	हमने	हमको	हमसे	हमारा	हमारे	हमारी	हममें	हम पर
आप	आपने	आपको	आपसे	आपका	आपके	आपकी	आपमें	आप पर
ये	इन्होंने	इनको	इनसे	इनका	इनके	इनकी	इनमें	इन पर
वे	उन्होंने	उनको	उनसे	उनका	उनके	उनकी	उनमें	उन पर
जो	जिसने	जिसको	जिससे	जिसका	जिसके	जिसकी	जिसमें	जिस पर
singular		जिसे						
जो	जिन्होंने	जिनको	जिनसे	जिनका	जिनके	जिनकी	जिनमें	जिन पर
plural		जिन्हें						

कौन	किसने	किसको	किससे	किसका	किसके	किसकी	किसमें	किस पर
singular		किसे						
कौन	किन्होंने	किनको	किनसे	किनका	किनके	किनकी	किनमें	किन पर
plural								
कोई	किसीने	किसीको	किसीसे	किसीका	किसीके	किसीकी	किसीमें	किसी पर

Suppose after यह, वह, ये, वे, जो, कौन, कोई there is a noun and if there is also a case sign after that noun, then these pronouns change into इस, उस, इन, उन, जिस, जिन, किस, किन, किसी. e.g.

in which country - जो देश में - जिस देश में

of that man - वह आदमी का - उस आदमी का

from this boy - यह लड़का से - इस लड़का से - इस लड़के से

in these rooms - ये कमरे में - इन कमरे में - इन कमरों में

the name of our country - हम का देश का - हम के देश का - हमारे देश का

### MODEL SENTENCES

1. तुम्हारा (तुम+का) नाम क्या है? मेरा नाम वरदराज है।  
What is your name? My name is Varadaraj.
2. तुम किससे हिन्दी सीखते हो?  
From whom do you learn Hindi?
3. मेरी (मैं+की) बहन मुझे (मैं+को) सिखाती है।  
My sister teaches me.
4. माताजी तुमको बुला रही हैं। तुरंत जाओ।  
Mother is calling you. Go at once.
5. हम उस दुकान से चावल खरीदते हैं।  
We buy rice from that shop.
6. इन पहाड़ों पर झरने हैं।  
There are waterfalls on these mountains.
7. किसी कारण से वे रोज़ यहाँ आते हैं।  
Owing to some reason, he comes here daily.
8. तुम्हारी सहेली के पिताजी का नाम क्या है?  
What is the name of your friend's father? (सहेली - girl's girl friend).

9. तुम्हारी(आपकी) बहिन शीला मेरी छात्रा है ।  
Your sister Sheela is my student.
10. उस गाँव में हमारा एक घर है ।  
We have a house in that village.
11. इन साइकिलों में आपकी साइकिल कौन-सी है?  
Among these cycles which is yours?
12. डाक्टर साहब, मेरी जीभ देखिए, मेरे दाँत देखिए ।  
Doctor, please look at (examine) my tongue and my teeth.
13. मेरी भाभीजी नाटकों में अभिनय करती हैं ।  
My brother's wife acts in dramas.
14. तुम मुझसे जल्दी लिखते हो ।  
You write faster than me (than I do)
15. दुलहिन के दोनों हाथों में सुंदर चूड़ियाँ हैं ।  
There are beautiful bangles in both the hands of the bride.
16. तुम्हारे घर का पता क्या है?  
What is your house (residential) address?
17. वे किस दफ्तर में काम करते हैं?  
In which office does he work?
18. पवित्रा किस दर्जे में पढ़ती है ?  
In which class does Pavitra study?
19. इस किले का दरवाज़ा किधर है ?  
Where is the door of this fort (situated)?
20. जो भौंकते हैं सो काटते नहीं ।  
One who barks does not bite. (Barking dogs seldom bite)
21. जो सोवत है सो खोवत है ।  
One who sleeps (much) loses.

### VOCABULARY

अभिनय - acting	कारण - reason	क़िला - fort
चावल - rice	चूड़ी* - bangle	जल्दी - quickly
जीभ* - tongue	दर्जा - class, grade	दाँत - tooth
दुलहिन* - bride	नाम - name	पता - address
बुला - call	भाभी* - brother's wife	

## 11. REFLEXIVE PRONOUN

### अपना

Reflexive pronoun substitutes or refers to a noun or pronoun. If we say, 'Rama does Rama's work,' it will sound clumsy. So we say, 'Rama does his work'. 'His' reflects Rama.

In Hindi अपना is used as reflexive pronoun in such cases. Instead of saying मैं मेरा घर जाता हूँ we must say मैं अपना घर जाता हूँ । As अपना gives the same meaning of का-के-की, अपना has three forms : अपना-अपने-अपनी

Use अपना if the next noun is masculine singular

Use अपने if the next noun is masculine plural or respectable person.

Use अपनी if the next noun is feminine.

Use अपने if the next noun is masculine and is followed by a case sign.

E.g. My name (is Ram) - मैं+का नाम - मेरा नाम

I (write) my name मैं मैं +का नाम - मैं मेरा नाम - मैं अपना नाम  
(i.e. My reflects I)

### MODEL SENTENCES

1. नंदलाल अपनी घड़ी कमला को देता है ।  
Nandalal gives his watch to Kamala.
2. पिताजी अपने कमरे में सोते हैं ।  
Father sleeps in his room.
3. मैं अपनी क़लम से लिखता हूँ ।  
I write with my pen.
4. योगेश अपना पाठ पढ़ता है ।  
Yogesh reads his lesson.
5. हरि अपनी बहिन को स्कूल ले जाता है ।  
Hari takes his sister to school.
6. वे अपना घर नहीं बेचते ।  
They do not sell their house.

7. सब लोग अपने देश से प्यार करते हैं।  
All people love their country.
8. रम्या अपनी कुर्सी पर बैठी है।  
Ramya sits on her chair.
9. मैं अपने दफ्तर में मशहूर हूँ।  
I am popular in my office.
10. तुम अपने चाचाजी को बुलाओ।  
You call your uncle.
11. गाय अपने बछड़े को दूध देती है।  
The cow gives milk to its calf.
12. चपरासी अपने अधिकारी को सलाम करता है।  
The peon salutes his officer.
13. तोताराम अपना वेतन अपनी पत्नी के हाथ में देते हैं।  
Totaram gives his pay to his wife.
14. मज़दूर शामको अपने घर लौटते हैं।  
The labourers return to their homes in the evening.
15. मनुष्य अपने मन (दिल) की बात नहीं जानता।  
Man does not know what is in his mind.
16. मीरा अपने कपड़े धो रही है।  
Meera is washing her clothes.
17. अहमद इलाहाबाद में अपने भाई के घर में रहता है।  
Ahmed lives in his brother's house in Allahabad
18. जेकब अपना पाठ याद कर रहा है।  
Jacob is memorizing his lesson.
19. कल्याणराम हर साल अपना जन्मदिन ख़ूब मनाता है।  
Kalyanram celebrates his birthday every year very well.
20. मैं अपना पूरा वेतन बैंक में जमा करता हूँ।  
I deposit my full pay in the bank.

**VOCABULARY**

अधिकारी - officer	कमरा - room	चपरासी - peon
चाचा - uncle	पत्नी* - wife	प्यार - love
बछड़ा - calf	वेतन - salary	सलाम - salute
शामको - in the evening		

**12. ADJECTIVES**

**विशेषण**

An adjective is a word which qualifies a noun, a pronoun or another adjective. In 'blue sky,' 'angry sea,' blue and angry are adjectives. In the line, "The woods are lovely, dark and deep," the words lovely, dark, deep are adjectives as they say something special about the noun 'woods'.

Generally an adjective says something about the quality (अच्छा, बुरा, काली), quantity (बहुत), number (पाँच), state or condition (ठंडा, बीमार) of a noun or merely points out (यह, वह).

If सा-से-सी is attached to an adjective, it intensifies the idea. e.g. थोड़ा-सा काम, बहुत-से-लोग, दुबली-सी लड़की

According to the last letter of the word the adjectives in Hindi are of two kinds:

1. those ending in आ-अच्छा, काला, छोटा, ठंडा, नीला, बड़ा
2. those ending in other letters - गरम, सुंदर

An adjective ending in आ can qualify only a masculine singular noun. If the noun is feminine, आ will become ई.

If the noun is masculine plural or a respectable person, then आ will become ए.

If the masculine singular is followed by a case sign then also आ becomes ए. However, the following adjectives ending in आ do not change at all: सवा, बढ़िया, घटिया, उमदा, दुखिया

good boy - अच्छा लड़का	masculine singular
good girl - अच्छी लड़की	feminine singular
good girls - अच्छी लड़कियाँ	feminine plural
good boys - अच्छे लड़के	masculine plural
good leader - अच्छे नेता	masculine respect

to the good boy - अच्छे लड़के को noun followed by case

All other adjectives ending in any other letter do not change whether they qualify a masculine or feminine noun or a singular or plural noun.

- सुंदर लड़का - handsome boy - masculine singular  
 गरम चाय - hot tea - feminine singular  
 कुरूप इमारतें - ugly buildings - feminine plural  
 गरीब लोग - poor people - masculine plural  
 सफ़ेद कागज़ पर - on white paper - noun followed by case

### MODEL SENTENCES

1. सुधा छोटी लड़की है, मगर वह होशियार है।  
Sudha is a little girl, but she is clever.
2. यह पहाड़ ऊँचा है।  
This mountain is high.
3. वह पीली इमारत न्यायालय है।  
That yellow building is the court.
4. भारत के शहर गंदे होते हैं।  
Towns in India are dirty.
5. समुद्र का खारा पानी कोई नहीं पीता।  
Nobody drinks the salty water of the sea.
6. वह अमीर महिला कभी फटे कपड़े नहीं पहनती।  
That rich woman never wears torn clothes.
7. लीला नीली साड़ी ही चाहती है।  
Leela wants blue saree only.
8. तमिलनाडु में कई प्राचीन मंदिर हैं।  
There are many ancient temples in Tamilnadu.
9. हिन्दी एक आसान भाषा है।  
Hindi is an easy language.
10. गंगा का पानी साफ़ और पवित्र है।  
The water of the Ganges is clean and holy.
11. रामदास के हाथ में एक टूटी घड़ी है। वह विदेशी घड़ी है।  
Ramdas has a broken watch in his hand. It is a foreign watch.
12. सेब मीठा फल है, लेकिन नींबू खट्टा फल है।  
Apple is a sweet fruit but lemon is sour.

13. दक्षिण भारत की नदियाँ अधिक गहरी नहीं हैं।  
The rivers of south India are not very deep.
14. यह नया मकान किसका है?  
Whose is this new house?
15. मंत्री साहब हमेशा पहले दर्जे में यात्रा करते हैं।  
The minister always travels in the first class.
16. यहाँ सुबह ताज़े अंडे मिलते हैं।  
Fresh eggs are available here in the morning.
17. उस बीमार आदमी का शरीर कमज़ोर है।  
The body of that patient is weak.
18. उर्दू एक मुश्किल ज़बान है।  
Urdu is a difficult language.
19. उस रेस्तराँ में स्वादिष्ट भोजन मिलता है।  
Tasty food is available in that restaurant.
20. हामिद एक मैली टोपी पहनता है।  
Hamid wears a dirty cap.
21. सोना चाँदी से महँगा है।  
Gold is costlier than silver.

### VOCABULARY

अमीर - rich	आसान - easy	ऊँचा - high, tall
खट्टा - sour	खारा - salty	गहरा - deep
चाँदी * - silver	चाह * - desire	ज़बान * - language
टूटा - broken	टोपी * - hat	नींबू - lemon
नीला - blue	न्यायालय - court	पवित्र - holy
पहला - first	पीला - yellow	प्राचीन - ancient
फटा - torn	बीमार - ill	भोजन - food
मैला - dirty	मगर - but	महिला * - woman
मुश्किल - difficult	यात्रा * - travel	सुबह * - morning
सेब - apple	सोना - gold	स्वादिष्ट - tasty
शरीर - body	होशियार - clever	

### 13. COMPARISON OF ADJECTIVES

#### विशेषणों की तुलना

In English, the adjectives undergo certain changes in the comparative and superlative degrees, like, good-better-best, big-bigger-biggest. In Hindi, there is no such change in the form.

1. In Hindi, the comparative degree (उत्तरावस्था) is formed by putting से (than) after the person or thing with which the comparison is made.

मेरी कलम तुम्हारी कलम से अच्छी है।

My pen is better than your pen.

यह कमरा उस कमरे से बड़ा है।

This room is larger than that room.

2. In the place of से some times की अपेक्षा or की बनिस्बत is used.
3. The degree of comparison can be modified by putting before the adjective words like अधिक, ज्यादा, कम, बढ़कर, कहीं, निहायत
4. The superlative degree (उत्तमावस्था) is formed by putting सबसे (of all) before the adjective.

कमला सबसे खूबसूरत लडकी है।

Kamala is the most beautiful girl.

जियाराम सबसे खराब छात्र है।

Jiyaram is the worst student.

राधा सब औरतों से लंबी है।

Radha is the tallest of all women.

5. When the noun compared is not mentioned, the adjective is repeated, putting से between them, to express the superlative degree.

अच्छे से अच्छा आदमी the best man

भारी से भारी पत्थर the heaviest stone

खराब से खराब आदमी the worst man

मोटी से मोटी गाय the fattest cow

6. The superlative degree is also expressed sometimes by the use of में.

इन महलों में यही मज़बूत है।

This is the strongest of these palaces.

#### MODEL SENTENCES

1. त्रिविक्रम कक्षा में सबसे लंबा लड़का है।  
Trivikram is the tallest boy in the class.
2. तंदुरुस्ती के लिए नदी का पानी सबसे उत्तम है।  
Water of the river is the best for health.
3. मेरी कार तुम्हारी गाड़ी से तेज़ चलती है।  
My car runs faster than your vehicle.
4. नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है।  
An intelligent foe is better than a foolish friend.
5. मुश्किल से मुश्किल काम भी मैं कर सकता हूँ।  
I can do even the toughest work.
6. राम से गोपाल क्रद में छोटा है।  
Gopal is shorter in height than Ram.
7. तैराकी सबसे फ़ायदेमंद कसरत है।  
Swimming is the most beneficial exercise.
8. गंगाजी सभी नदियों में पवित्र है।  
The Ganges is the holiest of all the rivers.
9. रोकथाम इलाज से अच्छी है।  
Prevention is better than cure.
10. शारीरिक दृष्टि से पुरुष स्त्री से बलवान होता है।  
From physical point of view, man is stronger than woman.
11. राम की अपेक्षा रहीम होशियार है।  
As compared to Ram, Rahim is cleverer.
12. गधे की बनिस्बत घोड़ा ज्यादा मज़बूत है।  
Compared to the donkey, the horse is stronger.



13. सोना चाँदी से बढ़कर महँगा है।  
Gold is a lot costlier than silver.
14. घर की मिठाई दुकान की मिठाई से कहीं मीठी है।  
Home-made sweet is much sweeter than the sweet prepared in shop.
15. खून पानी से छः गुना ज़्यादा गाढ़ा होता है।  
Blood is six times thicker than water.
16. शहर के जीवन से गाँव का जीवन कम खर्चीला है।  
Village life is less expensive than town life.
17. मैं अब बूढ़ा हूँ। मेरे अच्छे से अच्छे दिन अब कहाँ हैं?  
I am an old man now. Where are my best days now?

## 14. ADVERBS

### क्रिया विशेषण

An adverb is a word that modifies or qualifies a verb. In other words, it indicates how a verb (action) is done. An adverb may indicate the time or place or manner or degree (amount) of action, with reference to a verb.

Some examples:

Time : आज, कल, रोज़, बाद में, सबेरे, अब, जब, तब

Place : आगे, पीछे, पास, दूर, दाहिने, बायें, ओर, ऊपर, बाहर

Manner : अचानक, सहसा, जल्दी, धीरे, पैदल, क्रमशः, यों, हरगिज़, आसानी से

Degree : बिलकुल, लगभग, और, प्रायः, ज़रा, सिर्फ़, केवल, बस, बहुत, कम, इतना

Adverbs do not undergo any change when used in a sentence. Whether a verb is in masculine or feminine, in singular or plural, the adverb qualifying it does not change.

e.g. गोमती अच्छा गाती है (Gomathi sings well).

खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं (The players play well).

### MODEL SENTENCES

- केरल में अक्सर पानी बरसता है।  
It rains often in Kerala.
- माताजी अभी रोटी तैयार कर रही है।  
Mother is preparing roti just now.
- आजकल विद्यार्थी अच्छी तरह नहीं पढ़ते।  
Nowadays students do not read well.
- वे सिनेमा ज़्यादा देखते हैं। यह हरगिज़ ठीक नहीं है।  
They see films much. This is not at all good.
- रमेश कभी काफ़ी नहीं पीता।  
Ramesh never drinks coffee.

6. मेरी बहन कभी-कभी ही सिनेमा जाती है।  
My sister goes to cinema only sometimes.
7. वह गाय क्यों कम दूध देती है ?  
Why does that cow give less milk?
8. यहाँ से जल्दी चले जाओ ।  
Go away from here quickly.
9. यह बिलकुल ठीक है।  
This is perfectly all right.
10. उत्तर भारत के लोग रोज़ आलू खाते हैं ।  
The people of North India eat potato daily.
11. घोड़े मैदान में तेज़ दौड़ रहे हैं ।  
Horses are running fast in the ground.
12. रामप्रकाश हर महीना देर से किराया देता है।  
Ramprakash gives rent late every month.
13. हमारे गाँव धीरे-धीरे उन्नति कर रहे हैं।  
Our villages are making progress gradually.
14. यह नौकरानी हमेशा झूठ बोलती है।  
This servant-maid always tells lies.
15. खाँसी के कारण मुझे रात भर नींद नहीं आती ।  
Due to cough, I do not get sleep throughout night.
16. गिलहरी इधर-उधर दौड़ती है।  
The squirrel runs here and there.
17. अंजना दिल्ली में कहाँ ठहरती है?  
Where does Anjana stay in Delhi?
18. फ़िल्मों में खलनायक ज़ोर से हँसता है।  
In films the villain laughs loudly.
19. तुम अधिकारी को तुरंत एक अर्ज़ी लिखो।  
You write an application to the officer immediately.
20. मुझे केवल सिरदर्द है। वह भी एकतरफ़ा है।

- I have only headache. That too is one sided.
21. नटखट लड़के ज़ोर से घंटी बजा रहे हैं।  
The naughty boys are ringing the bell loudly.
  22. तुम कहाँ जा रहे हो? मैं यों ही जा रहा हूँ।  
Where are you going? I am just going (for no reason).

**VOCABULARY**

अर्जी* - petition	आलू - potato	उत्तर - north
उन्नति* - progress	कम - less	किराया - rent
खलनायक - villain	खाँसी* - cough	घंटी* - bell
ज़ोर से - loudly	तुरंत - at once	तैयार - ready
देर से - late	धीरे - slowly	नटखट - naughty
नींद* - sleep	बरस - to rain	बिलकुल - completely
यों - just, thus	सिरदर्द - headache	हरगिज़ - at all

## 15. VERBAL NOUNS / GERUNDS

### क्रियार्थक संज्ञा

In the expression, "Seeing is believing," seeing and believing are nouns. As they are formed from verbs, they are called verbal nouns. In Hindi, verbal noun is formed by adding ना to the root of the verb. e.g. आना, जाना, पढ़ना, लिखना, खेलना.

As the verbal nouns end in आ, this आ will change into ए sound if it is followed by a case-ending (को, से, का, etc.)

by eating खाना+से- खाने से

for reading पढ़ना+के लिए - पढ़ने के लिए

for saying कहना+को - कहने को

of coming आना+का - आने का

in going जाना+में - जाने में

on return लौटना+पर - लौटने पर

### MODEL SENTENCES

1. सुबह जल्दी उठना अच्छा है ।  
Getting up early in the morning is good.
2. लीला नाचना जानती है ।  
Leela knows dancing.
3. कसरत करना एक अच्छी आदत है ।  
Doing exercise is a good habit.
4. अक्सर काफ़ी पीना बुरा है ।  
Drinking coffee often is bad.
5. सच बोलने से सफलता मिलती है ।  
By speaking truth we get success.
6. दान देने से मनुष्य प्रसिद्ध बनता है ।  
A man becomes famous by giving alms.

7. सिनिमा देखने से सिरदर्द होता है ।  
By seeing cinema we get headache.
8. अख़बार पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है ।  
Our knowledge increases by reading newspaper.
9. धूमधाम से त्योहार मनाना उचित नहीं है ।  
It is not proper to celebrate festivals with pomp.
10. घोड़े पर सवार करना आसान नहीं है ।  
It is not easy to ride a horse.
11. देवराज पढ़ना-लिखना नहीं जानता ।  
Devraj does not know reading and writing.
12. ग़लती करना मनुष्य का स्वभाव है । क्षमा करना ईश्वर का गुण है ।  
To err is human, to forgive divine.
13. हत्या करना पाप है, परंतु युद्ध में शत्रुओं को मारना वीरता है ।  
Murder is a sin but to kill enemies in war is heroism.
14. ऐसा घर मिलना मुश्किल है ।  
It is difficult to get such a house.

-2-

The infinitive (to + verb) also is expressed by verbal nouns. It is good to walk, walking is good - both should be translated as टहलना अच्छा है ।

1. मैं सभा में बोलना चाहता हूँ ।  
I want to speak in the meeting.
2. क्या आप टाइप करना जानते हैं ?  
Do you know how to type?
3. मैं कार चलाना नहीं जानता ।  
I do not know how to drive a car.
4. वह आलसी लड़का स्कूल जाना नहीं चाहता ।  
That lazy boy does not want to go to school.

5. तुम भविष्य में क्या बनना चाहते हो ?  
What do you want to become in the future?
6. क्या तुम्हारी बहन खाना बनाना पसंद करती है ?  
Does your sister like to cook?

-3-

The word, 'for' in expressions like for coming, for going, for reading, etc., are translated by के लिए. Though के is not a case-ending here, it is nevertheless a case symbol. Therefore when के लिए occurs, the verbal noun will end in ए sound. e.g. for going जाना+के लिए-जाने के लिए. It also means to go.

1. रोगी को देखने के लिए डाक्टर साहब आ रहे हैं ।  
The doctor is coming for seeing the patient (to see)
2. आजकल पेट भरने के लिए मनुष्य क्या नहीं करता ?  
What does not man do for filling his stomach nowadays?
3. ललिता कावेरी में नहाने के लिए जाती है ।  
Lalitha goes for bathing in the Cauvery.
4. आज का युवा वर्ग छोटी उम्र में शादी कर लेने के लिए तैयार नहीं है ।  
Today's younger generation is not ready to get married at an early age.

-4-

Verbal nouns are also used to denote order. But they are milder in tone. They sound more like an advice. It is less strong than the prohibitive मत. It is not generally used if the person addressed is older in years.

1. बासी रोटी मत खाना ।  
Don't eat stale bread.
2. कल यह काम पूरा करना ।  
Finish this work tomorrow.
3. रोज़ नियम से पढ़ना ।  
Read daily regularly.

4. आज शामको ज़रूर मेरे घर (को) आना ।  
Please do come to my house this evening
5. अच्छे काम में आगा-पीछा न करना ।  
Do not hesitate in doing a good deed.

-5-

The case-ending is often dropped after a verbal noun if soon followed by another verb. The verbal noun retains the ए form.

सीता गोपाल को देखने (के लिए) जाती है । Sita goes to see Gopal.  
मैं अब सोने (को) जाता हूँ । Now I go to sleep (bed).  
वे रोज़ मुझे पढ़ाने (को) आते हैं । He comes daily to teach me.

### VOCABULARY

आदत* - habit	आलसी - lazy	शलती* - mistake
ज़रूर - surely	दान - alms	धूमधाम* - pomp
नियम से - regularly	पाप - sin	पेट - stomach
प्रसिद्ध - famous	बासी - stale	भरना - fill
भविष्य - future	युद्ध - war	रोगी - one who is ill
वीरता* - heroism	सभा* - meeting	सवार - ride

## 16. POST - POSITIONS

### संबंधबोधक

In English what we call preposition is understood as post-position in Hindi. It indicates a relation between a noun/pronoun and another noun, pronoun or verb. e.g. a book for you, under the tree, come with me, he lives opposite this house.

In Hindi, for, under, with, opposite, etc., are placed after the noun/pronoun. Therefore they are known as post-positions.

Generally post-positions take के before them (के साथ). Some have की before them (की ओर towards). Very rarely से is used instead of के (से पहले). The case-sign is sometimes omitted. e.g. नदी पार - across the river.

Even though के,की,से as attached to post-position have no meaning, yet they are case symbols. They will affect the previous noun if it is masculine and ends in आ sound. (Please see Lessons 8 and 9). How they affect the pronouns has been tabulated in Lesson 10. e.g. मैं+को=मुझे

Inside the room - कमरा+के भीतर-कमरे के भीतर

Outside the big room - बड़ा+कमरा+के बाहर-बड़े कमरे के बाहर

Opposite your house - तुम +का+घर+के सामने - तुम्हारे घर के सामने

a. The following post-positions are used with के

अंदर - within	अतिरिक्त - besides, moreover
अलावा - besides	अनुसार - according to
आगे - beyond, ahead	आसपास - around
ऊपर - above, upon	कारण - due to
ज़रिए - through	द्वारा - through
नज़दीक - near	नीचे- below, under
पहले - before	पार - across
प्रति - toward	पास - near, with (to have)
पीछे - behind	बजाय - instead of

बदले - instead of	बराबर - equal
बाद - after	बारे में - about
बावजूद - in spite of	बाहर - outside
बिना - without	बीच में - in the middle
भीतर - within	मारे - on account of
यहाँ - at the place of	योग्य - worthy
लायक - worthy	लिए - for
वास्ते - for	विपरीत - contrary to
विरुद्ध - against	समान - like
साथ - with	सामने - in front of
सिवा, सिवाय - except	हाथ - through

b. The following post-positions begin with की

अपेक्षा - in comparison to	बदौलत - due to
ओर - towards	बनिस्बत - in comparison to
खातिर - for the sake of	बाबत- concerning
जगह - in the place of	भाँति - like
तरह - like, similar to	मारफ़त - through

c. The following post-positions have a से

पहले before (also के )	बाहर outside (also के)
दूर far	

d. For the sake of style or emphasis, के /की/से may be omitted. For the same reason बिना/मारे/सिवा may precede the noun/pronoun.

e.g. चिराग़ तले अंधेरा (darkness under lamp), शस्त्र द्वारा, इस बारे में, बिना उसके, मारे भूख के, सिवा मेरे

e. When ओर comes after a number, it will take के not की as in शहर के चारों ओर, घर के दोनों ओर

### MODEL SENTENCES

- घर के ऊपर एक कौआ उड़ रहा है।  
A crow is flying above the house.

2. वर्षा में पेड़ के नीचे मत बैठो ।  
Don't sit under a tree during rain.
3. इस शहर के बाहर एक कारखाना है ।  
There is a factory outside this town.
4. अधिकारी दस बजे के बाद दफ्तर आते हैं ।  
Officer comes to the office after ten o' clock.
5. रहीम की अपेक्षा अब्दुल होशियार है ।  
Compared to Rahim, Abdul is clever.
6. आजकल रामराव की जगह कौन काम करता है ?  
Who works in the place of Rama Rao nowadays?
7. कमरे के अंदर बच्चा सो रहा है ।  
The child is sleeping inside the room.
8. अभी वे मस्जिद (मसजिद) की तरफ जाते हैं ।  
They go just now towards the mosque.
9. गिरजाघर के पीछे (गिरजे के पीछे) एक बगीचा है ।  
There is a garden behind the church.
10. उमा के पास एक रुपया भी नहीं है ।  
Uma has not even a rupee (with her).
11. मेरे घर के सामने एक दर्जी की दुकान (दूकान) है ।  
There is a tailor's shop in front of my house.
12. दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर है ।  
Delhi is on the banks of the Yamuna river.
13. नरेन्द्र अपनी माँ के साथ बाज़ार जा रहा है ।  
Narendra is going to market with his mother.
14. मैं अपने अध्यापक के लिए दवा ख़रीदता हूँ ।  
I buy medicine for my teacher.
15. जोसफ़ चीनी के बिना चाय नहीं पीता ।  
Joseph does not drink tea without sugar.
16. लक्ष्मी लता की तरह (के समान) गाती है ।  
Lakshmi sings like Lata.
17. तुम अकबर के बारे में क्या जानते हो ?  
What do you know about Akbar?
18. करीम रात में ग्यारह बजे के पहले नहीं सोता ।  
Kareem does not sleep before eleven o' clock at night.

19. आज मेरे दोस्त के यहाँ दावत है ।  
Today there is a feast at my friend's place (house).
20. हम जहाँ भी जाते हैं, हमारी छाया भी हमारे साथ आती है ।  
Wherever we go, our shadow also comes with us.

-2-

All the above sentences make it clear that post-position indicators come only after a noun/pronoun in Hindi.

Hence, if in any special construction some other word precedes a post-position, that word should be converted into a noun. e.g. 'after Ram has spoken' 'After' is the post position. It comes before the noun in English. But when translated into Hindi, 'has spoken' precedes 'after'. Therefore has spoken – a verb – has to be changed into a noun, i.e. a verbal noun, i.e. बोलना. The translation will be

राम का बोलना+के बाद-राम के बोलने के बाद

### MODEL SENTENCES

1. Clean this room after the tourist leaves.  
यात्री के जाने के बाद यह कमरा साफ़ करो ।
2. I read this novel before you read.  
आपके पढ़ने के पहले मैं यह उपन्यास पढ़ता हूँ ।
3. Mother sleeps after we have all slept.  
हम सबके सोने के बाद माताजी सोती हैं ।
4. He helps others in spite of being poor.  
गरीब होने के बावजूद वे दूसरों की मदद करते हैं ।
5. Write the essay according to the teacher's instruction.  
अध्यापक के कहने के अनुसार निबंध लिखो ।

### VOCABULARY

उपन्यास - novel	कौआ - crow
गिरजाघर - church	चीनी* - sugar
दर्जी - tailor	दवा* - medicine
दावत* - feast	दोस्त - friend
बगीचा - garden	मदद* - help
मस्जिद* - mosque	वर्षा* - rain

## 17. CONJUNCTIONS

### समुच्चय बोधक, योजक

Conjunctions are words which link or connect words, sentences or parts of a sentence, e.g. mother and child, good or bad; I came but you had left; You said that you would come; The servant will wait until you are ready. Put two and two together.

Some of the important Hindi conjunctions are given below.

- i. और, तथा, एवं, व - and. एवं/एवम् has restricted use 'as well as'. The use of व is becoming obsolete.
- ii. या, अथवा, वा - or. कि - or (colloquial). या तो ... या - either...or. न...न... - neither...nor. वा is archaic. जब ... तब - when ... then.
- iii. पर, परंतु, किन्तु, मगर, लेकिन, वरन् - but. प्रत्युत, बल्कि - but also, besides, but, on the other hand. वरन् is now obsolete.
- iv. इसलिए, अतएव, अतः, सो - therefore, hence, consequently.
- v. क्योंकि - because. इसलिए...कि - so that, for the purpose that. चूँकि - as, because.
- vi. अगर/यदि...तो - if...then. यद्यपि - although. तो भी, फिर भी, - yet, even so, still. यद्यपि ... तथापि - though...yet. हालाँकि - even though. ज्यों-ज्यों - the more. अलबत्ता - however, nevertheless.
- vii. कि - (said) that, whether. अर्थात् that is, i.e. (id est)

### MODEL SENTENCES

1. तुम सबरे काफ़ी पीते हो या चाय ?  
Do you drink coffee or tea in the morning?
2. आज इतवार है, इसलिए छात्र स्कूल नहीं जाते ।  
Today is Sunday. Hence the students do not go to school.
3. मेरे घर के पास एक तालाब है, लेकिन उसका पानी गंदा है ।  
There is a tank near my house, but its water is dirty.
4. यह घड़ी सुंदर तो है, मगर इसका दाम ज़्यादा है ।  
This watch is of course beautiful but its price is much.
5. चूँकि वे मेरे मित्र हैं, उनके खिलाफ़ मत देना नहीं चाहता ।  
As he is my friend I do not want to vote against him.

6. पानी बरस रहा है, तो भी वे दफ़्तर जाते हैं ।  
It is raining, yet they go to office.
7. यह काम कठिन है, फिर भी कुमार इसे कर रहा है ।  
This work is tough, still Kumar is doing it.
8. मर्ज़ बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की ।  
The more the medicine given the more the disease increased.  
(Remedy is worse than disease).
9. यद्यपि रहीम मुझसे उम्र में बड़ा है तो भी वह नम्र है ।  
Even though Rahim is elder to me in age, yet he is polite.
10. मैं सोचता हूँ कि आज छुट्टी है । नहीं तो तुम दफ़्तर जाओ ।  
I think that today is holiday. Otherwise you go to office.
11. जब भी मेरे मामाजी आते हैं तब बच्चों के लिए वे ज़रूर खिलौने लाते हैं ।  
Whenever my uncle comes, he surely brings toys for children.
12. मैं आज नहीं नहाता क्योंकि मैं बीमार हूँ ।  
I do not take bath today because I am unwell.
13. हरीश से पूछो कि वह हिन्दी जानता है या नहीं ।  
Ask Harish whether he knows Hindi or not.
14. मोहन कहता है कि मौसम अच्छा है ।  
Mohan says that the climate is good.
15. चोर सोचता है कि उसे कोई नहीं देखता । पर वह बेवकूफ़ है  
The thief thinks that nobody sees him. But he is a fool.
16. ग़रीब आदमी के मकान में न तो मेज़ है और न कुरसी ।  
In the house of the poor man there is neither table nor chair.
17. यद्यपि दुकानों में चावल नहीं तो भी वह काले बाज़ार में मिलता है ।  
Even though there is no rice (available) in shops, yet it is available in the black market.
18. श्रीनिवास कहता है कि उसे भूख नहीं है ।  
Srinivas says that he is not hungry.
19. अगर सर्दी का मौसम आता है तो क्या वसंत बहुत दूर पर हो सकता है ?  
If Winter comes, can Spring be far behind? (Shelley)

### VOCABULARY

- |                |                            |
|----------------|----------------------------|
| उम्र* - age    | काला बाज़ार - black market |
| चोर - thief    | बेवकूफ़ - fool             |
| भूख* - hunger  | मत - vote                  |
| मौसम - climate | विनम्र - polite            |

## 18. INTERJECTIONS

### विस्मयादि बोधक, द्योतक

An interjection is a word expressing some emotion like pain, pleasure, anger, surprise, dislike, disgust, etc. e.g. Oh, Ah, Alas!

The interjection has an independent existence and has no grammatical relation with any other word in the sentence. But it may be prefixed to (placed before) a noun while addressing. e.g. Oh God!

The following are the important interjections in Hindi.

1. Surprise - ओह, अरे, ओहो, हैं (जी), क्या, अच्छा, बाप रे बाप ।
2. Applause - वाह, शाबाश, खूब, धन्य, क्या बात है, बढ़िया है ।
3. Sorrow - हाय, हा, आह, शोक, ओफ़, उफ़, अफ़सोस !
4. Joy - अहा, आहा, वाह-वाह !
5. Disgust - छिः, थू, धिक्कार !
6. Shyness - धत्, हट !
7. Distress - हाय रे, दैया रे, बाप रे, बाप रे बाप !
8. Rebuke - चल हट !
9. Sympathy - राम! राम!

Some interjections can be used as nouns.

1. क्यों हाय-हाय मचा रहे हो?  
Why are you kicking up a row?
2. सब धन्य-धन्य करने लगे।  
All began shouting bravo.

## 19. FUTURE TENSE

### भविष्यत् काल

The future tense represents an action or a state as yet to take place or to come into being. Sentences to indicate the future tense can be formed by adding appropriate suffix to the verb root. The suffix that is added will depend upon the noun: masculine-feminine, singular-plural, I person, II person and III person.

Subject	Verb root	Future suffix masculine	Future suffix feminine
मैं	जा	ऊँगा	ऊँगी
तुम	जा	ओगे	ओगी
यह, वह	जा	एगा	एगी
हम, आप	जा	एँगे	एँगी
ये, वे			

### Note:

1. All subjects in plural have the same end in masculine - एँगे.
2. If ई sound is added to masculine suffix, we get the feminine forms.
3. If the verb root is like पढ़, लिख, the अ sound at the end merges with future suffix.  
I will read - मैं पढ़+ऊँगा-मैं पढ़ूँगा ।  
You will write - तुम लिख+ओगे-तुम लिखोगे ।  
Women will listen - स्त्रियाँ सुन + एँगी - स्त्रियाँ सुनेँगी ।
4. जी (live), पी (drink) are first shortened to जि and पि and then the future tense suffixes are added as shown in the table above.  
छू (touch) is shortened to छु for future tense.
5. The following three verb roots take different forms when the future tense suffixes are added. These verbs are exceptions to the rule shown in the table.



Masculine

Subject	ले	दे	हो
मैं	लूँगा	दूँगा	हूँगा
तुम	लोगे	दोगे	होगे
वह, यह	लेगा	देगा	होगा
हम, आप	लेंगे	देंगे	होंगे
वे, ये			

For the above verbs, the feminine forms are obtained by ending them with गी.

ले-लूँगी, लोगी, लेगी, लेंगी

दे-दूँगी, दोगी, देगी, देंगी

हो - हूँगी, होगी, होगी, होंगी

Note:

It is common practice to write आयेगा, जायेगा, आयेंगे, जायेंगे and so on using य. But the regular, and therefore preferable, forms are those with ए and एँ-आएगा, जाएगा, आएँगे, जाएँगे ।

MODEL SENTENCES

1. मैं भी कल से हिन्दी सीखूँगा ।  
I too shall learn Hindi from tomorrow.
2. आज शामको हम रेडियो पर खबरें सुनेंगे । (पर is the usage.)  
This evening we shall listen to the news in the radio.
3. कल सुबह गोमती ससुराल जाएगी ।  
Tomorrow morning Gomati will go to her father-in-law's house.
4. सुषमा हमेशा सादा पोशाक पहनेगी क्योंकि वह गरीब है ।  
Sushma will always wear simple dress because she is poor.
5. हम श्रीमती इंदिरा गांधी को कभी नहीं भूलेंगे ।  
We shall never forget Mrs. Indira Gandhi.
6. वह बदमाश किसी की सलाह नहीं सुनेगा और भविष्य में पछताएगा ।  
That wicked fellow will not listen to anybody's advice. He will repent in the future.
7. मेरी माँ हम सबके लिए चाय बनाएगी ।  
My mother will make (prepare) tea for us all.

8. आप वाराणसी में किस धर्मशाला में ठहरेंगे ?  
In which inn will you stay in Banaras?
9. कौन जानता है कि आगे क्या होगा ?  
Who knows what will happen in the future?
10. शायद वे यात्री लोग शुक्रवार रात तक यहाँ पहुँचेंगे ।  
Perhaps those travellers will reach here by Friday night.
11. तुम्हारे पिताजी शरबत पिएँगे या दूध ?  
Will your father drink sherbat or milk ?
12. वाणी जयराम सभा में एक प्रार्थना गीत गाएँगी ।  
Vani Jayaram will sing a prayer song at the meeting.
13. मेरे पिताजी घर के लोगों को कभी सिनेमा देखने के लिए नहीं भेजेंगे ।  
My father will never send members of the family to see cinema.
14. वह बड़ा कंजूस होने से किसी को कुछ नहीं देगा ।  
Being a big miser he will not give anything to anybody.
15. क्या मोहन को वार्षिकोत्सव में कोई पुरस्कार मिलेगा ?  
Will Mohan get any prize in the annual day function?
16. सुभाष एक घंटे में यह काम पूरा कर देगा और फिर आराम करेगा ।  
Subhash will finish this work in an hour and then he will take rest.
17. डाक-घर कब खुलेगा और कितने बजे बंद होगा ?  
When will the post office open and at what time it will close?
18. इस लड़ाई में कौन जीतेगा और कौन हारेगा ?  
Who will win in this war and who will suffer defeat?
19. गाँव के लोग शहर में गुड़ बेचेंगे और उसके बदले में चीनी खरीदेंगे ।  
The villagers will sell jaggery in the town and will buy sugar in exchange.
20. नौकर दूकान से अभी नारियल का तेल लाएगा ।  
The servant will bring coconut oil from the shop just now.
21. मज़दूर कारखाने से छः बजे के बाद लौटेंगे ।  
The labourers will return from the factory after six o'clock.
22. गीता इस साल इम्तहान देगी ।  
Geeta will sit (for) the examination this year.

## VOCABULARY

इम्तहान - examination	कंजूस - miser
गुड़ - jaggery	तेल - oil
पछताना - repent	पोशाक* - dress
मज़दूर - labourer	यात्री - traveller
ससुराल* - father-in-law's house	

## 20. FUTURE SUBJUNCTIVE

## संभाव्य भविष्यत् काल

The subjunctive indicates how to express a purpose, condition, wish, permission, advice, order, expectation, doubt and guess pertaining to future time. It is a form of verb which represents the action not as a reality but as a wish, hope, possibility, etc.

To construct a sentence in future subjunctive, all the rules concerning future tense (given in the previous lesson) are to be followed except that the last letter of the verb is to be omitted.

Future tense - वह आएगा । मैं जाऊँगा ।

Future subjunctive - वह आए, मैं जाऊँ (If he will come, If I go)

To express purpose, the future subjunctive is preceded by कि, जिससे, जिससे कि or ताकि

## Examples

1. ईश्वर आपको सुखी रखे । May God keep you happy! (hope, wish)
2. मैं चाहता हूँ कि मेरा पुत्र डॉक्टर बने । I wish that my son turns out to be a doctor. (wish)
3. नौकर से कहो कि वह चाय लाए । Tell the servant to bring tea. (order)
4. क्या मैं शामको सिनेमा देखने चलूँ ? Shall I go to see film this evening? (permission)
5. रोज़ ताज़े फल खाओ जिससे कि (ताकि) तुम तंदुरुस्त रहो । Eat fresh fruits daily so that you will remain healthy. (purpose)
6. शायद आज रात को पानी बरसे । Perhaps it may rain this night. (possibility)
7. अगर सीता पुस्तकालय जाए तो यह किताब लौटा दे । If Sita happens to go to library, let her return this book. (condition)
8. कैसे करूँ कीर्तन, है स्वर में माधुर्य नहीं ? How shall I sing when my voice is not sweet? (doubt, interrogation)
9. चाहे तुम जाओ चाहे मैं जाऊँ, दोनों एक ही बात है । Whether you go or I go, both are the same.

**MODEL SENTENCES**

1. क्या मैं यह काम तुरंत करूँ ?  
May I do this work at once?
2. क्या नौकर अभी घर चले या थोड़ी देर ठहरे ?  
Whether the servant can go home now or stay for some time.
3. हम उन विधवाओं को कैसे सांत्वना दें ?  
How shall we console those widows?
4. अगर भिखारी भीख माँगे तभी पैसे देना ।  
If the beggar will beg then only give money.
5. अगर तुम सिफ़ारिश करो तो उस युवती को नौकरी मिलेगी ।  
If you (will) recommend, that young woman will get job.
6. आज कारख़ाने में हड़ताल है, कोई मज़दूर अंदर न जाए ।  
Today there is strike in the factory, let no labourer go inside.
7. हरेक विद्यार्थी गांधीजी की आत्मकथा पढ़े ।  
Let every student read Gandhiji's autobiography.
8. आप जैसा कोई मेरी ज़िन्दगी में आए ।  
Let some one like you enter my life.
9. आप दोनों का दांपत्य जीवन सदा समृद्धिशाली हो ।  
Wish you both a prosperous wedded life for ever.
10. आपकी यह यात्रा आनंदमय और सकुशल हो ।  
Let this tour of yours be pleasant and safe.
11. कक्षा में कोई छात्र सेलफ़ोन का इस्तेमाल न करे ।  
Let no student use cell phone in the class-room.
12. जब तक मैं नाम न पुकारूँ कोई कमरे के अंदर पैर न रखे ।  
As long as I do not call (by) name, let nobody step inside the room.
13. तुझे भूल जाऊँ कि मुमकिन नहीं, कहीं भी रहूँ कि दिल तो यहीं ।  
It is not possible that I'll forget you. My heart remains here wherever I may live.

14. भारत की समस्याएँ जल्दी दूर हो जाएँ ।  
Let the problems of India vanish soon.
15. आइए, हम अपनी मातृभूमि के लिए अपने जीवन का बलिदान करें ।  
Come on, let us sacrifice our life for the sake of our motherland.
16. वृद्धों को पहले रास्ता दें ।  
Give way to elderly people first.
17. सभी माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे दीर्घायु और सुखी बनें ।  
All parents wish that their children live long and be happy.
18. वह शख्स जिए या मरे, मुझे क्या ?  
Let that fellow live or die, what do I care?
19. नववर्ष आपको शुभ हो ।  
A happy new year to you.
20. ईश्वर करे कि यह शुभ दिन बार-बार आए ।  
Let God make this auspicious day come again and again. Many happy returns of the day.
21. कामयाबी आपके साथ रहे । कामयाबी आपके क़दम चूमे ।  
Let success be with you! Let success kiss your feet.
22. सलामती से जाएँ, सलामती से आएँ ।  
May you go safely, may you return safely.
23. क्या मैं तेरी तुलना करूँ गर्मी के दिन से ?  
Shall I compare thee to a summer's day? (Shakespeare)

**VOCABULARY**

इस्तेमाल - use	कामयाबी* - success
गर्मी* - summer	तुलना* - comparison
तुरंत - at once, immediately	बलिदान - sacrifice
भीख* - alms	मुमकिन - possible
विधवा* - widow	वृद्ध - old man
समस्या* - problem	सलामती* - welfare, protection
सांत्वना* - consolation	सिफ़ारिश* - recommendation

## 21. PAST TENSE 'BE' VERB

भूतकाल 'होना' क्रिया

Singular	Mas	Fem	Plural	Mas	Fem
I was	मैं था	मैं थी	We were	हम थे	हम थीं
You were	तुम थे	तुम थी	You were	आप थे	आप थीं
He, She, It	वह था	वह थी	They	वे थे	वे थीं
That, This was	यह था	यह थी	Those	ये थे	ये थीं
			These were		

Note:

1. All feminine singular verbs end in थी
2. All masculine plural verbs end in थे.
3. All feminine plural verbs end in थीं.

### MODEL SENTENCES

1. क्या तुम दस बजे दफ्तर में थे ?  
Were you at the office at ten o' clock?
2. कल शामको हम सब बंदरगाह में थे ।  
We all were at the harbour yesterday evening.
3. आप पिछले साल मुंबई में कहाँ थे ?  
Where were you in Mumbai last year?
4. वे परसों दोपहर डाक-घर में थे ।  
They were at the post-office day before yesterday noon.
5. कल गांधी जयंती थी । इसलिए स्कूल की छुट्टी थी ।  
Yesterday was Gandhiji's birthday. So it was holiday for the school.
6. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे ।  
Dr. Rajendra Prasad was the first President of India.

1. राधा दिन भर मंदिर में थी, घर पर नहीं थी ।  
Radha was at the temple the whole day. She was not at home.
2. मैं पहले (शुरू में) गरीब आदमी था ।  
I was a poor man in the beginning.
3. चाय ठंडी थी और इसलिए फीकी थी ।  
The tea was cold and so it was tasteless.
4. रामप्रकाश कल ठीक था, मगर आज वह बीमार है ।  
Ramprakash was all right yesterday, but today he is ill.
5. भूकंप के समय उन कमरों में कौन-कौन थे ?  
During the earthquake who were there in the those rooms?
6. तुम्हारे पिताजी कल अस्पताल में क्यों थे ? क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ?  
Why was your father in the hospital yesterday? Was his health not good?
7. कल दोपहर उनको बुखार था और वे बैचैन थे ।  
Yesterday noon he had fever and he was restless.
8. आँधी के बाद सर्वत्र शांति थी ।  
There was calm after the storm everywhere.
9. वह भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हम सबसे जवान थे ।  
That IAS officer was younger than all of us.
10. शकुंतला की उँगली में दुष्यंत की अँगूठी थी ।  
Shakuntala had Dushyant's ring in her finger.

### VOCABULARY

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| अँगूठी* - finger ring      | आँधी* - storm               |
| उँगली* - finger            | छुट्टी* - holiday           |
| तबीयत* - health            | प्रशासन - administration    |
| फीका - tasteless, vapid    | बंदरगाह - harbour, sea-port |
| बैचैन - restless, agitated | भूकंप - earthquake          |
| शांति* - peace, calm       |                             |

## 22. PAST IMPERFECT TENSE

### अपूर्ण भूतकाल (१)

This is a peculiar construction, not easily translatable. It is neither simple or definite past (e.g. went), nor a continuous action in the past (was going), nor a habit in the full sense (used to go). It is somewhat mild in indicating a habit in the past or a repeated past action.

A sentence in this tense is formed by adding **ता/ते/ती** to the root of the verb according to the gender and number of the subject as in Lesson 4 and then adding the appropriate past tense symbol **था/थे/थी/थीं** as shown in the previous lesson. e.g. **जाता था, जाते थे, जाती थी, जाती थीं.**

### MODEL SENTENCES

1. वह पहलवान रोज़ कसरत करता था ।  
That wrestler was doing (used to do) exercise daily.
2. वे मंत्री बनने के पहले एक झोंपड़ी में रहते थे ।  
Before becoming a minister, he was living (used to live) in a hut.
3. जब हम दक्षिण भारत में रहते थे तब चावल ही खाते थे ।  
When we were living in South India, we were eating (used to eat) rice only.
4. जब पानी की किल्लत नहीं थी तब लोग दो बार नहाते थे ।  
When there was no scarcity of water, people were taking bath twice.
5. धमकी के कारण न चाहने पर भी दुकानदार हड़ताल में भाग लेते थे ।  
Due to threat, shop keepers took part in the strike unwillingly
6. मैं पहले लखनऊ में था । तब मैं उर्दू सीखता था ।  
Previously I was in Lucknow. At that time I was learning Urdu
7. डॉक्टर रोगियों द्वारा सिगरेट पीना मना करते थे ।  
The doctor was prohibiting the patients from smoking.

8. भिखारी वर्षा में भी गलियों में घूमता था ।  
The beggar was wandering in the lanes even in rain.
9. जब विनोद अमीर था तब कार में सवारी करता था ।  
When Vinod was rich, he used to move about in a car.
10. वह ब्रह्मचारी शादी के पहले स्त्रियों से घृणा करते थे ।  
That bachelor used to hate women before marriage.
11. हम जवानी में पाँच बजे को ही उठ जाते थे ।  
We used to get up at five o' clock itself during our youth.
12. बात-बात पर सास बहू से झगड़ा करती थी ।  
Mother-in-law used to quarrel with daughter-in-law for each and everything.
13. अकबर पचास वर्ष तक भारत पर हुकूमत करते थे ।  
Akbar was ruling (ruled) India for fifty years.
14. कस्तूरीबाई अपने पति के कार्यों में मदद करती थीं ।  
Kasturbai used to help her husband in his activities.
15. शादी से (के) पहले सीताराम होटल में खाना खाता था ।  
Before marriage, Sitaram used to take meals in hotel.
16. मैं बचपन में हर सप्ताह सिनेमा देखता था ।  
I used to see cinema every week during childhood.
17. मेरे रिश्तेदार मुझसे अक्सर मिलते थे जब हम पड़ोसी थे ।  
My relatives used to meet me often when we were neighbours.
18. मेरे विवाह के पहले मेरी माँ भोजन बनाती थी । अब मैं बनाता हूँ ।  
Before my marriage my mother used to cook food. Now I prepare it.
19. कमला खाँसी के लिए दवा पीती थी । अब वह गोलियाँ लेती है ।  
Kamala was taking (drinking) medicine for cough. Now she takes tablets.

20. यह लिपिक हमेशा देर से आता था । पूछने पर कहता था कि उसके पास घड़ी नहीं थी ।

This clerk always used to come late. On enquiry, he used to say that he had no watch.

Note:

A special form of the habitual past is obtained by omitting **था-थे-थी-थीं**. It is used in narrating a repeated act of the past. e.g. **हम लोग सबेरे ही वहाँ जाते और शाम को लौटते ।** We would (used to) go there every morning and return in the evening.

### VOCABULARY

क्रिछत\* - scarcity

जवानी\* - youth

धमकी\* - threat

पहलवान - wrestler

रिश्तेदार - relative

सप्ताह - week

घृणा\* - hatred

झोंपड़ी\* - hut, cottage

पड़ोसी - neighbour

मना कर prohibit

लिपिक - clerk

हुकूमत\* - rule

## 23. PAST CONTINUOUS TENSE

### अपूर्ण भूतकाल (२)

The past continuous tense indicates an action that was going on in the past at a particular time. The completion of that action, however, is not known for sure.

Sentences in past continuous tense are formed by adding **रहा-रहे-रही** to the root of the verb (see Lesson no:5, present continuous tense) according to the gender and number of the subject and then by adding the appropriate past tense indicator **था-थे-थी-थीं** as shown in Lesson no.21. e.g. **आ रहा था, आ रहे थे, आ रही थी, आ रही थीं**.

### MODEL SENTENCES

1. मैं लता मंगेशकर का गाना सुन रहा था ।  
I was listening to Lata Mangeshkar's song.
2. तुम दुकान में क्या खरीद रहे थे ?  
What were buying in the shop?
3. हरिशंकर तब क्यों हँस रहा था ?  
Why was Harishankar laughing at that time?
4. माधव नौकरी के लिए एक आवेदन पत्र भर रहा था ।  
Madhav was filling up an application form for job (employment).
5. ठंडी हवा धीरे-धीरे चल रही थी ।  
Cool breeze was blowing slowly (gently).
6. कल सात बजे से लगातार पानी बरस रहा था ।  
It was raining continuously from seven o'clock yesterday.
7. ऊर्मिला कल शाम को एक सभा में बोल रही थी ।  
Urmila was speaking at a meeting yesterday evening.
8. नाव तेज़ी से नदी पार कर रही थी ।  
The boat was crossing the river fast.
9. माँ बच्चे को प्यार से चूम रही थी ।  
Mother was kissing the child with love.
10. गाय बछड़े के साथ घास चर रही थी ।  
The cow was grazing the grass along with the calf.
11. हम सब ख़ूब सो रहे थे क्योंकि हम बहुत थके थे ।  
We were all sleeping soundly because we were very tired.

12. आप क्यों इतने ज़ोर से रो रहे थे ?  
Why were you crying so loudly?
13. कुत्ते रात भर (सारी रात) भौंक (भूँक) रहे थे ।  
Dogs were barking throughout the night.
14. हवाई-जहाज़ आकाश में उड़ रहे थे ।  
Aero planes were flying in the sky.
15. वर्षा के बाद किसान खेत में बीज बो रहे थे ।  
Farmers were sowing the seeds after the rains.
16. लड़कियाँ दर्जे में शोर मचा रही थीं ।  
Girls were making noise in the class.
17. पिछले साल सुधीर अजायब-घर में काम कर रहा था ।  
Sudhir was working in the museum last year.
18. तुम किसको चिट्ठी लिख रहे थे ?  
To whom were you writing the letter?
19. नारायण कार्तिकेयन तेज़ी से स्पोर्ट्स कार चला रहे थे ।  
Narain Karthikeyan was driving the sports car fast.
20. बच्चे मैदान में गेंद खेल रहे थे ।  
Children were playing ball in the playground.
21. बरगद की छाया में एक बुढ़िया मछली बेच रही थी ।  
In the shade of a banyan tree an old woman was selling fish.
22. बैल गाड़ी खींच रहे थे ।  
The bullocks were pulling the cart.
23. वह दार्शनिक बहुत देर तक सोच रहे थे ।  
That philosopher was thinking for a long time.
24. पेड़-पौधे बाढ़ में डूब रहे थे ।  
Trees and plants were drowning in the flood.

**VOCABULARY**

- |                        |                     |               |
|------------------------|---------------------|---------------|
| अजायब घर - museum      | आवेदन - application | घास* - grass  |
| चरना - to graze        | चूमना - to kiss     | ठंडा - cool   |
| दार्शनिक - philosopher | नाव* - boat         | नौकरी* - job  |
| बछड़ा - calf           | बरगद - banyan tree  | बाढ़* - flood |
| हवा* - wind            |                     |               |

**24. PAST INDEFINITE TENSE**

**सामान्य भूतकाल**

An action mentioned as done in the past without any definite reference to the time or its condition is said to be in past indefinite tense. e.g. I came, I saw, I conquered (veni, vidi, vici, - Julius Caesar) आया, देखा, जीता. To form the simple past tense.

- (a) If the root of the verb ends in silent अ, lengthen it to आ to form masculine singular, and change it into ए for masculine plural. In feminine singular it becomes ई and in plural ई (लिखा, लिखे, लिखी, लिखीं)
- (b) If the verb root ends in आ/ओ, या is added (आया, सोया) which becomes ये in masculine plural यी in feminine singular and यीं in feminine plural. But where the use of या is optional, it may be avoided using only the vowel form. Hence आए, आई, आई are preferred instead of आये, आयी, आयीं
- (c) Root ending in ऊ first shortens its vowel. छू-छुआ. Root ending in ई first becomes इ. सी-सिया, पी-पिया

Verb root	Masculine		Feminine	
	Singular	Plural	Singular	Plural
पढ़	पढ़ा	पढ़े	पढ़ी	पढ़ीं
देख	देखा	देखे	देखी	देखीं
सो	सोया	सोए	सोई	सोईं
रो	रोया	रोए	रोई	रोईं

The following verbs are exceptions to the above rules and their past tense is formed as follows:

Verb root	Masculine		Feminine	
	Singular	Plural	Singular	Plural
ले	लिया	लिए	ली	लीं
दे	दिया	दिए	दी	दीं
कर	किया	किए	की	कीं
हो	हुआ	हुए	हुई	हुईं
जा	गया	गए	गई	गईं

At this juncture, we are expected to know that verbs are of two kinds - transitive and intransitive. A transitive verb has certainly an object. e.g. She wrote a letter. Here 'wrote' is the transitive verb because it has 'letter' as its object. However, the object may be understood sometimes and not expressed openly. e.g. I ate. Here, 'ate' is a transitive verb even though the object has not been stated. I must have eaten something. That is enough explanation.

On the other hand, the intransitive verb does not admit of an object. e.g. He died suddenly.

An object is a person or a thing that is affected by the action of the verb. To find out whether there is an object, we should put the question what/who to the verb. e.g.

Saw - saw what, saw whom. There will be answer, expressed or understood. Hence 'saw' is a transitive verb.

Died-died what, died whom. There cannot be any answer. Hence 'died' is an intransitive verb.

In the present lesson, we shall have only intransitive verbs in the model sentences. Sentences in the past tense with transitive verbs are constructed in a different manner. This will be explained in the next lesson.

### MODEL SENTENCES

1. आज कहीं भी इलायची नहीं मिली ।  
Today cardamom was not available anywhere.
2. अचानक बंदूक से गोली निकली ।  
Suddenly the bullet emerged from the gun.
3. सिरदर्द की वजह से कल रात मैं चार घंटे ही सोया ।  
Because of headache I slept only four hours yesterday night.
4. गाड़ी बस एक मिनट के लिए रुकी । इसलिए मैं जल्दी-जल्दी उतरा ।  
The train stopped just for a minute. Therefore I got down quickly (in haste)
5. तुम विदेश से कब लौटे ?  
When did you return from abroad?
6. कल जोर से पानी बरसा और नदी में बाढ़ आ गई ।  
Yesterday it rained heavily and the river was in spate.

7. तुम्हारा पत्र आज तक नहीं पहुँचा, शायद कल आएगा ।  
Your letter did not reach (here) till today (till date); perhaps it will come tomorrow.
8. फ्रांसिस कल सिनेमा गया । इसलिए आज देर से उठा ।  
Francis went to cinema yesterday. Hence he got up late today.
9. नौकर दुकान से चार अंडे लाया ।  
The servant brought four eggs from the shop.
10. राम जंगल में चौदह वर्ष रहे । उसके बाद वे अयोध्या लौटे ।  
Rama lived in the forest for 14 years. After that he returned to Ayodhya.
11. आप कोलकत्ता में कहाँ ठहरे ?  
Where did you stay in Kolkata during holidays?
12. सभा में लोग क्यों सहसा हँसे ?  
Why did the people laugh suddenly in the meeting?
13. वे मुझे नहीं भूले । मैं भी उनको नहीं भूला ।  
They did not forget me. I also did not forget them.
14. यात्री लोग ताजमहल के पीछे यमुना नदी में नहाए ।  
The travellers took bath in the Yamuna river behind the Taj Mahal.
15. माताजी को क्या हुआ? वह क्यों रो रही थी ?  
What happened to mother? Why was she crying?
16. उस नौकरी में मुझे अच्छा वेतन मिला / अच्छी तनख्वाह (तनखाह) मिली ।  
In that job I got a good pay.
17. कुछ फेरीवाले पेड़ के नीचे बैठे ।  
Some peddlers sat under the tree.
18. छुट्टी के बाद आज ही स्कूल खुला ।  
The school opened only today after the holidays.

### VOCABULARY

इलायची\* - cardamom  
तनख्वाह\* - pay, salary  
बंदूक\* - rifle, gun

जंगल - forest  
फेरीवाला - peddler  
सहसा - suddenly



## 25. PAST INDEFINITE TENSE TRANSITIVE VERBS

### सामान्य भूतकाल-सकर्मक क्रिया-ने नियम

As mentioned in the previous lesson, a verb is called transitive only if it has an object, whether expressed or implicit. In other words, the object is the most important aspect in a sentence having a transitive verb. Therefore the verb will be in masculine or feminine gender and in singular or plural number according to the object in such sentences.

(1)

This rule is applicable only in the following four tenses:

1. Past Indefinite - e.g. I ate.
2. Present Perfect - e.g. I have eaten.
3. Past Perfect - e.g. I had eaten
4. Past Doubtful - e.g. I might have eaten.

If a sentence falls under one of the above four tenses and if there is an object (mentioned or understood), then the following steps become necessary. This procedure is known as 'ne' rule.

- i) Add **ने** to the subject. **ने** is the symbol of the first case. (see Lesson 8).
- ii) Put the verb in masculine/feminine gender and singular/plural number according to the object.
- iii) If the object is not mentioned or if it is followed by **को** then the verb will always be in masculine singular.
- iv) The following verbs, though transitive, are exceptions. That is, they will be formed according to the subject: **ला, बोल, भूल, मिल, डर, लड़**. The auxiliary verbs **सक** (can), **चुक** (finish) and **लग** (begin) also do not come under this rule, but will be formed according to the subject.

### Examples

1. राम ने एक घोड़ा खरीदा ।

Here खरीदा is in masculine singular, not because the subject, Ram, is masculine singular but because the object, a horse, is masculine singular.

2. राम ने दो घोड़े खरीदे ।  
The object, two horses, is masculine plural. So we have the verb खरीदे
3. राम ने एक गाय खरीदी ।  
Though the subject is masculine, the object is in feminine singular and hence the verb is formed according to it.
4. राम ने दो गायें खरीदीं ।  
The object, two cows, is in feminine plural. So we have the verb खरीदीं ।
5. सीता ने एक पत्र लिखा ।  
Though the subject is feminine, the verb is in masculine singular because of the masculine singular object, one letter.
6. सीता ने दो आम खाए ।  
The object, two mangoes, is in masculine plural. So we have the verb खाए though the subject is a female.
7. राम ने सीता को देखा ।  
Here the object is Sita (feminine singular). Yet the verb is in masculine singular because the object is followed by **को**
8. हमने खाया । The object has not been mentioned. It may be mango (masculine) or roti (feminine). The number or quantity too is not known. It may be one mango/one roti or it may be more. As the object has not been mentioned, the verb remains in masculine singular.

(2)

In the case of exceptions — **ला, बोल, भूल, मिल** the verb will be in its normal form, i.e., according to the subject.

1. नौकरानी सब्जी लाई । The servant maid brought vegetables.
2. नेताजी सभा में क्या बोले ? What did the leader say in the meeting?

3. गांधीजी क्यों झूठ न बोले ? Why did Gandhiji not utter a lie?
4. राम वह कहानी भूल गया। Ram forgot that story.
5. हम मंत्री साहब से सुबह मिले । We met the minister this morning

(3)

When more than one noun is the subject of a transitive verb in the past tense, ने is added only to the last noun.

राम, कृष्ण और गोपाल ने गलती की। Ram, Krishna and Gopal made the mistake.

But if the subjects are pronouns (I, You, etc.), then ने is added to all the pronouns.

मैंने, तुमने और उसने कल प्रदर्शनी देखी। I, you and he saw the exhibition yesterday.

(4)

In the case of some verbs, ने is sometimes used and sometimes omitted. Both usages are permitted. वे मुक़द्दमा लड़े, उन्होंने मुक़द्दमा लड़ा (They fought the case). Both are correct. क्या तुम समझे? क्या तुमने समझा? (Did you understand?) Both are correct. वह बका (He chattered), उसने बहुत कुछ बका (He talked a lot of nonsense). Both are O.K.

### MODEL SENTENCES

1. मैंने नौकरी के लिए कई आवेदन भेजे ।  
I sent many applications for job.
2. वह यात्री सिंगपूर से एक महँगा कैमरा लाया ।  
That traveller brought a costly camera from Singapore.
3. तुमने मुझे क्यों गाली दी ?  
Why did you insult me?
4. साक्षात्कार में अधिकारी ने कोई कठिन सवाल नहीं पूछा ।  
The officer did not ask any difficult question in the interview.
5. अब्दुल्ला ने परसों पाँच केले खाए ।  
Abdullah ate five bananas day before yesterday.
6. तुमने यह आईना कहाँ ख़रीदा ?  
Where did you buy this mirror?

7. चौकीदार ने मुझे पाँच बजे जगाया ।  
The watchman woke me up at five o'clock.
8. मेरी पत्नी ने हमारी बच्ची के लिए जापानी खिलौने ख़रीदे ।  
My wife bought Japanese toys for our daughter.
9. आपने खेत में कितनी गायें देखीं ?  
How many cows did you see in the field?
10. सरकार ने ग़रीबी दूर करने के लिए कोशिश की ।  
The Government tried to remove poverty.
11. कांचना ने परीक्षा में प्रथम दर्जे में पास किया ।  
Kanchana passed the examination in first class.
12. क्या तुमने अख़बार में वह अजीब विज्ञापन पढ़ा ?  
Did you read that strange advertisement in the newspaper?
13. आज अमावस्या है, इसलिए मैंने बाल नहीं बनाए ।  
Today is new moon day. Hence I did not shave.
14. चुनाव में छोटे-बड़े सब राजनीतिक दलों ने भाग लिया ।  
All political parties, small and big, participated in the election.
15. बिड़ला परिवार ने देश की उन्नति के लिए अनेक कारख़ाने खोले ।  
The Birla family opened (started) many industries for the progress of the country.
16. लोगों ने मंत्री का स्वागत किया और उनको माला पहनाई ।  
People welcomed the minister and garlanded him.
17. गाँव की स्त्रियों ने शादी के समय लोक गीत गाए ।  
Village women sang folk songs during marriage.
18. उसने अपनी नई साइकिल किसी को नहीं दिखाई ।  
She did not show her new cycle to anybody.
19. तुमने डाक टिकट कहाँ रखा? क्या कहीं खो दिया?  
Where did you place the postal stamp? Did you lose it somewhere?
20. मैंने दुकान में अपनी पुरानी किताबें बेचीं ।  
I sold my old books in the shop.

21. कौरवों ने पांडवों से अठारह दिन युद्ध किया ।  
The Kauravas fought with the Pandavas for 18 days.
22. सचिव ने आदेश पर हस्ताक्षर (दस्ताखत) किया ।  
The secretary signed the order.
23. उस संन्यासी ने न तो काफ़ी पी और न चाय पी ।  
That ascetic drank neither coffee nor tea.
24. दुकानदार ने तुमसे क्या कहा और तुमने क्या उत्तर दिया ?  
What did the shopkeeper tell you and what reply did you give?

**VOCABULARY**

अजीब - strange	आईना - mirror	कठिन - difficult
केला - banana	ग़रीबी* - poverty	चुनाव - election
चौकीदार - watchman, guard	डाक टिकट - postal stamp	
दल - party, group	दस्ताखत - signature	महँगा - costly
माला* - garland	विज्ञापन - advertisement	सचिव - secretary
सवाल - question	हस्ताक्षर - signature	

**26. PRESENT PERFECT TENSE**

**आसन्न भूतकाल**

The present perfect tense is, in fact, a tense of the past. It represents a completed act, the effect of which is still present. It brings a past act into relation with the present. In other words, it denotes an action concluded recently.e.g. I have eaten. 'Eaten' shows that the action was over in the past. 'Have' indicates that it is recent past. So we have to use both past tense and present tense symbols.

1. Write the sentence in the past indefinite tense. (see Lesson 24)
2. Add present tense symbols हूँ, हो, है, हैं according to the subject.
3. If the verb is transitive, then it will be according to the object.(see Lesson 25)
4. Then add है or हैं according to the number of the object.
5. ने will be added to subject.

**Examples**

1. चपरासी आया है। (The servant has come). आया is past tense and है is present tense. Hence it is present perfect tense. We use है because it stands for 3rd person. (वह/यह)
2. मैं वहाँ कभी नहीं गया हूँ ( I have never gone there). गया is past tense, हूँ is present tense. हूँ is used because the subject is मैं .
3. राम ने एक कहानी लिखी है (Ram has written a story). This sentence has transitive verb 'write'. Hence the verb will be according to the object कहानी which is feminine singular. So the sentence ends in लिखी है ।
4. उषा ने चार आम खाए हैं । (Usha has eaten four mangoes). Usha is feminine singular. But the verb is in masculine plural. It is because eat is a transitive verb and the object चार आम is masculine plural.
5. उसने पढ़ा है ( He has read ). The verb is in masculine singular because the object has not been mentioned.

6. अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया है (The teacher has taught the students). The object students is plural but the verb is in masculine singular because the object is followed by को
7. In the case of verbs ला, बोल, भूल, मिल the verb will be according to the subject as they are exceptions.

**Note:**

In referring to historical facts, it is customary to use present perfect tense instead of simple past tense.

1. राम जंगल में चौदह साल रहे हैं । Ram has lived in the forest for 14 years.
2. कोलंबस ने अमेरिका का पता लगवाया है । Columbus has discovered America.

**MODEL SENTENCES** (intransitive verbs) (verb according to subject)

1. मैं यहाँ कई बार आया हूँ ।  
I have come here many times.
2. क्या तुम कभी हवाई जहाज़ में उड़े हो ?  
Have you ever flown in an aeroplane?
3. वह मरीज़ बहुत देर तक सोया है ।  
That patient has slept for a long time.
4. महेश को अक्सर पुरस्कार मिला है ।  
Mahesh has got prize often.
5. रज़िया सभा में हिन्दी में बोली है ।  
Razia has spoken in Hindi in the meeting.
6. मेहमान सेब और अमरूद लाये हैं ।  
The guest has brought apples and guavas.
7. दूल्हे के रिश्तेदार एक सराय में ठहरे हैं ।  
The bridegroom's relatives have stayed in an inn.

8. बहुत रोने के बाद बच्चा अभी-अभी सोया है ।  
After crying much, the child has just now slept.
9. अशोक दफ़्तर से पाँच मिनट पहले ही लौटा है ।  
Ashok has returned from office just five minutes back.
10. आपका पत्र आज ही मिला है ।  
Your letter has become available (has reached) only today.

**(Transitive verbs) (Verb according to object)**

1. मैंने नेहरूजी का भाषण सुना है ।  
I have heard Nehru's speech.
2. क्या तुमने हरिश्चन्द्र नाटक देखा है ?  
Have you seen the play Harishchandra?
3. उस लेखक ने अलमारी में बहुत-सी पुस्तकें रखी हैं ।  
That writer has kept a lot of books in the cupboard.
4. अधिकांश लोगों ने बचपन के बाद रामायण नहीं पढ़ी है ।  
The majority of people have not read the Ramayana after childhood.
5. मेरे बच्चे के जन्मदिन पर मेरे दोस्तों ने उपहार भेजे हैं ।  
On my child's birthday my friends have sent gifts.
6. अध्यापक ने एक बार मुझे ज़ोर से मारा है ।  
The teacher has hit me once severely.
7. डॉक्टर ने रोगी को मृत्यु से बचाया है ।  
The doctor has saved the patient from death.
8. बिड़ला परिवार ने मंदिरों के लिए लाखों रुपये दिए हैं ।  
The Birla family has given (donated) lakhs of rupees for temples.
9. कृष्णकुमार ने एक नई मोटर साइकिल खरीदी है ।  
Krishnakumar has bought a new motor cycle.

10. हमने यह गीत पहले भी सुना है ।  
We have heard this song earlier also.
11. व्रत के समय मेरी नानी ने कुछ नहीं खाया है ।  
My grandmother has not eaten anything during the fast.
12. अनिता ने अपनी कार खुद चलायी है ।  
Anita has driven her car herself.
13. मैंने अब तक अनार का शरबत नहीं पिया है ।  
Till now I have not drunk (tasted) pomegranate juice.
14. मज़दूरों ने यह लंबी सड़क बनाई है ।  
The labourers have made (built) this long road.
15. हर व्यक्ति ने जवानी में कम से कम एक कविता जरूर लिखी है ।  
Every person has written at least one poem during youth.
16. तीर्थयात्रा पर जाने के लिए मेरे पिताजी ने दो सप्ताह की छुट्टी ली है ।  
My father has taken leave for two weeks to go on pilgrimage.

### VOCABULARY

अनार - pomegranate	अमरूद - guava
उपहार - gift	तीर्थयात्रा* - pilgrimage
दूल्हा - bridegroom	नानी* - grandmother (mother's mother)
पुरस्कार - gift, award	बचाना - to save
भाषण - lecture, speech	व्यक्ति - person
व्रत - fast, vow	

## 27. PAST PERFECT TENSE

### पूर्ण भूतकाल

The past perfect tense indicates the form of the verb that expresses an action completed before a particular point in the past. It is formed in English with 'had' and the past participle (like 'gone'). The stress is on completion of an act, once for all, and it need not necessarily be connected with remote past.

In every way, the past perfect resembles the present perfect except in the final ('be') verb. That is, instead of हूँ-हो-है-हैं the past tense forms था, थे, थी, थीं will be used. In other words:

Present Perfect = past + present

Past Perfect = past + past

Therefore the past perfect tense is formed by adding to the past tense था, थे, थी, थीं according to the subject, if the verb is intransitive.

If the verb is transitive (having object), then the verb will be formed according to the gender and number of the object. ने will be added to the subject. ला, बोल, भूल, मिल are exceptions.

**MODEL SENTENCES** (intransitive verbs) (verb according to subject)

1. मैं पुस्तकालय से पाँच हिन्दी उपन्यास लाया था ।  
I had brought five Hindi novels from the library.
2. कल तुम जल्दी सोए थे ।  
Yesterday you had slept soon (early).
3. परसों कश्मीर की घाटी में पानी बरसा था ।  
It had rained in Kashmir valley the day before yesterday.
4. राष्ट्रपति जी हैदराबाद में एक पखवारा (पखवाड़ा) ठहरे थे ।  
The President had stayed in Hyderabad for a fortnight.

5. पटना की गाड़ी चार बजे निकली थी ।  
The Patna train had started at four o' clock.
6. राधिका दीपावली के समय यहाँ आई थी ।  
Radhika had come here during Deepavali time.
7. पिछले इतवार को मेरी माँ गिरजाघर को गई थी ।  
My mother had gone to the church last sunday.
8. गांधीजी पोरबंदर में पैदा हुए थे ।  
Gandhiji had been born in Porbander.
9. नौकरानी दोपहर तक वापस नहीं आई थी ।  
The servant maid had not returned till noon.
10. क्या आप आज सुबह गरम पानी में नहाए थे ?  
Had you taken bath (bathed) in hot water this morning?

#### Transitive verbs (verbs according to object)

1. मैंने यह गाय गाँव के मेले में खरीदी थी ।  
I had bought this cow in the village fair.
2. तुमने पत्र में बेकार की बातें लिखी थीं ।  
You had written useless things in the letter.
3. अधिकारी के आने पर चपरासी ने तुरंत दरवाज़ा खोला था ।  
When the officer entered, the peon had opened the door at once.
4. मेरे भाई ने प्रेमचंद के सारे बारह उन्यास पढ़े थे ।  
My brother had read all the twelve novels of Premchand.
5. उस नटखट लड़के ने सोनेवाले कुत्ते को जगाया । इसलिए वह भौंक उठा ।  
That mischievous boy had awakened the sleeping dog. So it barked.
6. मेरे पिताजी ने जेब खर्च के लिए मुझे पचास रुपये दिए थे ।  
My father had given me fifty rupees for pocket expenses.

7. मोहम्मद ग़ौरी ने भारत पर आक्रमण किया था ।  
Mohammed Ghouri had invaded India.
8. डॉ. आंबेडकर ने दलितों की उन्नति के लिए संघर्ष किया था ।  
Dr. Ambedkar had struggled for the progress of the dalits.
9. माँगने पर दुकानदार ने अच्छी किसिम का चावल भेजा था ।  
On demand, the shopkeeper had sent a fine variety of rice.
10. उस पंडित ने ऋग्वेद का अनुवाद किया था ।  
That scholar had translated the Rig veda.
11. बैंक ने कंप्यूटर-शिक्षित युवकों को साक्षात्कार के लिए बुलाया था ।  
The bank had called computer literate youngmen for interview.
12. हमने प्रदर्शनी में तरह-तरह की वस्तुएँ देखी थीं ।  
We had seen a variety of things in the exhibition.
13. मैंने अपना सबक नहीं पढ़ा था, इसलिए अध्यापक नाराज़ हुए ।  
I had not studied my lesson. So the teacher became angry.
14. हमने रेडियो पर यह गाना बार-बार सुना था ।  
We had listened to this song again and again on the radio.
15. मुग़ल शासकों ने भारत पर तीन सौ इकतीस वर्ष शासन किया था ।  
The Mogul rulers ruled over India for 331 years.
16. हमारे सिपाहियों ने भी विश्व युद्ध में भाग लिया था ।  
Our soldiers too had taken part in the world war.
17. कौए ने घड़े का पानी पिया था । तब वह उड़ गया ।  
The crow had drunk the water of the pitcher. Then it flew away.
18. मेरे पिताजी ने दराज़ में रुपये रखे थे । वे ग़ायब हो गए ।  
My father had put (kept) money in the table drawer. It disappeared.
19. पुलिस ने सब चोरों को पकड़ा था ।  
The police had caught all the thieves.
20. मोहन ने अशोक को गणित सिखाया था ।  
Mohan had taught maths to Ashok.

21. किसानों ने खेतों में बीज बोए थे ।  
The farmers had sown seeds in the fields.
22. राज्यपाल ने झंडा फहराया था ।  
The Governor had hoisted the flag.
23. धोबी ने ठीक तरह से कपड़े नहीं धोए थे ।  
The washerman had not washed the clothes properly.
24. बच्चे ने सब खिलौने फेंक दिए थे ।  
The child had thrown away all the toys.
25. कर्मचारियों ने मंत्री साहब को काले झंडे दिखाए थे ।  
The employees had shown black flags against the minister.

**VOCABULARY**

अनुवाद - translation	आक्रमण - attack, invasion	उपन्यास - novel
कर्मचारी - employee	काला - black	क्रिस्म* - kind, variety
खर्च - expenditure	घड़ा - pot, pitcher	घाटी* - valley
जेब - pocket	झंडा - flag	दराज़* - table drawer
पख़वारा - fortnight	पैदा होना - to be born	फहराना - hoist (flag)
फेंकना - throw	मेला - fair	संघर्ष - struggle

**28. DOUBTFUL PRESENT TENSE**

**संदिग्ध वर्तमान काल**

This tense is used to indicate the doubtful nature of an action. That is, we are not sure whether an action is taking place at the time of speaking. e.g. may be writing, may be cooking. Only in the future, as we enquire, we come to know whether the action (e.g. writing) is really taking place. So this tense is formed by the combination of present indefinite tense + 'be' verb of future. This 'be' verb in future, i.e. हो takes the following forms हूँगा, हूँगी, होंगे, होंगी, होंगे, होंगी according to the subject. 'May be going' will take the following forms.

Masculine		Feminine	
मैं जाता हूँगा ।	हम जाते होंगे ।	मैं जाती हूँगी ।	हम जाती होंगी ।
तुम जाते होंगे ।	आप जाते होंगे ।	तुम जाती होगी ।	आप जाती होंगी ।
वह, यह जाता होगा ।	वे, ये जाते होंगे ।	वह, यह जाती होगी ।	वे, ये जाती होंगी ।

As we add 'ing' to the verb ( he may be reading ), we may also use the continuous form. This form has been explained in Lesson 5. So we may translate 'may be doing' in two ways.

- i) using present indefinite form - करता होगा (masculine), करती होगी (feminine)
- ii) using present continuous tense - कर रहा होगा (masculine), कर रही होगी (feminine)

**MODEL SENTENCES**

1. मोहन दफ़्तर जाता होगा ।  
Mohan may be going to office.
2. वह करोड़पति गरीबों को दान देते होंगे ।  
That multi-millionaire may be giving alms to poor people.
3. रोगी दवाख़ाने से दवा ख़रीदता होगा ।  
The patient may be buying medicine from the dispensary.
4. रेल गाड़ी से माल आ रहा होगा ।  
Goods may be coming by train.
5. माया तसवीर बनाती होगी ।  
Maya may be drawing a picture.

6. राशन की दुकान में मिट्टी का तेल आसानी से मिलता होगा ।  
Kerosene may be easily available in the ration shop.
7. अमरचंद रेशम की साड़ियाँ बेचता होगा ।  
Amarchand may be selling silk sarees.
8. गिरजाघर का घंटा बज रहा होगा ।  
The church bell may be ringing (tolling).
9. छात्र पुरानी किताबें सस्ते दाम पर बेचते होंगे ।  
Students may be selling old books at cheap price (rate).
10. रामनाथ अपनी पत्नी के साथ उत्तर भारत में यात्रा कर रहे होंगे ।  
Ramnath may be travelling in north India with his wife.
11. मेरी भाभी जी खाना तैयार कर रही होंगी ।  
My sister-in-law (elder brother's wife) may be preparing food.
12. नेता लोग शांति की स्थापना के लिए प्रयत्न करते होंगे ।  
Leaders may be trying to establish peace.
13. सरकारी कर्मचारी महीने की आखिरी तारीख को अपना वेतन पाते होंगे ।  
The Government employees may be getting their pay on the last day of the month.
14. अकाल के कारण उड़ीसा में लोग मर रहे होंगे ।  
Due to famine, people may be dying in Orissa.
15. बूढ़े लोग समय काटने के लिए ताश खेलते होंगे ।  
Old people may be playing cards to while away the time.
16. वह शिमला में ऊनी कपड़े पहनती होगी ।  
She may be wearing woollen clothes in Shimla.
17. यह धुआँ रसोईघर से आता होगा ।  
This smoke may be coming from the kitchen.
18. वे समझते होंगे कि हम उनकी चालाकी नहीं जानते ।  
They may be thinking that we do not know their trick.

**VOCABULARY**

अकाल - famine	आखिरी - last	घंटा - big bell
चालाकी* - trick, craftiness	तस्वीर* - picture	तारीख* - date
ताश - playing cards	दाम - price	धुआँ - smoke
प्रयत्न - attempt	भाभी* - brother's wife	माल - goods
मिट्टी का तेल - kerosene	समय - time	सस्ता - cheap
स्थापना* - establishment		

**29. DOUBTFUL PAST TENSE**

**संदिग्ध भूतकाल**

An action which might have taken place in the past is said to be in Doubtful Past Tense. We are not sure whether the action had really taken place or had been completed in the past. e.g. Gopal might (would) have come for the marriage. In a way it indicates presumption or inferred certainty.

In this lesson also we have to check whether the verb is intransitive or transitive.

We have first to form the past tense (see Lesson 24). Then add हूँगा, हूँगी, होंगे, होगी, होंगे, होंगी as shown in the previous lesson according to the subject, if the verb is intransitive.

But if the verb is transitive, it will be formed according to the object. Then to indicate doubt, we have to add होगा, होगी, होंगे, होंगे according to the gender and number of the object. ने will be added to the subject. ला, बोल, भूल, मिल are exceptions. They will be formed according to the subject.

**MODEL SENTENCES** (intransitive verbs) (verb according to subject)

1. कल तुम जल्दी सोए होगे ।  
Yesterday you might have slept early (would have).
2. विशेषज्ञ इस बीमारी पर बोले होंगे ।  
The expert might have talked about this disease.
3. डाकिया तुम्हारे लिए एक चिट्ठी लाया होगा ।  
The postman might have brought a letter for you.
4. सीता लंका में एक वर्ष रही होगी ।  
Sita might have lived in Sri Lanka for a year.
5. छात्रावास के छात्र पाँच बजे ही उठे होंगे ।  
The students of the hostel might have got up at five o'clock itself.



6. मालूम नहीं कि आर्य लोग कहीं से आए होंगे या नहीं ।  
It is not known (we do not know) whether the Aryans had come from somewhere or not.
7. कहीं आसपास में पानी बरसा होगा क्योंकि हवा ठंडी है ।  
It might have rained somewhere nearby because the air is cool.
8. पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज समुद्र के पार विदेश गए होंगे ।  
In olden days our ancestors would have gone to foreign countries across the sea.
9. भूकंप के कारण ईरान देश में पाँच सौ से ज़्यादा लोग मरे होंगे ।  
More than 500 persons would have died due to earthquake in Iran.
10. युद्ध के दौरान इमारतों पर बम गिरे होंगे ।  
In the course of the war, bombs would have fallen on the buildings.
11. मेरा भाई झूठ नहीं बोला होगा ।  
My brother would not have told a lie.

### Transitive verbs (Verb according to object)

1. तुमने ताजमहल देखा होगा ।  
You would have seen the Taj Mahal.
2. तुमने कारबार (कारोबार) में कितना धन कमाया होगा ?  
How much money would you have earned in business?
3. रसोइया ने खाना तैयार किया होगा ।  
The cook might have prepared food.
4. राजू के पिताजी ने अपने सभी रिश्तेदारों को विवाह-निमंत्रण भेजा होगा ।  
Raju's father might have sent wedding invitation to all his relatives.
5. वकील ने यह रहस्य किसीसे बताया नहीं होगा ।  
The advocate would not have told this secret to anyone.

6. पुलिस इन्स्पेक्टर ने उस बदमाश को तहकीकात के लिए बुलाया होगा ।  
The police inspector would have called the rowdy for enquiry.
7. जज साहब ने चोर को सख्त कारावास का दंड दिया होगा ।  
The judge might have given the punishment of rigorous imprisonment to the thief.
8. विष्णु प्रभाकर जी ने हिन्दी में बहुत-सी कहानियाँ लिखी होंगी ।  
Vishnu Prabhakar would have written many stories in Hindi.
9. किरायेदार झगड़ा कर रहा है क्योंकि घर के मालिक ने किराया माँगा होगा ।  
The tenant is quarrelling because the house owner might have demanded rent.
10. मनोरमा ने लगातार खाँसी के कारण छुट्टी ली होगी ।  
Manorama would have taken leave due to chronic cough.
11. बिल्ली ने सारा का सारा दूध पिया होगा ।  
The cat might have drunk the whole lot of milk.
12. नौकर ने गेहूँ और चीनी खरीदी होगी ।  
The servant might have bought wheat and sugar.
13. मेरा ख्याल है, वे अब तक कल्कत्ता पहुँच गए होंगे ।  
My idea is (I think), he (they) would have reached Kolkata by now.
14. मेहमान ने कोई ख़राब मिठाई खाई होगी, देखो, वे उलटी कर रहे हैं ।  
The guest might have eaten some spoilt sweet. See, he is vomiting.
15. रेखा ने अखबार में दुर्घटना का दुखद समाचार पढ़ा होगा ।  
Rekha might have read the tragic news of the accident in the newspaper.
16. लड़कों ने पतंग उड़ाए होंगे ।  
The boys would have flown kites.

### VOCABULARY

उलटी\* - vomiting

कारबार - business

कारावास - imprisonment

किराया - rent

किरायेदार - tenant	छात्रावास - hostel
ज़माना - age, period	तहकीकात* - enquiry, investigation
दुखद - tragic	दौरान - in the course of, during
दुर्घटना* - accident	निमंत्रण - invitation
पूर्वज - ancestors	बम - bomb
बदमाश - rowdy	रहस्य - secret
विशेषज्ञ - specialist	सख्त - strict, harsh

### 30. PAST CONDITIONAL TENSE

#### हेतुहेतुमद् भूतकाल

It is a kind of past tense. It denotes that if a certain condition had been fulfilled in the past, certain action would have resulted out of it. It, of course, means that neither the condition was fulfilled nor the resultant action took place. The past conditional tense is formed in the following manner.

- i) The conditional part (clause) of the sentence will begin with **अगर/यदि**. There is no harm if it is omitted.
- ii) The second part (main clause) will begin with **तो**.
- iii) In both the parts, to the verb root **ता-ते-ती-तीं** will be added according to the gender and number of the subject. It is almost like Present Indefinite Tense (Lesson 4) except that there feminine plural will end in **ती** (and **तीं** only in negative sentence and the final **है** is dropped as in **नहीं जातीं** ). e.g.

**हम पढ़ते हैं । हम पास होते हैं ।** We read. We pass - Present Indefinite Tense.

**अगर हम पढ़ते तो (हम) पास होते ।** If we had studied, we would have passed – Past Conditional

#### MODEL SENTENCES

1. **अगर राम माँगता तो मैं उसे कर्ज़ देता ।**  
If Ram had asked, I would have given him loan.
2. **अगर अध्यापक मिलते तो मैं संस्कृत सीखता ।**  
If a teacher had been available, I would have learnt Sanskrit.
3. **यदि मेरे पास रुपये होते तो मैं कुछ ज़रूरी पुस्तकें ख़रीदता ।**  
If I had got money, I would have bought some essential books.
4. **अगर वह तैराक नहीं बचाता तो मीनाक्षी तालाब में डूबती ।**  
If that swimmer had not saved (her), Meenakshi would have drowned in the tank.
5. **अगर मुझे पदोन्नति मिलती, तो मैं ज़्यादा वेतन पाता ।**  
If I had got promotion, I would have got more pay.

6. अगर श्रीराम जंगल न जाते तो रावण को कौन मारता?  
If Sri Ram had not gone to the forest who would have killed Ravana?
7. अगर गांधीजी न होते तो हमें देर से स्वतंत्रता (आज़ादी) मिलती।  
If there had been no Gandhiji, we would have got freedom late.
8. अगर मेरे पिताजी की तबीयत ठीक होती तो वे छुट्टी न लेते।  
If my father's health had been all right, he would not have taken leave.
9. यदि सरला दवा पीती तो जुकाम कम होता।  
If Sarala had drunk (taken) medicine, (her) cold would have become less.
10. अगर पद्मा चाहती तो रेशमी साड़ी पहनती।  
If Padma had liked (wanted), she would have worn silk saree.
11. अगर देश (मुल्क) में एकता होती तो हम उन्नति करते।  
If there had been unity in the country, we would have made progress.
12. खटखटाते तो खुल जाता, माँगते तो मिल जाता।  
If(you) had knocked it would have opened. If you had asked, you would have got it.
13. यदि विवेक ओबराय तमिलनाडु में चुनाव में खड़े होते तो ज़रूर जीतते।  
If Vivek Oberoi had stood in the election in Tamilnadu, he would have certainly won.
14. अगर हम रोज़ केले खाते तो स्वस्थ रहते।  
If we had taken(eaten) banana daily, we would have been healthy.
15. अगर लांड्री खुली होती तो ग्राहक कपड़े लाते।  
If the laundry had been opened, the customers would have brought clothes.
16. अगर मेहमान आते तो इस कमरे में आराम से ठहरते।  
If guests had come, they would have stayed in this room comfortably.

17. अगर खटमल और मच्छर नहीं होते तो बच्चा रात भर नहीं रोता।  
If there had not been bugs and mosquitoes, the child would not have cried throughout the night.
18. अगर अपराधी माफ़ी माँगता तो जज साहब उसे छोड़ देते।  
If the guilty person had apologized (asked for pardon) the judge would have released him.
19. अगर तुम जल्दी उठते तो धूमकेतु देखते।  
If you had got up earlier, you would have seen the comet.

Note:

In some grammar books, it has been advised to add ने to the subject and put the verb in past tense and according to the object, if the verb is transitive. e.g.

1. If he had read अगर उसने पढ़ा होता।
2. If she had bought the pen यदि उसने क़लम ख़रीदी होती
3. Had you written a letter यदि तुमने पत्र लिखा होता
4. If I had taken the medicine यदि मैंने दवा पी ली होती।
5. If I had called you अगर मैंने तुम्हें बुलाया होता

As the above construction is laborious, it is not followed by most people. The native speakers would prefer the following form in the place of the above:

१. अगर वह पढ़ता २. यदि वह क़लम ख़रीदती ३. यदि तुम पत्र लिखते  
४. यदि मैं दवा पी लेता ५. अगर मैं तुम्हें बुलाता।

### VOCABULARY

आज़ादी\* - freedom

क़र्ज़ - loan

खटमल - bug

जुकाम - cold trouble

धूमकेतु - comet

मच्छर - mosquito

एकता\* - unity

खटखटाना - knock at the door

ग्राहक - customer

तैराक - swimmer

पदोन्नति\* - promotion

मुल्क - country, nation

### 31. HABITUAL TENSE

#### नित्यता बोधक क्रियाएँ

The habitual tense represents an action as habitually or regularly done in the past or being done in the present or to be done in the future. It is different from a particular act of the past, present or future. It refers to a general fact. Yesterday he went to Mumbai - a particular act, simple past tense. He used to go to Mumbai once every month—habitual act, Habitual Past.

The following is the procedure to form a habitual tense:

- Write the sentence in past indefinite tense (Lesson 24). But do not add ने to the subject.
- Whatever be the subject, write the past tense verb in masculine singular only like आया, देखा. But for जा, instead of गया, use जाया.
- Then put कर and add ता-ते-ती according to the gender and number of the subject, i.e. करता, करते, करती (Lesson 4)
- Finally add:

हूँ-हो-है-हैं according to the subject in habitual present (Lesson 3)

था-थे-थी-थीं according to the subject in habitual past (Lesson 21)

In the case of habitual future, कर itself will change according to the subject.

करूँगा/करूँगी, करेंगे/ करोगे/करोगी, करेगा/करेगी (Lesson 19)

#### Examples

- Ram used to eat an egg.

राम अंडा खाया + करता + था  
Past Tense Mas.sing Mas.sing. Past tense

- I am in the habit of reading newspaper

मैं अखबार पढ़ा + करता + हूँ।  
Past Tense Mas.sing Mas.sing. Present tense

- He would habitually drink.

वह पिया + कर + येगा  
Past Tense Mas.sing. Future

#### MODEL SENTENCES (Habitual Present)

- मैं रोज़ सुबह चाय पिया करता हूँ।  
I am in the habit of drinking tea daily in the morning.
- तुम क्यों दिन में सोया करते हो ?  
Why are you in the (having the) habit of sleeping during daytime?
- प्रकाश नदी में नहाया करता है।  
Prakash is in (has) the habit of bathing in the river.
- उमा शाम को यहाँ आया करती है।  
Uma is in (has) the habit of coming here in the evening.
- भारत के लोग हर महीना कोई त्योहार मनाया करते हैं।  
The people of India are in (have) the habit of celebrating some festival every month.
- गरीब लोग हमेशा मैले कपड़े पहना करते हैं।  
The poor people have the habit of always wearing dirty clothes.

#### Habitual Past

- चाय पीने के बाद मैं अखबार पढ़ा करता था।  
After drinking tea, I used to read newspaper.
- तुम पहले खूब पढ़ा करते थे। अब क्या हुआ?  
You used to study well formerly. Now what happened?
- ललिता मंदिर जाया करती थी। अब नहीं जाती।  
Lalita used to go to temple. Now she does not go.
- मेरे पिताजी को मधुमेह होने से वे सुबह टहला करते थे।  
My father has got diabetes. So he used to take walk (stroll) in the morning.

5. जब वह अभिनेता अमीर थे तब हर साल कश्मीर जाया करते थे ।  
When that actor was rich he used to go to Kashmir every year.
6. हमारे पूर्वज सादा जीवन बिताया करते थे ।  
Our ancestors used to lead simple life.
7. अकबर के शासन काल में हिन्दू और मुसलमान शांति से (अमन-चैन से) रहा करते थे ।  
During the period of Akbar's rule, Hindus and Muslims used to live in peace.
8. झाँसी पैसंजर दो घंटे देर से आया करती थी ।  
The Jhansi passenger train used to come two hours late.
9. मुझे मनी आर्डर द्वारा बुढ़ापे की पेंशन मिला करती थी ।  
I used to get old age pension through money order.
10. सानिया मिर्जा बचपन से ही टेनिस खेला करती थी ।  
Sania Mirza used to play tennis from childhood itself.
11. कुमार पहले पान खाया करता था । अब उसने वह आदत छोड़ दी ।  
Kumar used to chew betel leaf earlier. Now he gave up that habit.
12. चरणसिंह जी पत्रों का उत्तर ज़रूर और तुरंत देते थे ।  
Charan Singh used to reply to letters certainly and at once.

#### Habitual Future

1. मोहन आज से अंग्रेज़ी सीखा करेगा ।  
Mohan will make it a habit to learn English from today.
2. सरला आगे से पकाया करेगी ।  
Hereafter Sarala will make it a habit to cook.
3. गणेश भविष्य में अपने कपड़े खुद धोया करेगा ।  
Ganesh will make it a habit to wash his clothes himself in the future.

#### Habitual Imperative

1. तुम अक्सर यहाँ आया करो ।  
You make it a habit to come here often/be coming here often.
2. हमेशा मातृभाषा में बोला कीजिए ।  
Please (you) make it a habit to always speak in mother-tongue.
3. प्रतिदिन सुबह समाचार पत्र पढ़ा करो ।  
Make it a habit to read (do read) newspaper daily in the morning.

(2)

A special form of the habitual past is obtained by omitting कर and the auxiliaries (final verbs) था, थे, थी, थीं. It is used for narrating a repeated act of the past. The main verb will be in form ते.

1. हम लोग सबेरे ही वहाँ जाते (जाया करते) और शाम को लौटते (लौटा करते) ।  
We would (we used to) go there in the morning itself and return in the evening.
2. श्री रामानंद जी रोज गंगा में नहाते ।  
Sri Ramanand used to bathe in the Ganges daily.

#### VOCABULARY

अभिनेता - actor

टहलना - stroll, take a walk

पकाना - to cook

मनाना - celebrate

अमन-चैन - peace & tranquillity

त्योहार - festival

मधुमेह - diabetes

मैला - dirty

## 32. SHOULD – MUST – OUGHT TO चाहिए

To indicate that something must be done or should not be done or something is desired by somebody, **चाहिए** is added at the end of a sentence. e.g. You ought to read. He must go now. They should wait. What do you want? When **चाहिए** is added to the sentence:

- i. add **को** to the subject. (Lesson 10)
- ii. add **ना** to verb root - **आना, देखना**.
- iii. If there is an object, the above **ना** will change into **नी** if the object is feminine and **ने** if it is masculine plural  
Should read book (Fem. Sing.) - **पुस्तक पढ़नी चाहिए ।**  
Must buy horses (Mas. Pl.) - **घोड़े खरीदने चाहिए ।**
- iv. If there is no object or if the object is followed **को**, only **ना** is to be added to verb root.  
The patient must sleep - **रोगी को सोना चाहिए ।**  
We must call that servant-maid back - **हमें उस नौकरानी को वापस बुलाना चाहिए ।**

### MODEL SENTENCES

1. **देर हो रही है। मुझे अब घर लौटना चाहिए ।**  
It is getting late. I must go back home
2. **मेहमान को कहीं भी तीन दिन से ज़्यादा नहीं ठहरना चाहिए ।**  
A guest should not stay anywhere for more than three days.
3. **उसी तरह तीन दिन से ज़्यादा कोई दवा नहीं पीनी चाहिए ।**  
Similarly a medicine should not be taken for more than three days.
4. **लिपिक को इस मामले के बारे में तुरंत एक टिप्पणी लिखनी चाहिए ।**  
The clerk should immediately write a note (on) about this matter.
5. **गंदे पानी से (में) नहीं नहाना चाहिए ।**  
(One) should not bathe in dirty water.
6. **मरीजों को ठीक वक़्त पर दवा और ख़ुराक देनी चाहिए ।**  
One should give medicine and diet to the patients at the correct time.

7. **नौकरानी को आटा पीसना चाहिए ।**  
The servant-maid should grind flour.
8. **पौधे से बेकार फूल नहीं तोड़ना चाहिए ।**  
One should not pluck flowers unnecessarily from the plant.
9. **शराब पीने के बाद गाड़ी नहीं चलानी चाहिए ।**  
One should not drive a vehicle after drinking liquor.
10. **इच्छुक लोगों को हिन्दी सिखानी चाहिए ।**  
One should teach Hindi to people who desire.
11. **कल का काम आज ही और आज का काम अभी करना चाहिए ।**  
We must do tomorrow's work today itself and today's work now itself.
12. **तुमको इस बार परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए । नहीं तो शादी को भूल जाओ ।**  
You must pass the examination this time. Otherwise forget marriage.
13. **बूढ़ों को पढ़ते समय चश्मा पहनना चाहिए ।**  
Old people must wear spectacles while reading.
14. **हमें अफ़वाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए ।**  
We should not believe in rumours.
15. **धोबी से कहो कि उसको आज कपड़े लाने चाहिए ।**  
Tell the washerman that he should bring the clothes today.
16. **इनसान को गूँगे जानवरों पर रहम करनी चाहिए ।**  
Man must take pity on dumb animals.
17. **स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना चाहिए ।**  
To preserve health, we should sleep early in the night and get up early in the morning.
18. **हमें रेलगाड़ी के छूटने के कम से कम पंद्रह मिनट पहले स्टेशन पहुँचना चाहिए ।**  
We must reach the station at least 15 minutes before the departure of the train.

19. खाली दिमाग़ शैतान का कारख़ाना है। अतएव हमेशा कोई न कोई काम करते रहना चाहिए।  
A vacant brain is devil's factory. So we must always do some work or other.
20. आज के बच्चे दूरदर्शन के सामने बैठ जाते हैं। उनको रोज़ खेलना चाहिए।  
Today's children sit before TV. They should play daily.
21. बूढ़े लोगों को अपनी सेहत की रक्षा के लिए खुली हवा में टहलना चाहिए।  
Old people should walk in open air to protect their health.
22. स्टेट बैंक को हर गाँव में एक शाखा खोलनी चाहिए।  
The State Bank should open a branch in every village.
23. हमें अपने देश को (से) प्यार करना चाहिए।  
We must love our country.
24. हमारे नेताओं को ग़रीबी हटाने के लिए संघर्ष करना चाहिए।  
Our leaders should struggle to eradicate poverty.
25. तुमको अब्राहम लिंकन का भाषण याद करना चाहिए।  
You must memorise Abraham Lincoln's speech.
26. पुस्तकालय के अंदर किसी को बातचीत नहीं करनी चाहिए।  
Nobody should talk (engage in conversation) inside the library.

(2)

In constructions like you should have, he should have, etc., the same procedure as shown above is followed. Then add:

- i. था if there is no object or if the object is masculine singular.
- ii. थे if the object is masculine plural.
- iii. थी if the object is feminine singular.
- iv. थीं if the object is feminine plural.

Examples:

1. सलीम को तुरंत आना चाहिए था। Salim should have come at once. (no object)
2. रसोइए को भोजन बनाना चाहिए था। The cook should have prepared meals. (object Mas. Sing.)

3. मुझे ज़्यादा निमंत्रण पत्र भेजने चाहिए थे। I should have sent more invitations. (object Mas. Pl.)
4. आपको यह पुस्तक पढ़नी चाहिए थी। You should have read this book. (object Feminine Sing.)
5. नौकर को ताज़ी तरकारियाँ लानी चाहिए थीं। The servant should have brought fresh vegetables.

(3)

Then there is the simple use of चाहिए to denote what one wants or needs.

Examples

1. आपको क्या चाहिए, जी? What do you want, sir?
2. मुझे कुछ रुपये चाहिए। I need some money.
3. अंधे को क्या चाहिए, दो आँखें। What does a blind man want, two eyes.
4. प्यासे को थोड़ा पानी चाहिए। The thirsty person needs some water.
5. चपरासी को एक सप्ताह की छुट्टी चाहिए। The peon needs leave for a week.

(4)

Another special usage is connected with style.

1. He must come - a) उसको आना चाहिए। (simple statement)  
b) उसको चाहिए कि वह आए। (style)
2. Soldiers must obey their superiors.  
a. सिपाहियों को अधिकारियों का हुक्म मानना चाहिए।  
b. सिपाहियों को चाहिए कि वे अधिकारियों का हुक्म मानें।

### VOCABULARY

अफ़वाह* - rumour	आटा - flour	ख़ुराक* - diet
टिप्पणी* - note, remark	पीसना - grind	रहम* - pity
शांखा* - branch	स्वास्थ्य - health	

### 33. AUXILIARY VERB - PRESENT TENSE HAVE TO

सहायक क्रिया, 'हो, पड़'

To indicate necessity, requirement or obligation, हो is used.  
To indicate force or compulsion, पड़ is used.

While हो is mild, पड़ is strong. हो indicates voluntary action. पड़ is more forcible than हो. हो places stress on the action – that it has to be performed. There is no choice regarding the action. पड़ places stress on the doer. He/She cannot avoid the work. But people use पड़ at most places.

When हो/पड़ is used:

1. add को to subject. (Lesson 10)
2. add ना to the verb root.
3. If there is an object, the above ना will be for masculine singular object. It will become नी if the object is feminine and ने if the object is masculine plural.
4. Then put होता है/पड़ता है. But if the verb is transitive put होता/पड़ता according to the object. Then add है to indicate present tense.

#### MODEL SENTENCES (Intransitive verbs)

1. मुझे जल्दी घर जाना पड़ता है ।  
I have to go home early.
2. डॉक्टर लोगों को रात में देर तक जागना पड़ता है ।  
Doctors have to keep awake till late in the night.
3. जिलाधीश को पाँच बजे ही उठना होता है ।  
The Collector has to get up at five o' clock itself.
4. भरत को अगले महीने बेंगलूर जाना होता है ।  
Bharat has to go to Bangalore next month.

5. हमें उत्तर भारत में हिन्दी में बोलना पड़ता है ।  
We have to talk in Hindi in North India.
6. गरीब लोगों को गलियों में रहना पड़ता है ।  
The poor people have to live in lanes.
7. चारपाई में इतने खटमल हैं कि हमें ज़मीन पर ही सोना पड़ता है ।  
There are so much of bugs in the cot that we have to sleep on the floor only.

#### Transitive verbs

1. बीमारी के कारण उस लिपिक को छुट्टी लेनी पड़ती है ।  
That clerk has to take leave due to illness.
2. मुझे खर्च के लिए घड़ी बेचनी पड़ती है ।  
I have to sell the watch for my expenses.
3. मनोहर को अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं ।  
Manohar has to wash his clothes himself.
4. मज़दूरों को दिन भर काम करना होता है ।  
The labourers have to work throughout the day.
5. पुष्पा को सभा में प्रार्थना गीत गाना पड़ता है ।  
Pushpa has to sing prayer song in the meeting.
6. लेखकों को जीवन भर बहुत लिखना पड़ता है ।  
Writers have to write a lot throughout life.
7. शहरों में मकान के लिए किराया ज़्यादा देना पड़ता है ।  
We have to give much rent for a house in towns.
8. राघव को अभी तीन पत्र टाइप करने होते हैं ।  
Raghav has to type three letters just now.
9. ड्राइवर (चालक) को रोज़ गाड़ी साफ़ करनी पड़ती है ।  
The driver has to clean the vehicle daily.
10. वकीलों को काला कोट पहनना पड़ता है ।  
The advocates have to wear black coat.



## 34. AUXILIARY VERB – PAST TENSE

### HAD TO

#### सहायक क्रिया 'पड़ा'

To indicate that some action had to be performed in the past as a matter of duty whether one liked it or not:

1. add **को** to subject (Lesson 10)
2. add **ना** to the verb root.
3. If there is an object, and if it is masculine singular, adding **ना** to verb root is enough. If the object is feminine, this **ना** will change to **नी**. It will change to **ने** if the object is masculine plural.
4. End the sentence with **पड़ा** if there is no object. If there is an object, it will be **पड़ी** for the object in feminine singular and **पड़ीं** in plural. If the object is in masculine plural, end the sentence in **पड़े**.

#### Examples

1. I had to go - **मुझे जाना पड़ा** । (no object)
2. I had to write letter - **मुझे पत्र लिखना पड़ा** । (object Mas. Sing.)
3. I had to write three letters - **मुझे तीन पत्र लिखने पड़े**।(object Mas. Pl.)
4. I had to sell this cow - **मुझे यह गाय बेचनी पड़ी**। (Object Feminine. Sing.)
5. I had to sell two cows - **मुझे दो गायें बेचनी पड़ीं** । (Object Fem.Pl.)

#### MODEL SENTENCES

1. **मुझे कल अचानक मद्रास जाना पड़ा** ।  
I had to go to Madras suddenly yesterday.
2. **तुमको प्रधान अध्यापक से क्यों मिलना पड़ा?**  
Why had you to meet the headmaster?
3. **बच्चों को घर के अंदर ही खेलना पड़ा** ।  
Children had to play inside the house only.
4. **सीता को महिला छात्रावास में ठहरना पड़ा** ।  
Sita had to stay in ladies hostel.

5. **लकड़हारे को पेड़ काटना पड़ा** ।  
The woodcutter had to cut the tree.
6. **वर्षा के कारण हमें भीगना पड़ा** ।  
Due to rain we had to get drenched (we were drenched).
7. **बाबर को राजपूतों से लड़ना पड़ा** ।  
Babar had to fight with the Rajputs.
8. **शोक-सभा में सबको चुप रहना पड़ा** ।  
At the condolence meeting, all had to remain silent.
9. **मुझे लक्षद्वीप में रोज़ मछली खानी पड़ी** ।  
I had to eat fish daily in Lakshadweep.
10. **आर्थिक कारण से हरीश को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी** ।  
Due to economic reason, Harish had to give up his studies in the middle (halfway).
11. **कुंती देवी को कर्ण के सामने अपना रहस्य प्रकट करना पड़ा** ।  
Kunti Devi had to reveal her secret in the presence of Karna (to Karna).
12. **मुझे घड़ी की मरम्मत के लिए पचास रुपये देने पड़े** ।  
I had to pay Rs.50 to repair the watch.
13. **बीमारी की वजह से मेरे भाई को इस्तीफ़ा देना पड़ा** ।  
Due to illness my brother had to resign.
14. **राजेश को अपनी बहन के लिए यह महँगी साड़ी ख़रीदनी पड़ी** ।  
Rajesh had to buy this costly saree for his sister.
15. **कार ख़रीदने के लिए राकेश को सरकार से ऋण लेना पड़ा** ।  
Rakesh had to take a loan from the government to buy a car.
16. **मुझे उसके साथ तेलुगु में ही बोलना पड़ा क्योंकि वह कोई दूसरी ज़बान नहीं जानता था** ।  
I had talk to him in Telugu only because he did not know any other language.

#### VOCABULARY

- |                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| आर्थिक - economic, financial | इस्तीफ़ा - resignation    |
| ऋण - debt, loan              | भीगना, भीगना - become wet |
| मरम्मत* - repair             | लकड़हारा - woodcutter     |

**35. AUXILIARY VERB - FUTURE TENSE****WILL HAVE TO****सहायक क्रिया 'होगा, पड़ेगा'**

To indicate that a certain action will have to be performed in the future, this form is used. It indicates obligation and not compulsion (चाहिए). The procedure is the same as explained in the two previous lessons.

- i) add **को** to subject
- ii) add **ना** to verb root
- iii) If there is an object change **ना** into **नी** or **ने**, if necessary.
- iv) Finally to indicate future add **पड़ेगा/होगा** if there is no object. If there is an object, change **पड़ेगा/होगा** into **पड़ेंगे, पड़ेगी, पड़ेगी;** **होंगे, होगी, होंगी** as required.

**Examples:**

1. You will have to go now. **तुमको अब जाना पड़ेगा ।**
2. You will have to buy a watch. **तुमको एक घड़ी खरीदनी पड़ेगी ।**
3. You will have to bring some fruits. **तुमको कुछ फल लाने होंगे ।**

**MODEL SENTENCES**

1. **मुझे आज दफ्तर को जल्दी जाना पड़ेगा ।**  
Today I will have to go to office early.
2. **तुमको दुकान से मिट्टी का तेल लाना पड़ेगा ।**  
You will have to bring kerosene from shop.
3. **देश की प्रगति के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण करना पड़ेगा ।**  
We will have to control population for the country's progress.
4. **शेखर को अपना कमरा साफ़-सुथरा रखना होगा ।**  
Shekhar will have to keep his room neat and clean.
5. **परीक्षा में पास करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी/परिश्रम करना पड़ेगा ।**  
We will have to work hard to pass in the examination.

6. **उच्च अधिकारी को इस समस्या पर सोचना और निर्णय लेना होगा ।**  
The top officer will have to think over this matter and decide.
7. **नेताओं को समाज से अंधविश्वासों को दूर करना पड़ेगा ।**  
The leaders will have to remove/eradicate superstitions from society.
8. **अगर तुम्हें उत्तर भारत जाना पड़े तब केवल हिन्दी में बात करनी पड़ेगी ।**  
If you happen to go to north India, then (you) will have to talk in Hindi only.
9. **छात्रों को अध्यापकों का उपदेश मानना होगा ।**  
Students will have to accept (obey) the advice of teachers.
10. **बेकारी को दूर करने के लिए सरकार को नये कारखाने खोलने होंगे ।**  
The Government will have to open new factories to remove unemployment.
11. **देश की भलाई के लिए गंगा और कावेरी को जोड़ना होगा ।**  
We will have to connect the Ganges and the Cauvery for the country's benefit.
12. **गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देनी होगी (वज़ीफ़ा देना होगा) ।**  
We will have to give (grant) scholarship to poor students.
13. **इस मरीज़ को दो महीने आराम करना पड़ेगा ।**  
This patient will have to take rest for two months.
14. **कमला दास की यह कविता पत्रिका के अगले अंक में छापनी होगी ।**  
We will have to print this poem of Kamala Das in the next issue of the magazine.
15. **ज्ञान की वृद्धि के लिए रोज़ अख़बार पढ़ना होगा ।**  
For improving knowledge, one will have to read newspaper daily.
16. **कर्ज़ चुकाने के लिए मुझे अपना घर बेचना पड़ेगा ।**  
I will have to sell my house to settle loan.

17. व्यापारी को तुरंत माल भेजना पड़ेगा ।  
The trader will have to send (despatch) goods at once.
18. विवाह के दिन दूल्हा और दुलहिन को सुबह जल्दी उठना पड़ेगा ।  
The bridegroom and the bride will have to get up early in the morning of the wedding day.
19. मुझे ही जन्मदिन की दावत के लिए सब तैयारी करनी पड़ेगी/सब प्रबंध करना होगा ।  
I alone have to make all arrangement for birthday feast.

**VOCABULARY**

- अंक - issue of magazine      अंधविश्वास - superstition  
उपदेश - advice      छात्रवृत्ति\* - scholarship  
छापना - to print      जनसंख्या\* - population  
जोड़ना - to connect      तैयारी\* - arrangement  
दावत\* - feast, banquet      दुलहिन\* - bride  
नियंत्रण - control      निर्णय - decision  
प्रगति\* - progress      प्रबंध - arrangement  
बेकारी\* - unemployment      मेहनत\* - hard work  
वृद्धि\* - increase      वज़ीफ़ा - scholarship  
समाज - society

**36. AUXILIARY VERB 'CAN'**

**सहायक क्रिया 'सक'**

To express the possibility of performing of an action, सक (can) is used. This सक is added to the root of the verb, to convey the idea 'be able to,' 'can' 'may'. The root of the verb does not undergo any change. But सक will change according to the tense and the gender-number of the subject.

Subject	Present Tense		Past Tense		Future Tense	
	Mas	Fem	Mas	Fem	Mas	Fem
मैं	सकता हूँ	सकती हूँ	सका	सकी	सकूँगा	सकूँगी
तुम	सकते हो	सकती हो	सके	सकी	सकोगे	सकोगी
यह, वह	सकता है	सकती है	सका	सकी	सकेगा	सकेगी
हम, आप	सकते	सकती हैं ।	सके	सकीं	सकेंगे	सकेंगी
Reference	Lesson 4		Lesson 24		Lesson 19	

**MODEL SENTENCES**

- मैं कल ही तुमको रुपये दे सकता हूँ ।  
I can give you money only tomorrow.
- क्या तुम संस्कृत में बोल सकते हो ?  
Can you talk in Sanskrit?
- सुभाष यह काम जल्दी कर सकता है ।  
Subhash can do this work quickly.
- मीना गहरी नदी में भी तैर सकती है ।  
Meena can swim even in a deep river.
- भालू पेड़ पर चढ़ सकता है ।  
The bear can climb the tree.
- एक बूँद स्याही की, कर सकती है दस लाख को विचारशील ।  
A drop of ink can make ten lakhs think.
- आजकल कोई भी मंदिरों के अंदर प्रवेश कर सकता है ।  
Nowadays anybody can enter the temples.
- क्या मैं अंदर आ सकती हूँ ?  
May I come in?

9. मुझे खेद है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका ।  
I regret that I could not do anything for you.
10. वह रोगी कुछ नहीं खा सका ।  
That patient could not eat anything.
11. हम इस इतवार को कोई भी सिनेमा देख सकते हैं ।  
We can see any film this Sunday.
12. वर्षा के कारण कल कुछ कर्मचारी दफ्तर नहीं आ सके ।  
Due to rain, some employees could not come to office yesterday.
13. क्या तुम वह घर खरीद सके ?  
Could you buy that house?
14. उस पागल की बात कोई भी समझ नहीं सका ।  
Nobody could understand that mad man's talk.
15. कल हड़ताल थी । इसलिए व्यापारी लोग माल नहीं भेज सके ।  
There was a strike yesterday. So the traders could not send goods.
16. तबीयत ठीक होने के बाद माधवी परीक्षा लिख सकेगी ।  
After her health becomes all right, Madhavi will be able to write examination.
17. आप कब मद्रास जा सकेंगे ?  
When will you be able to go to Chennai?
18. क्या कल सरला खून की जाँच के लिए आ सकेगी ?  
Will Sarla be able to come for blood test tomorrow ?
19. खुफिया पुलिस हत्यारे को जल्दी पकड़ सकेगी ।  
The detective police will be able to catch the murderer soon.
20. वह मजदूर आज शाम तक यह काम पूरा नहीं कर सकेगा ।  
That labourer will not be able to finish this work by this evening.
21. मैं तुमको पाँच सौ रुपये तक ही कर्ज़ दे सकूँगा ।  
I will be able to give you loan up to Rs.500 only.
22. मनुष्य कभी भी कोयल की तरह गाना न सकेगा, मोर की तरह नाच भी नहीं सकेगा ।  
Man will never be able to sing like the cuckoo and he will not be able to dance like the peacock also.

**VOCABULARY**

कोयल* - cuckoo	खुफिया - detective	खून - blood
खेद - regret	पागल - mad	जाँच* - test, investigation
भालू - bear	मोर - peacock	

**37. AUXILIARY VERB 'FINISH'**

**सहायक क्रिया 'चुक'**

To express the sense of finish or completion of an action, चुक is used. This is added to the root of the verb. As per meaning, the sentences will be in the past tense only — past indefinite, present perfect and past perfect. e.g. I finished eating, I have finished eating, I had finished eating.

Subject	Past Indefinite		Present Perfect		Past Perfect	
	Mas	Fem	Mas	Fem	Mas	Fem
मैं	चुका	चुकी	चुका हूँ	चुकी हूँ	चुका था	चुकी थी
तुम	चुके	चुकी	चुके हो	चुकी हो	चुके थे	चुकी थी
यह						
वह	चुका	चुकी	चुका है	चुकी है	चुका था	चुकी थी
हम, आप	चुके	चुकीं	चुके हैं	चुकी हैं	चुके थे	चुकी थीं
ये, वे						
Reference	Lesson - 24		Lesson -26		Lesson - 27	

**MODEL SENTENCES**

1. मैं यह सिनेमा कई बार देख चुका ।  
I finished seeing this film many times.
2. क्या तुम अब तक हिन्दी सीख चुके हो ?  
Have you finished learning Hindi by now?
3. अहमद पाठ पढ़ चुका था ।  
Ahmed had completed reading the lesson.
4. डॉक्टर उस बूढ़े मरीज़ को देख चुके ।  
The doctor finished seeing that old patient
5. आमीना उर्दू ग़ज़ल गा चुकी है ।  
Aameena has finished singing Urdu poems.
6. हम सुबह ही कपड़े धो चुके थे ।  
We had finished washing clothes in the morning itself.

7. क्या आप अपना घर बेच चुके ?  
Did you finish selling your house?
8. लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं ।  
The boys have finished playing cricket.
9. लेखक कहानी लिख चुके थे ।  
The writer had finished writing the story.
10. उनका भाषण समाप्त (खत्म) हो चुका ।  
His lecture was finished.
11. सभी मेहमान खाना खा चुके हैं ।  
All the guests have finished eating.
12. घर की औरतें पाँच बजे को ही नहा चुकी थीं ।  
The women of the family had finished bathing at five o'clock itself.
13. मैं महीने के प्रथम सप्ताह ही अपना सारा वेतन खर्च कर चुका ।  
I finished spending my full pay in the first week of the month itself.
14. तुम्हारा तार एक घंटे में यहाँ पहुँच चुका है ।  
Your telegram has finished reaching here in an hour.
15. बिल्ली सारा दूध पी चुकी थी ।  
The cat had finished drinking the entire milk.
16. क्या प्रधान मंत्री सभा में बोल चुके ?  
Did the Prime Minister finish speaking in the meeting?
17. क्या आप आराम कर चुके हैं ?  
Have you finished taking rest?
18. प्रसाद आई.ए.एस. परीक्षा पास कर चुका था ।  
Prasad had finished passing IAS examination.
19. लड़के अपने पाठ याद कर चुके ।  
The boys finished memorising their lessons.
20. डॉक्टर की सलाह पर मेरा दोस्त शराब पीने की आदत छोड़ चुका है ।  
On doctor's advice my friend has given up the habit of drinking liquor.

21. मैं तालाब में तैर कर चुका था ।  
I had finished swimming in the tank.
22. कर्ज के कारण उनकी जायदाद जब्त हो चुकी ।  
Due to debt his property was (had been) confiscated.

Note:

It is possible to extend the meaning of चुका to future tense also, then it will mean 'would have' e.g. 'When would you have your studies finished?'

If we wish to use चुक in future, we have to add the forms of हो. Please refer to lesson 19 under exceptions. In short, हूँगा, हूँगी, होंगे, होंगी, होगा, होंगे, होंगी will be the termination depending upon the subject.

वे अब गा चुके होंगे । They would have finished singing by now.

चिट्ठी समय पर पहुँच चुकी होगी । The letter would have finished reaching there.

वे जवाब लिख चुके होंगे । They would have finished writing the reply.

### 38. AUXILIARY VERB 'BEGIN'

#### सहायक क्रिया 'लग'

To indicate that an action has started or has started just now or will start soon, this form of verb is used.

- The main verb will end in ने (आने, जाने)
- लग will change according to the tense and according of the subject.

Subject	Present Tense		Past Tense		Future Tense	
	Mas	Fem	Mas	Fem	Mas	Fem
मैं	लगता हूँ	लगती हूँ	लगा	लगी	लगाँगा	लगाँगी
तुम	लगते हो	लगती हो	लगे	लगी	लगागे	लगागी
यह, वह	लगता है	लगती है	लगा	लगी	लगेगा	लगेगी
हम, आप ये, वे	लगते हैं	लगती हैं	लगे	लगीं	लगेँगे	लगेँगी
Reference	Lesson 4		Lesson 24		Lesson 19	

Note: It is possible to use लगा है, लगा था, लगा होगा to indicate present perfect, past perfect and past doubtful respectively.

#### MODEL SENTENCES

- मैं रोज़ छः बजे से सबक़ लिखने लगता हूँ ।  
I begin to write lesson every day from six o'clock.
- स्कूल के लड़के शाम को गुल्ली-डंडा खेलने लगते हैं ।  
The school boys begin to play tip-cat (game) in the evening.
- सिपाही उठने के बाद कसरत करने लगते हैं ।  
The soldiers begin to do exercise after getting up.
- बच्चा रात को क्यों रोने लगा ?  
Why did the child begin crying in the night?
- आकाश में बादल छाने लगे और मोर नाचने लगे ।  
Clouds began to spread in the sky and peacocks began to dance.
- कुत्ता भौंकने लगा क्योंकि उसने चोर को देखा ।  
The dog started barking because it saw the thief.

- वह गरीब है, इसलिए वह भीख माँगने लगा ।  
He is poor. So he started begging.
- जब गणपति गाने लगा तब तुम क्यों बाहर चले गए ?  
When Ganapati began to sing, then why did you go out?
- रेवती उत्साह के साथ काम करने लगी ।  
Revati started working with enthusiasm.
- पहाड़ से नदी बहने लगी ।  
The river started flowing from the mountain.
- हम लगातार हँसने लगे ।  
We began to laugh continuously.
- वे अभी परीक्षा के लिए पढ़ने लगे ।  
They started reading for the examination just now.
- चपरासी दफ़्तर के पुराने कागज़ों को जलाने लगा है ।  
The peon has started burning old papers of the office.
- सुधीर गुस्से में लगातार बोलने लगा ।  
Sudheer started speaking continuously in anger.
- गाई ने हरी झंडी दिखाई और गाड़ी चलने लगी थी ।  
The guard showed (waved) green flag and the train had started moving.
- अब हम हिन्दी थोड़ा-थोड़ा समझने लगे हैं ।  
Now we have started understanding Hindi a little.
- वर्षा के कारण दुकानें बंद होने लगीं ।  
Due to rain, shops began to be closed.
- प्रधानमंत्री जी हर सोमवार (को) राष्ट्रपति जी से मिलने लगेंगे ।  
The Prime Minister will start meeting the President every Monday.
- तेज़ हवा के कारण आग सब जगह फैलने लगी ।  
Due to fast wind, fire started spreading everywhere.
- बच्चे सरकस देखने के लिए ज़िद करने लगे ।  
Children began insisting on seeing the circus.

## 39. AUXILIARY VERB - ALLOW

### सहायक क्रिया 'दे'

To express giving permission to do an act, दे is used in Hindi. In this context it does not have the usual meaning of give. Using दे, we can construct expressions like let one go, allowed one to speak, will permit one to see.

- Put the root of the main verb in ने ending form जाने, पढ़ने, खेलने
- Use दे according to the gender and number of the subject and according to the tense.
- If the sentence is in past tense and if it has an object, add ने to the subject and use दे according to the object. (see Lesson 25)
- If the sentence is in the past tense but without an object, दे will end in दिया ।

### MODEL SENTENCES Present Tense

- वह मुझे अपनी पुस्तक पढ़ने देता है ।  
He allows (lets) me read his book.
- कुछ अध्यापक छात्रों को खेलने नहीं देते ।  
Some teachers do not allow the students to play.
- उसकी माँ उसको दिन में सोने नहीं देती ।  
His(her) mother does not allow him(her) to sleep during daytime.
- बीमार बच्चा अपनी माँ को खाना बनाने नहीं देता ।  
The sick child does not let its mother to cook food.

### Past Tense

- मास्टरजी ने मुझे कक्षा में कहानी-पुस्तक पढ़ने नहीं दी ।  
The teacher did not allow me to read story-book in the class.
- गोपाल ने अपने भाई को नुमाइश देखने के लिए जाने नहीं दिया ।  
Gopal did not permit his brother to go to see the exhibition.
- भारत सरकार ने विदेशियों को कारखाने खोलने नहीं दिए ।  
The Government of India did not permit foreigners to open factories.

- लोक सभा के अध्यक्ष ने विपक्षी दल के नेता को कार्यवाही में दखल देने नहीं दिया ।  
The Speaker of Lok Sabha did not permit the leader of the opposition party to interfere in the proceedings.
- विश्वविद्यालय ने कुछ छात्रों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया ।  
The university did not permit some students to appear for the examination.
- मच्छरों ने मेहमानों को रात भर सोने नहीं दिया ।  
The mosquitoes did not allow the guests to sleep throughout the night.
- मंत्री जी ने मुझे उनका एक फ़ोटो लेने (उतारने, खींचने) दिया ।  
The minister permitted me to take a photo of him.
- चौकीदार ने चोर को भागने नहीं दिया ।  
The watchman did not let the thief to run away (escape).

### Future Tense

- मेरे पिताजी मुझे अक्सर सिनेमा देखने नहीं देंगे ।  
My father will not allow me to see cinema often.
- हमारे अधिकारी हमें दफ़्तर से फ़ोन करने नहीं देंगे ।  
Our officer will not permit us to make phone calls from office.
- क्या डॉक्टर साहब मरीज़ को चाय पीने देंगे ?  
Will the doctor allow the patient to drink tea?
- दुकानदार ख़रीदी हुई साड़ी को बदलने नहीं देगा ।  
The shopkeeper will not allow exchange of saree bought earlier.

### Imperative

- जिओ और जीने दो ।  
Live and let live.
- कुली को गाड़ी से सामान उतारने दो ।  
Allow the porter to unload the luggage from the cart.
- मुझे अपनी बात कहने दीजिए ।  
Please allow me to speak my matter.
- उस ग़रीब को मत रोकिए, अंदर आने दीजिए ।  
Please don't obstruct that poor man. Please allow(him) to come in.
- तुम अहमद को सिर्फ़ दो दिन अपने कमरे में ठहरने दो ।  
Allow Ahmed to stay in your room just for two days.

## 40. THE ABSOLUTIVE

### पूर्वकालिक क्रिया 'कर'

To denote doing a work after finishing/doing some other work earlier, **कर** is used. That is, it stands for 'having done'. e.g. I go to office after eating food. The actual work is 'going the office'. The work done earlier is eating. The **कर** will be added to eat **खाकर**. i.e. मैं दफ़्तर जाता हूँ + खाना खाकर। i.e., मैं खाना खाकर दफ़्तर जाता हूँ । When there are two actions, **कर** is added to the first in time.

- i) Therefore, in constructions like the above, **कर** is added to the root of the verb (जा,दे,सो)
- ii) If there is already a **कर** (as in याद कर, प्रयत्न कर ), totally there will be one **करके** . i.e. याद कर + कर = याद करके.

### MODEL SENTENCES

1. सोचकर कोई काम करो ।  
Do any work after thinking.
2. माँ को देखकर बच्चा खुश हुआ और दौड़कर आया ।  
Seeing the mother, the child became happy and came running.
3. फूलों से सुगंध (खुशबू) निकलकर फैली ।  
Emerging from the flowers, the fragrance spread.
4. रास्ते में साँप को देखकर हम भागने लगे ।  
Seeing a snake on the path, we started running away.
5. आप परीक्षा में पास करके क्या करेंगे ?  
What will you do after passing the examination?
6. वे रात को भगवद्गीता पढ़कर सोते हैं ।  
They sleep after reading the Bhagvadgita in the night.
7. मैं नाटक देखकर अभी आ रहा हूँ ।  
I am coming just now after seeing the drama.
8. सभी पुस्तकें लेकर स्कूल जाओ ।  
Go to school, (after) taking all the books.

9. डेविड कोट पहनकर गिरजाघर में बैठता है ।  
David sits in the church wearing coat.
10. गंगा नदी हिमालय से उतरकर समुद्र की तरफ़ बहती है ।  
Descending from the Himalayas, the Ganges river flows towards the sea.
11. सिपाही हाथ में बंदूक लेकर लड़ते हैं ।  
Taking up the guns in the hand, the soldiers fight.
12. नौकरानी कपड़े धोकर ही घर जाएगी ।  
The servant maid will go home only after washing the clothes.
13. रात में शोर सुनकर हम सब उठे ।  
Hearing a noise in the night, we all got up.
14. वह भीख माँगकर पैसा कमाता है ।  
He earns money by begging alms.
15. मैं एक चिड़िया बनकर आज़ादी से उड़ना चाहता हूँ ।  
I want to fly freely becoming a bird.
16. हम बाढ़ में तैरकर किनारे पर पहुँच गए ।  
Swimming in the flood, we reached the shore.
17. बंदर के देखकर बच्चा तालियाँ बजाकर हँसा ।  
Seeing the monkey, the child laughed clapping the hands.
18. मैंने डाक-घर जाकर पोस्ट कार्ड खरीदा ।  
Going to the post-office I bought post card.
19. पक्षी एक-एक तिनका बटोरकर घोंसला बनाता है ।  
The bird builds nest after collecting each straw.
20. प्रश्नपत्र पढ़कर छात्र घबराए ।  
Reading the question paper, the students became bewildered.
21. कुत्ते को देखकर भागना नहीं चाहिए क्योंकि वह तुम्हारा पीछा करेगा ।  
Seeing a dog you should not flee because it will chase you.
22. देश की बुरी दशा देखकर तुम्हारा खून गरम नहीं हो उठता ?  
Does not your blood become hot (boil) on seeing the bad condition of the country?
23. भारत के लोग इधर-उधर बैठकर गपशप करके समय नष्ट करते हैं ।  
Indians waste (their) time sitting here and there gossiping.



24. अपने मालिक के व्यवहार से असंतुष्ट होकर सुरेश ने नौकरी छोड़ दी।  
Dissatisfied with the behaviour of his master, Suresh gave up the job.

**VOCABULARY**

खुशबू * - fragrance	घबराना - to be perplexed
घोंसला - nest	ताली बजाना - applaud
तिनका - straw	प्रश्नपत्र - question paper
बटोरना - collect	शोर - noise
साँप - snake	सुगंध* - fragrance

**41. PRESENT PARTICIPLE**

**वर्तमानकालिक कृदंत**

A participle is a kind of adjective. It qualifies a noun or verb. But it is formed from a verb and it retains some properties of the verb. So it may be called verbal adjective. e.g. चलती गाड़ी - a moving train.

- i) The present participle is formed by appending ता to the bare root - चलता, आता, जाता. चलता-फिरता पुस्तकालय mobile library.
- ii) Being an adjective ending in आ sound, the present participle will change according to the gender and number of the noun it qualifies. e.g. बहता पानी, खिलते फूल, चलती गाड़ी. (see Lesson 12)
- iii) For the sake of clarity, हुआ may be added after the present participle. This हुआ will change into हुई/हुए where necessary. बहता हुआ पानी साफ़ होता है। Flowing water is clean. चलती हुई गाड़ी पर मत चढ़ो। Do not board a running train. खिलते हुए फूलों को मत तोड़ो। Do not pluck the just-blossoming flowers.
- iv) The present participle may be used as adverb also, indicating how the verb (action) is done. Then it will come before the verb. It will agree with the subject. गोपाल मुस्कुराता हुआ जाता है। Gopal goes smiling. लड़के दौड़ते हुए आते हैं। Boys come running. सीता नई साड़ी पहनती हुई निकलती है। Sita moves out wearing a new saree.
- v) If there is an object and if को comes after it, the participle will be in ते form. मैं गोमती को गाते हुए देखता हूँ। I see (find) Gomathi singing. अध्यापक लड़कों को शोर मचाते हुए पाते हैं। The teacher finds the students making noise.
- vi) If the present participle is followed by समय/वक़्त, it will be preceded by के गोपाल के जाते समय at the time of Gopal's going. उसके सोते वक़्त at the time of his/her sleeping. सीता के गाते समय at the time of Sita's singing.

- vii) If the present participle is doubled for effect or style, it will take ते form.  
बच्चा रोते-रोते सो जाता है । The child sleeps while weeping..  
देखते-देखते रात हो जाती है । While looking on, the night falls.
- viii) With ही, the present participle ( ते form) denotes immediately after or as soon as.  
पुलिस के आते ही चोर भागा । As soon as the police came, the thief fled.  
आप पहुँचते ही पत्र डालिएगा । As soon as you reach, please drop a letter.
- ix) A present participle can be used as a noun.  
डूबते को तिनके का सहारा । A drowning man catches at a straw.  
वह रोतों को हँसाता है । He makes the crying persons laugh.

### MODEL SENTENCES

- मैं एक चलते-फिरते पुस्तकालय का सदस्य हूँ ।  
I am a member of a mobile library.
- सीता जलती हुई आग में उतरी ।  
Sita descended into burning fire.
- रोती हुई बच्ची को देखकर मुझे दुख हुआ ।  
Seeing a crying girl I became sad.
- मरता क्या नहीं चाहेगा?  
What thing a dying man would not desire?
- महेश दौड़ता-हाँफता हुआ यहाँ आया ।  
Mahesh came here running and panting.
- खलनायक हँसता हुआ बोला ।  
The villain spoke smilingly.
- लड़कियाँ नाचती हुई गाती हैं ।  
Girls sing while dancing.
- बंदर कूदता हुआ पेड़ पर चढ़ा ।  
The monkey climbed the tree by jumping.
- वह पागल चिल्लाता हुआ दौड़ता है ।  
That mad fellow runs screaming.

- मैंने उनको कभी खेलते हुए नहीं देखा है ।  
I have never seen him playing.
- पत्नी और पुत्र को सोते (हुए) छोड़कर सिद्धार्थ महल के बाहर आए ।  
Leaving (his) wife and son sleeping Siddharth came out of the palace.
- मैं लिखते-लिखते थक गया । अलबत्ता मैंने लिखना जारी रखा ।  
I became tired writing continuously. Nevertheless I continued writing.
- विमला बोलते-बोलते रोने लगी ।  
Vimala began to weep while talking.
- राजा रघु दान देते-देते गरीब हो गए ।  
Giving alms continuously King Raghu became a pauper.
- हमेशा पढ़ते-पढ़ते मेरी आँखें दुखने लगीं ।  
By always reading, my eyes began to ache.
- एक ही गीत को बार बार सुनते हुए हम ऊब गए ।  
We became bored hearing the same song again and again.
- चपरासी को पुकारते-पुकारते अधिकारी हार गए ।  
The officer became frustrated calling the peon again and again.
- कुछ लोग सोते-सोते बोलते हैं ।  
Some people talk while sleeping.
- आपका घर ढूँढते हुए मुझे बहुत घूमना पड़ा ।  
Searching for your house I had to roam much.
- पानी के बहते-बहते पत्थर भी घिस जाता है ।  
Even a stone wears out by the continuous flow of water.
- सोते हुए कुत्ते को तंग मत करो । नहीं तो वह तुम्हें काटेगा ।  
Don't disturb a sleeping dog. Otherwise it will bite you.

### VOCABULARY

अलबत्ता - however	ऊबना - to be bored	खलनायक - villain
जारी रखना - continue	घिसना - wear out, rub	ढूँढना - search
थकना - to be tired	दुखना - to ache	हाँफना - to pant
हारना - to be defeated		

## 42. PAST PARTICIPLE

### भूतकालिक कृदंत

In the famous line by John Keats "Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter," heard and unheard are examples of past participle. The past participle is formed just like past indefinite (See Lesson 24). Let us recollect those rules briefly here and apply them to past participle.

- The past participle is formed by appending आ to the root - चला, पढ़ा, सुना,
  - Root ending in ऊ shortens its vowel. छू=छुआ. Root ending in ई also shortens its vowel and take या. पी=पिया, जी=जिया.
  - Root ending in आ/ओ also takes या. आया, सोया.
  - Exceptions have been indicated in Lesson 24.
- Briefly, the past tense form itself is used as past participle.

### Usage

- A past participle can be used as an adjective. If the participle ends in आ, it will change according to the subject. हुआ-हुए-हुई also can be added depending upon the subject.  
सूखे पत्ते गिर रहे हैं । Dry (dried) leaves are falling.  
मैंने एक मरा हुआ साँप देखा । I saw a dead snake.
- It can be used as a noun.  
मरों को मत मारो । Do not strike those already dead.  
पढ़े-लिखे को सभ्य भी होना चाहिए । The educated should be civilized also.
- When it is used as adverb, it takes ए form.  
लड़की पीली साड़ी पहने (हुए) आई । The girl came wearing yellow saree.  
बादशाह अपनी कमर में तलवार बंधे हुए बैठे । The emperor sat with a sword tied around his waist.  
जूते पहने हुए कमरे में न आना । Don't come inside the room with the shoes on.

## MODEL SENTENCES

- रोज़ धोया हुआ कपड़ा पहनो ।  
Wear washed dress (cloth) daily.
- क्या टाल में सूखी लकड़ी मिलती है ?  
Is dry wood available in the timber-yard?
- 'बीती ताहि बिसार दे आगे की सुधि लेय'  
Forget what has gone before, think about the future. (Let bygones be bygones.)
- पौधों से फूल मत तोड़ो । गिरे हुए फूल लाओ ।  
Don't pluck flowers from plants. Bring fallen flowers.
- सुनी हुई बात पर विश्वास मत करो ।  
Don't believe in what you only heard (hearsay).
- हम मरे हुए रिश्तेदारों की याद में वार्षिक श्राद्ध करते हैं ।  
We perform annual ceremony for dead relatives.
- मंत्री की गद्दी क्या है ? वह बस एक टूटी (हुई) कुरसी के बराबर है ।  
What is a minister's throne after all? It is just like a broken chair.
- दिया(हुआ) दान वापस लेना पाप है ।  
It is a sin to take back the donation (gift) given.
- खिले (हुए) फूल देखकर तितलियाँ मँडराने लगीं ।  
Seeing the flowers that have blossomed, butterflies started hovering around.
- खुली खिड़की देखकर चोर उससे होकर घर के अंदर आया ।  
Seeing the open window, the thief entered into the house through it.
- यहाँ चुपचाप बैठी लड़की कौन थी ?  
Who was the girl who sat here silently?

(2)

If there is a noun or pronoun before a past participle, then add का/के/की to that noun or pronoun. Which one to add depends on the number and gender of the noun that comes after the past participle.

1. मेरी खरीदी पुस्तक कहीं गुम हो गई ।  
The book I bought was lost somewhere.
2. क्या तुमने तुलसीदास जी की लिखी रामायण पढ़ी है ?  
Have you read the Ramayana written by Tulsidas?
3. आपकी माँगी हुई साड़ी आजकल नहीं मिलती ।  
The saree you asked for is not available nowadays.
4. प्रेमचंद जी के लिखे सभी उपन्यास प्रसिद्ध हैं ।  
All the novels written by Premchand are famous.

(3)

If there is को after the object, the past participle will be in ए form.

मैंने सरस्वती को वहाँ बैठे हुए देखा । I saw Saraswati sitting there.

(4)

The past participle can be doubled.

मैं बैठे-बैठे थक गया । I got tired of (continuously) sitting.

## 43. COMPOUND VERBS

## संयुक्त क्रियाएँ

A compound verb is a combination of two verbs. This combination helps in emphasizing or intensifying the meaning. e.g. went away, fell down.

A verb is rendered intensive by adding another suitable verb to its root. The root of the verb will remain unchanged whereas the additional verb undergoes changes due to tense, gender, number.

e.g. मार डालना - to kill outright, डाल देना - to throw down, बोल उठना - to speak out, दे डालना - give away, खो देना - to lose definitely

In the examples cited, डालना, देना, उठना have been used as the additional verbs. But they do not retain their original meaning. They only strengthen or develop the meaning of the main (first) verb.

जा,ले,दे,डाल,पड़,उठ,बैठ,मार,रख,छोड़ are some of the verbs used as the second verbs of the compound verbs. These verbs occur in earlier lessons also in different contexts. There they have a meaning of their own. Here none. The procedure is:

- i. Put the main (first) verb in its root form (सो,रो, खरीद)
- ii. Add the second verb according the tense and the subject.
- iii. If the sentence is in past tense and if there is an object, the second verb will be formed according to the object's gender and number. Add ने to the subject in such cases.
- iv. The main verb does not undergo any change. But चल is an exception. In past tense, it will also change along with the second verb. चला गया, चले गए, चली गई, चली गई.
- v. Compound verb is generally not used in negative sentences.

1.जा: It is used to express completeness or finality. ने is not to be used when जा is used as last verb.

राम तमाम रोटी खा गया ।

Ram ate up all the bread.

सरला कल नौ बजे सो गई ।

Sarala slept away at nine o' clock yesterday.

जो बीत गई सो बात गई ।

What happened once, that happened for ever.

अब पछतात होत क्या चिड़ियाँ चुग गई खेत ।

What use repenting now? The birds pecked (ate away) the field (grains).

साइकिल चलाते समय मैं नीचे गिर गया ।

I fell down while riding the cycle.

बिल्ली सब दूध पी जाएगी ।

The cat will drink off the entire milk.

धोबी कपड़े ले गया ।

The washerman took away the clothes.

2. ले: It indicates doing a thing for one's own sake. Further, it emphasizes the meaning of the main verb.

साहूकार ने किसान की ज़मीन छीन ली ।

The money-lender confiscated the peasant's land.

क्या तुमने इतनी जल्दी खा लिया ?

What! Did you finish eating so quickly?

आप खर्च के लिए कुछ रुपये ले लीजिए ।

You please take (away) some money for expenses.

अब्दुल आपकी बात ज़रूर मान लेगा ।

Abdul will certainly accept your matter.

मैंने वह घर ख़रीद लिया ।

I had (finally) purchased that house.

3. दे: It signifies doing a thing for someone else. It also emphasizes the meaning of the main verb.

उस अमीर ने अपना सारा धन ग़रीबों में बाँट दिया ।

That rich man distributed all his wealth among the poor.

शिवाजी ने औरंगज़ेब को हरा दिया ।

Shivaji defeated Aurangzeb.

रामदास ने अपनी पुरानी घड़ी बेच दी ।

Ramdas sold out his old watch.

वह अपनी पुरानी किताबें मुझे ही दे देगी ।

She will give away her old books only to me.

समाचार सुनकर मैं तुरंत चल दिया ।

Hearing the news I started out at once.

4. डाल: It gives the idea of completion or thoroughness, with vehemence and within a short time. The idea of throwing also is suggested.

हाथी आसानी से पेड़ को तोड़ डालता है ।

The elephant breaks up the tree easily.

हनुमानजी ने राक्षसों को मार डाला ।

Hanuman killed the demons (in full).

एक शैतान लड़के ने खिड़की का शीशा तोड़ डाला ।

A mischievous boy broke the glass pane of the window.

पागल आदमी ने अपने कपड़े फाड़ डाले ।

The mad fellow tore away his clothes.

लकड़हारे ने पेड़ काट डाला ।

The woodcutter cut away the tree.

5. पड़: It signifies the suddenness of an action. It is also added to verbs which signify some act of consciousness for emphasis. It also denotes chance, happening. आ पड़ना means to befall, to happen to come.

श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु की खबर सुनकर लोग रो पड़े ।

Hearing the news of the death of Smt. Indira Gandhi people burst into tears.

विदूषक के मज़ाक़ सुनकर हम हँस पड़े ।

Hearing the jokes of the jester, we burst into laughter.

बंदर पेड़ से कूद पड़े ।

The monkeys jumped from the tree (suddenly).

शोर सुनकर सब लोग जाग पड़े ।

Hearing the noise all people woke up.

दूर पर पहाड़ दीख पड़ा ।

At a distance, a mountain came into view.

बन पड़ा means to be possible.

मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया ।

I did whatever I could.

6.उठ : 'to arise, to get up' indicates (suddenly) start to... It also has the force of unexpectedness.

बुरा स्वप्न देखकर कोमला चिल्ला उठी ।

Seeing (having) a bad dream, Komala screamed.

दुर्घटना को देखकर मेरा दिल काँप उठा ।

Seeing the accident my heart trembled.

जब सुकरात भाषण दे रहे थे, उसकी पत्नी चिल्ला उठी ।

When Socrates was giving a lecture, his wife shouted.

अहमद क्यों बीच में बोल उठता है ?

Why does Ahmed speak in the middle?

7.बैठ: It gives the idea of finality, suddenness, haste, doing a thing without forethought or in desperation or doing forcibly.

उस पागल को तंग मत करो, नहीं तो मार बैठेगा ।

Do not tease that mad man. Otherwise, he will strike.

परिणाम के बारे में सोचे बिना मैं यह क्या कर बैठा ।

Without thinking about the consequence what (awful) thing have I done!

लापरवाह पुत्र अपने पिता की सारी जायदाद खो बैठा ।

The careless son lost the entire property of his father.

डॉक्टर की हिदायत के विरुद्ध रोगी बिस्तर पर उठ बैठा ।

The patient sat up in his bed against the doctor's instructions.

शहजादा अपने भाइयों को मारकर बादशाह बन बैठा ।

The prince became the king after killing his brothers.

8.मार: It gives the idea of impropriety or foolishness.

उसने इस विषय पर एक लेख लिख मारा ।

He dashed off a full article on this subject.

तुम इतने कम समय में इतनी बड़ी किताब लिख मारी ।

You have completed writing such a big book within such a short time!

पुलिस इन्स्पेक्टर ने बदमाश को घूँसा मारा ।

The police inspector gave a blow to the rowdy.

9.रख: It implies the idea of doing a thing beforehand (priority, precedence) or keeping safely.

मंत्री ने त्यागपत्र लिख रखा है ।

The minister has kept the resignation letter ready.

मैंने नौकर से मेहमान का इंतज़ार करने के लिए कह रखा है ।

I have instructed the servant to wait for the guest.

चपरासी ने निदेशक का कमरा साफ़ कर रखा है ।

The peon has kept the director's room cleaned (already).

व्यापारी ने पुलिस को चोरी की संभावना की ख़बर दे रखी थी ।

The business man had (already) given the news to the police about the possibility of a theft.

10.छोड़: It indicates completion after effort.

मैंने इतना परिश्रम किया कि इम्तहान पास करके छोड़ा ।

I worked so hard that I got through the examination.

मैंने दुश्मन को पीछे हटाकर छोड़ा ।

I managed to drive the enemy back.

मैंने सारी रात पढ़कर वह उपन्यास पूरा कर छोड़ा ।

I read throughout the night and finished that novel.

## 44. CAUSATIVE VERBS

### प्रेरणार्थक क्रियाएँ

An action can be carried out in one of the following three ways:

1. The subject himself does the work. e.g. The car goes.
2. A second person gets the work done. e.g. The driver drives the car.
3. A third person makes the second person get the work done. e.g. The owner asks the driver drive the car.

A verb whose subject does not function directly but acts through another agent is called causal verb. When there is only one person getting the work done, it is called first causal. When there is a second person who makes the first person get the work done, it is called second causal.

Since, 'causing something to be done' is an action which must be directed towards somebody, all causative verbs are invariably transitive.

The first causative verb is obtained by adding **आ** to the root. The second causal is made by adding **वा** to the root. e.g.

1. मोटर कार चलती है। (Action done by the subject)
2. ड्राइवर कार चलाता है। (First causal done by one agent)
3. मालिक ड्राइवर से कार चलवाता है। (Second causal with two agents)

Similarly we can form **पढना** (to read), **पढाना** (make read, i.e. teach, first causal), **पढवाना** (cause to be taught, second causal), **गिरना-गिराना-गिरवाना**.

### Formation of causal verbs

- (a) Roots ending in consonant and having the first vowel short take **आ** and **वा**.

करना - do	कराना - get done	करवाना - cause to get done
सुनना - listen	सुनाना - tell	सुनवाना - cause to listen
उठना - rise	उठाना - raise	उठवाना - get raised
समझना - understand	समझाना - explain	समझवाना - cause to explain
मरना - die	मारना - kill	मरवाना - arrange to kill

- (b) If the first vowel of the root is long, shorten it. **ए** and **ओ** change into **इ** and **उ**. **ऐ** and **औ** remain unchanged.

जागना - wake	जगाना - awaken	जगवाना - cause to awaken
जीतना -conquer	जिताना -help to conquer	जितवाना -cause to be conquered
घूमना - go around	घुमाना - rotate	घुमवाना-cause to rotate
लेटना - lie down	लिटाना - to place	लिटवाना - cause to be placed
सीखना - learn	सिखाना - teach	सिखवाना - cause to teach
बोलना - speak	बुलाना - call	बुलवाना - cause to call
तैरना - float	तैराना - set afloat	तैरवाना - cause to set afloat
फैलना - stretch	फैलाना - spread	फैलवाना - cause to spread
दौड़ना - run	दौड़ाना - to race	दौड़वाना - cause to race
देखना - see	दिखाना - show	दिखवाना - cause to show

Note: **दिखलाना** (for **दिखाना**) and **सिखलाना** (for **सिखाना**) are colloquial. **खाना** has exceptional forms: **खिलाना** (feed), **खिलवाना** (cause to feed).

- (c) Roots ending in long vowel shorten it and append **ला** in the first causal and **लवा** in the second causal.

सीना - sew	सिलाना - get sewn	सिलवाना - cause to get sewn
पीना - drink	पिलाना - cause to drink	पिलवाना - cause to give to drink
देना - give	दिलाना - make to give	दिलवाना - cause another to give
सोना - sleep	सुलाना - put to sleep	सुलवाना - cause to put to sleep
धोना - wash	धुलाना - get washed	धुलवाना -cause to get washed
रोना - weep	रुलाना - make cry	रुलवाना - cause to weep

- (d) The following forms may be noted

बिकना - to be sold	बेचना - to sell	बिकवाना - cause to sell
बनना - is made	बनाना - make	बनवाना - cause to make
खुलना - opens	खोलना - to open	खुलवाना - cause to open

छूटना - leave a place	छोड़ना - give up	छुड़ाना - liberate
बैठना - sit	बिठाना - to sit	बिठवाना - cause to seat
टूटना - break itself	तोड़ना - to break	तुड़वाना - cause to break
फूटना - burst	फोड़ना - to crack	फुड़वाना - cause to burst
फटना - get torn	फाड़ना - tear	फड़वाना - cause to tear
रुकना - stop, stay	रोकना - to stop	रुकवाना - cause to stop

### MODEL SENTENCES

1. बच्चा सोता है ।  
The child sleeps
2. नौकरानी बच्चे को सुलाती है ।  
The maid-servant puts the child to sleep.
3. माँ नौकरानी से बच्चे को सुलवाती है ।  
The mother gets the child put to sleep by the maid-servant.
4. पेड़ गिरता है ।  
The tree falls.
5. नौकर पेड़ गिराता है ।  
The servant fells the tree.
6. मालिक नौकर से पेड़ गिरवाता है ।  
The owner gets the tree felled by the servant.
7. विद्यार्थी लिखना सीखते हैं ।  
The students learn to write.
8. अध्यापक विद्यार्थियों को लिखना सिखाते हैं ।  
The teacher teaches the students (how) to write.
9. प्रधानाध्यापक अध्यापक से विद्यार्थियों को लिखना सिखाते हैं ।  
The head-master causes the teacher to teach the students to write.
10. यह काम करो ।  
Do this work (yourself).
11. यह काम कराओ ।  
Have this work done (by somebody).

12. यह काम करवाओ ।  
Cause (somebody) to get this work done (by somebody else).
13. बच्चा दूध पीता है ।  
The child drinks milk.
14. माँ बच्चे को दूध पिलाती है ।  
The mother feeds the child with milk (makes to drink, suckles).
15. माँ घाय से बच्चे को दूध पिलवाती है ।  
The mother causes the nurse to feed the child with milk.
16. मैं आपका सब सामान चपरासी के हाथ आपके यहाँ भिजवा दूँगा ।  
I shall cause (arrange) to send all your luggage to your house through the peon.
17. मुझे ठंडा पानी पिलाइए और रोटी खिलाइए ।  
Make me drink (supply me with) cold water and feed me with roti.
18. मेरे पास पैसे न होने से अपनी साइकिल की मरम्मत न करवा सकूँगा ।  
As I do not have money, I will not be able to get my cycle repaired.
19. दूरदर्शन में बच्चों के कार्यक्रम में कहानियाँ सुनाते हैं ।  
They make listen (tell) stories in the children's programme in television.
20. गाड़ी तेज़ दौड़ रही थी, मैंने उसे रुकवा दिया ।  
The vehicle (car) was moving fast, I caused (somebody) to stop it.
21. मैं दर्जी से सब कपड़े सिलाता हूँ ।  
I get all my clothes sewn by the tailor.
22. मेरे पड़ोसी मुझे रोज पाँच बजे जगाते हैं ।  
My neighbour awakens me everyday at five o' clock.
23. शाहजहाँ ने संगमरमर में ताजमहल बनवाया ।  
Shahjahan caused (had) the Taj Mahal built in marble.



## 45. VOICE

### वाच्य

The form of the verb indicating the relation of the subject to the action is called Voice. In other words, it is the form of a verb that shows whether the subject of a sentence performs the action or is affected by it. Hindi has three voices: Active Voice, Passive Voice and Impersonal Voice.

1. The Active Voice (कर्तृ वाच्य) shows that the subject does something or is or is becoming something. The subject is the doer. राम जाता है। पत्ता गिरा। लड़का बीमार है। वह पढ़ेगी। उसने बुलाया। मैंने देखा। In these sentences राम, पत्ता, लड़का, वह, मैं are the doers of the acts denoted by the verbs.
2. The Passive Voice (कर्म वाच्य) represents the subject as acted upon. Hence the subject is not the doer. The object behaves like the subject and is directly related to the verb. e.g. The enemy was killed; I was called. Here, enemy and I are not the doers. On whom the result of the action (killed, called) fell assumes more importance than who killed or called.  
The result of an action will always fall on the object - the affected thing. Hence the Passive Voice is restricted to transitive verbs (verbs having objects) only. However, the Passive Voice is not much used in Hindi.
3. In the Impersonal Voice there will be no object and so the verb will be intransitive. Sometimes it does not even have a subject. The action denoted by the verb itself serves as the subject. If a subject is mentioned, it will be shown as able to or unable to do something. However, it is mostly used to express inability.
4. The verb of Active Voice can be intransitive (राम सोता है, सीता रोई) or transitive (राम पढ़ता है, सीता खाती है). The verb will agree with the subject except in four tenses of the past. (Lesson 25)

5. As an object is necessary for an action to affect, the verb of the Passive Voice can be transitive only. The verb will be according to the object. e.g. A mango was eaten; Two mangoes were eaten. In Hindi the verb should agree with the number and gender of object.

सीता से एक आम खाया जाता है। (Object Mas. Sing.)

लड़के से पुस्तकें पढ़ी गईं। (Object Fem. Pl.)

किसानों से बीज बोए गए। (Object Mas. Pl.)

औरतों से बरतन माँजे जाएँगे। (Object Mas. Pl.)

मुझसे कहानी लिखी गई। (Object Fem. Sing.)

6. The Impersonal Voice is always in the neutral construction. The verb will always be in masculine third person singular because only the action denoted by the verb is important. Though it sounds unnatural, a sentence will be like, 'Sleeping is done by Rama / Sita / boys / girls.' The intransitive verbs of the Active Voice undergo change in Impersonal Voice. e.g. I go (A.V.) - Going is done by me (I.V.). In Hindi:

राम से/सीता से/लड़कों से/लड़कियों से सोया जाता है।

मुझसे जाया जाता है।

7. The Passive Voice is formed by:
  - a. Combining the verb जाना to the main verb changed in to past tense. e.g. खाया जाना, पढ़ा जाना, किया जाना.
  - b. This compound verb will agree with the object in gender and number.
  - c. The tense of the Active Voice is to be maintained.
  - d. The subject will be followed by से.

#### Active Voice

राम चाय पीता है।

मज़दूर काम करेगा।

सीता ने चार पत्र लिखे।

#### Passive Voice

राम से चाय पी जाती है।

मज़दूर से काम किया जाएगा।

सीता से चार पत्र लिखे गए।

8. Active Voice: Subject + Verb according to subject in gender and number  
 Passive Voice: Subject + से + verb according to object in gender and number  
 Impersonal Voice: Subject + से + Verb always in third person masculine singular form

### MODEL SENTENCES

1. दक्षिण भारत में चावल अधिक खाया जाता है।  
Rice is eaten much in South India.
2. क्या रोगी को दवा दी गई?  
Was the patient given medicine?
3. पंजाब में गेहूँ ज्यादा पैदा किया जाता है।  
Wheat is produced much in Punjab.
4. यह खबर तुरंत उसको भेजी गई।  
This news was sent to him at once.
5. सभी केन्द्रीय विद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जाती है।  
Hindi is taught in all Kendriya Vidyalayas.
6. गाँवों में बकरी का दूध दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।  
Goat's milk is used as medicine in villages.
7. वह नक्सलवादी गोली से मारा गया।  
That Naxalite was killed by bullet.
8. यह देखा जाता है कि जो बात हम नहीं चाहते वही होती है।  
It is seen that the very thing which we do not like takes place.
9. आजकल सिर्फ़ परीक्षा की दृष्टि से सब विषय पढ़ाए जाते हैं।  
Nowadays all subjects are taught from the point of view of examination only.
10. पुराने ज़माने में पुस्तकें ताड़-पत्रों पर लिखी गईं।  
In olden days, books were written on palm leaves.
11. इस मौसम में मुझसे एक कदम भी जाया नहीं जाएगा।  
In this climate even one step cannot be taken by me.
12. पेट भर खाने के बाद मुझसे उठा नहीं जाता।  
After eating stomachful I am unable to get up.

13. कमज़ोर होने से उससे चला नहीं जाता।  
Being weak, he is not able to walk.
14. हम लोगों से कुछ मिनट भी चुपचाप बैठा नहीं जाता।  
We people are unable to sit quietly even for a few minutes.
15. वर्तमान युद्धों में तलवारों का प्रयोग नहीं किया जाता।  
Swords are not used in modern wars.
16. कालिदास संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे।  
Kalidas was considered the greatest poet in Sanskrit.
17. कभी-कभी आसमान पर पुच्छल तारे देखे गए हैं।  
Comets have been seen in the sky sometimes.
18. कहा जाता है कि चंद्रमा पर पेड़-पौधे नहीं हैं।  
It is said that there are no trees and plants in the moon.
19. क्या किया जाए, मेरी किस्मत ही बुरी है।  
What can be done, my luck itself is bad.

## 46. CONNECTING THE SENTENCES

### वाक्य जोड़ना

Let us see in this lesson how to combine sentences like: He is my friend. He lives in this house. It will be combined as follows: One who lives in this house is my friend. In Hindi we use जो for this purpose.

जो is a pronoun. Hence it will change if followed by a case. This has been dealt with in Lesson 10. In brief, it will change as follows: जो singular - जिसने, जिसको/जिसे, जिससे, जिसका/जिसके/जिसकी, जिसमें, जिस पर

जो plural - जिन्होंने, जिनको/जिन्हें, जिनसे, जिनका/जिनके/जिनकी, जिनमें, जिन पर।

### MODEL SENTENCES

1. इस घर में जो रहता है वह मेरा दोस्त है।  
The person who lives in this house is my friend.
2. जो दूसरों को धोखा देता है वह कालांतर में खुद धोखा खाता है।  
One who cheats others gets cheated in course of time.
3. जिसके पास धन है उसका आदर (उसकी इज्जत) सब करते हैं।  
All people respect one who has money.
4. जिस देश में गंगा बहती है वह है भारत।  
In which country the Ganges flows, it is Bharat.
5. जिसकी उम्र (आयु) तीस से ज्यादा है उसे आसानी से नौकरी नहीं मिलती/रोज़गार नहीं मिलता।  
One whose age is above 30 does not get a job easily.
6. जिसने हमें पेट दिया है वह हमें भोजन भी देगा।  
One who has given us stomach will also give us (provide us with) food.
7. जिसने यह कमरा गंदा कर दिया वही इसको साफ़ भी कर दे।  
One who has made this room dirty, let him also clean this.
8. जो कुछ चमकता है वह सोना नहीं है।  
All that glitters is not gold.

9. जिन्हें तुम साधु महात्मा समझते हो वे असल में ढोंगी हैं।  
Those whom you consider holy persons are, in fact, frauds.
10. तुम जिस व्यक्ति पर विश्वास रखते हो वह उतना वफ़ादार नहीं है।  
The person whom you trust is not loyal so much.
11. हमारे देश में ऐसे दर्जनों नेता हुए हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए कारावास भोगा।  
There have been dozens of such leaders in our country who endured imprisonment for the sake of freedom.

(2)

Now we shall see how to combine sentences like: I went to the office. No one was there. It will become one sentence like: When I went to the office, (then) no one was there. In Hindi, we have the following expressions:

When ... then	जब-तब
Where ... there	जहाँ-वहाँ
How much ... so much	जितना-उतना
How ... similarly	जैसा-वैसा/तैसा

### MODEL SENTENCES

1. जब पानी बरसने लगा तब मोर नाचने लगा।  
When it started raining, the peacock began to dance.
2. जब-जब धर्म का नाश होता है तब ईश्वर अवतार लेते हैं।  
Whenever there is a decline in morality, then God takes an incarnation.
3. जब तक देश में एकता है तब तक हम किसीका गुलाम नहीं बनेंगे।  
We will not become slaves of anybody as long as there is unity in the country.
4. जहाँ आँधी आती है वहाँ पेड़-पौधे गिर पड़ते हैं।  
Where the storm blows there trees and plants fall down.
5. जहाँ चाहो जाओ। जितना चाहो खाओ।  
Go wherever you like. Eat as much as you want.
6. यह वही जगह है जहाँ राम और हनुमान मिले थे।  
This the (very) place where Rama and Hanuman had met.

7. जहाँ कहीं ज्ञानी पुरुष जाते हैं, लोग उनका स्वागत करते हैं।  
Wherever wisemen go, people welcome them.
8. जहाँ तक मेरा सवाल है इतना वज़न मैं उठा नहीं सकता।  
As far as I am concerned, I cannot lift so much weight.
9. मैंने उसे जहाँ तहाँ ढूँढा, पर उससे मिल नहीं सका।  
I looked for him here and there (everywhere) but could not meet him.
10. जब तक साँस तब तक आस।  
As long as there is life, there is hope.
11. इस टोकरी से जितने फल चाहो उतने ले लो।  
Take as much fruits as you like from this basket.
12. जितना धन उतनी चिन्ता।  
As much money, so much worry.
13. श्री नारायणमूर्ति जितने धनी हैं उतना मैं नहीं हूँ।  
I am not so much rich as Shri Narayanamurthy.
14. हम हिमालय पर जितना ऊँचा चढ़ते हैं उतनी ठंडक बढ़ती है।  
The higher we climb the Himalayas, the cooler it is.
15. जितनी पुस्तकें एक लेखक के पास होती हैं उतनी एक प्रोफ़सर के पास भी नहीं होती।  
Even a professor does not have (possess) as many books as a writer does (has).
16. जितने जंग के जहाज़ अमेरिका के पास हैं उतने भारत के पास नहीं होते।  
India does not have so many war ships as America has.
17. जितने दिन तुम इस शहर में ठहरोगे उतने दिन मेरा मेहमान बनकर रहो।  
You become my guest for as many days as you will stay in this town.
18. जैसा बाप वैसा बेटा।  
Like father like son.
19. जैसा दाम वैसा काम।  
As is the pay so is the work.
20. जैसा काम(है) वैसा नाम (है)।  
As is the work so is the name (fame).
21. तुम जैसा बोओगे, वैसा काटोगे/जैसी करनी वैसी भरनी।  
As you sow so shall you reap.

## 47. THE USE OF कि AND वाला

### कि

1. For reporting a speech, there is only one form in Hindi, namely, the direct narration. There is no such thing as indirect speech in Hindi. To report somebody's words, the same words of the speaker are reproduced with कि (that). Therefore, the two sentences, The boy said, 'I will go to college,' and 'The boy said that he would go to college' would be the same in Hindi: लड़के ने कहा कि मैं कालेज जाऊँगा। There is no harm if the English pattern with inverted commas is followed, i.e., लड़के ने कहा, 'मैं कालेज जाऊँगा' It is also possible to use the indirect form of speech as found in English. लड़के ने कहा कि वह कालेज जाएगा।
2. कि is used as conjunction.  
यह बड़ी अच्छी बात है कि आप आ गए।  
It is a very nice thing that you have come.  
मैं जानता हूँ कि वह एक पेटूरा है।  
I know that he is a glutton.
3. कि is used in the sense of or / whether.  
तुम जाओगे कि नहीं?  
Won't you go or not?  
है कि नहीं?  
Is it not so?  
हम यह नहीं कह सकते कि पानी बरसेगा कि नहीं।  
We cannot say whether it will rain or not.
4. कि is also used as infinitive (to). नौकर से कहो कि वह घर जाए।  
Tell the servant that he go home (Tell the servant to go home).

### वाला

The most popular and multi-purpose suffix वाला is joined to noun, verb and adverb and thereby give meanings such as owner, doer or as belonging to a place.

## 1. With Noun

- a. When **वाला** is appended to a noun, it denotes: one who sells, one who deals in, one who is concerned with, etc. If the noun is masculine with **आ** end, the **आ** will become **ए**.  
**रुपया+वाला-रुपएवाला.**

फलवाला - fruit seller	बिजलीवाला - electrician
अखबारवाला - paper boy	सब्जीवाला - vegetable seller
पत्थरवाला - made of stone	मिठाईवाला - vendor of sweets
दूधवाला - milkman	गाड़ीवाला - cartman
पुलिसवाला - policeman	टोपीवाला - one wearing cap
मकानवाला - house owner	मुंबईवाला - Mumbaikar

- b. The masculine plural form will end in **वाले** and the feminine form will be **वाली**.

moneyed persons - **पैसेवाले**

sellers of bananas - **केलेवाले**

a book with binding - **जिल्दवाली किताब**

side lane - **बगलवाली गली**

- c. If **वाला** is tagged to a plural noun, that noun will take **ओं** or **यों** form.

one with long hair - **लंबे बाल+वाला-लंबे बालोंवाला**

one with big ears - **बड़े कानोंवाला**

girl with small eyes - **छोटी आँखें+वाली लड़की-छोटी आँखोंवाली लड़की ।**

## 2. With verbs (gerunds)

one who reads - **पढ़ना+वाला-पढ़नेवाला**

one who knows - **जाननेवाला**

the tomorrow that will not come - **न आनेवाला कल**

the train to Pakistan - **पाकिस्तान जानेवाली गाड़ी**

about to close - **बंद होनेवाला**

the train is about to start - **गाड़ी छूटनेवाली है ।**

the speaker - **बोलनेवाला**

## 3. With adverbs

that which is above - **ऊपरवाला**

the house below - **नीचेवाला मकान**

wall that is behind - **पीछेवाली दीवार**

4. **वाला** may indicate futurity.

**मैं कल मुंबई जानेवाला हूँ ।** I am going to Mumbai tomorrow.

## MODEL SENTENCES

1. **तुम दिल्ली जाओगी कि जयपुर?**  
Will you (feminine) go to Delhi or Jaipur?
2. **पिताजी बोले कि तुम माताजी से रुपए ले लो ।**  
Father said that you take money from mother.
3. **वह अभिनेत्री कहती है कि वह नाचना नहीं जानती ।**  
That actress says that she does not know dancing.
4. **मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आप लोगों की सेवा कर सका ।**  
I am very happy that I could render service to you people.
5. **गांधीजी ने कहा कि हमें जरूर आज़ादी मिल जाएगी ।**  
Gandhiji said that we would certainly get freedom.
6. **डाक्टर ने मरीज़ से कहा कि आपकी तबीयत ज़रा अच्छी है ।**  
The doctor told the patient that your (his) health is slightly better.
7. **इतिहास में हमने पढ़ा है कि भारतीयों में एकता का अभाव था ।**  
We have read in history that there was lack of unity among Indians.
8. **मेरी बहन ने अपने पत्र में लिखा है कि वह दीपावली को आएगी ।**  
My sister has written in her letter that she would come for Deepavali.

9. मैंने सब्जीवाले से कहा कि हमें रोज़ ताज़ी तरकारी चाहिए।  
I told the vegetable seller that we need fresh vegetables daily.
10. कोई नहीं जानता कि आज पानी बरसेगा कि नहीं।  
Nobody knows whether it will rain today or not.
11. कंप्यूटर का काम जाननेवाले को जल्दी नौकरी मिलती है।  
One who knows computer work gets job quickly.
12. मीठी बातें करनेवाले को सब पसंद करते हैं।  
All people like the person who talks sweet things.
13. अच्छी तरह काम करनेवाला कर्मचारी आसानी से तरक्की करता है।  
The employee who works well gets progress (promotion) easily.
14. वहाँ शोर मचानेवाले उन बच्चों को डाँटो।  
Chide those children who are making noise there.
15. अभी थोड़ी देर में मंत्री साहब भाषण देनेवाले है।  
The minister is about to speak (give lecture) within a short while.
16. आज के कार्यक्रम में भाग लेने दो गानेवाले आए हैं।  
Two singers have come to participate in today's programme.
17. उस पत्थरवाले मकान का मालिक कौन है?  
Who is the owner of that house (made) of stone.
18. सौ रुपयेवाली घड़ी भी ठीक चलती है।  
The clock (watch) that costs a hundred rupees also works well.
19. वह टोपीवाला मुसाफ़िर कहाँ से आया है?  
Where has that traveller wearing a cap come from?
20. खुशामद करनेवालों पर कभी यक़ीन नहीं रखना चाहिए।  
We (one) should never believe those who flatter.

## 48. AGREEMENT OF SUBJECT WITH VERB

We know that subject and verb have close relationship. If the subject is singular, the verb too will be in singular. If the subject is plural, the verb too will be plural. If the subject is a pronoun like I, you, he, etc. the verb too takes the form appropriate to that pronoun. Apart from these neat rules, in Hindi, if the subject is masculine, the verb will be in masculine. If the subject is feminine, the verb too will be feminine. In certain tenses, when the verb is transitive, the verb will be according to the object in number and gender.

So far good. But what will be the form of the verb if a) singular and plural nouns, b) masculine and feminine noun, c) different pronouns come side by side as subjects in the same sentence? In English, when a multiple subject consists of a third, second, and first person pronoun, the verb is in the first person. Let us take the case of Hindi.

1. If the sentence has more than one subject, the verb will be in plural.  
राम और लक्ष्मण आए हैं।
2. If the subjects are human beings and one of them is masculine, the verb also will be masculine.  
राम और सीता आते हैं।  
सीता और राम आते हैं।  
लड़के और लड़कियाँ आते हैं।  
लड़कियाँ और लड़के आते हैं।
3. If the subjects are not human beings, yet living things (animate), then the verb will agree with the nearest subject.  
गाएँ और बैल चर रहे हैं।  
बैल और गाएँ चर रही हैं।
4. If the subjects are not living things (animate) and each is singular, then the verb will be in plural and masculine.  
एक स्टूल और मेज़ रखे हैं।  
लोटा और थाली रखे हैं।

5. If the subjects are not living things and in plural, then the verb agrees with the nearest subject.  
फल और मिठाइयाँ रखी हैं।  
मिठाइयाँ और फल रखे हैं।
6. In certain tenses when the verb is transitive and formed according to the object and if there is more than one object, then the verb will be formed according to the nearest object.  
मैंने घड़ी और कपड़ा खरीदा।  
मैंने कपड़ा और घड़ी खरीदी।  
भिखारी ने पूरी और आलू खाए।
7. If दोनों or सब is placed after the subjects which are of different genders, then the verb will be masculine.  
फल और मिठाइयाँ दोनों मिलते हैं।  
मर्द, बच्चे, औरतें सब चलते हैं।
8. Some grammarians do not agree with the rule no.2 above but recommend that if the subject are of different genders, the verb agrees with the last. It is to be decided by personal choice.  
राम का लड़का और तुम्हारी लड़कियाँ आती हैं।
9. If the two subjects are quality or feelings, the verb remains in the singular.  
मुझे क्रोध और दुख हुआ। I became angry and sad.  
उसको रंज और ताज्जुब हुआ। He (she) was grieved and surprised.
10. If the subjects are pronouns in different persons, the order of preference for verb will be first-second-third person plural.  
मैं, और तुम जा रहे हैं।  
मैं, तुम और वह जा रहे हैं।  
तुम और वह जा रहे हो।

11. If there are two nouns in different genders but with a single adjective, then the gender and number of that adjective will be according to the nearest noun.  
पुरानी सड़कें और रास्ते  
पुराने रास्ते और सड़कें
12. Pairs like माता-पिता, भाई-बहन, चाचा-चाची are treated as masculine units. So we have to say: मेरे माता-पिता, तुम्हारे भाई-बहन, मेरे चाचा-चाची.

The readers of this book need not feel confused over the complexity of these rules. They will be able to come to grip with these rules in course of time by extra reading in Hindi.

However, when a sentence looks clumsy or sounds unnatural by following the above rules, it is advisable to recast the sentence or break it into two so as to make it sound normal.

Instead of saying, सीता और राम आते हैं (as per rule 2), better say सीता आती है और राम भी आता है। or सीता और राम दोनों आते हैं। (rule 7).

Instead of saying, तुम और वह जाते हो (as per rule 10), better say तुम जाते हो और वह भी जाता है or तुम और वह दोनों जाते हैं। (rule 7).

## 49. SPECIAL FEATURES OF SOME CASES

### को

- It comes after an object, if the object is a human being.  
मैंने राम को देखा।  
It is not necessary if the object is a non-human being or an inanimate thing.  
मैंने एक गाय खरीदी।  
क्या तुमने वह पुस्तक पढ़ी?
- Both को, में are used with nouns denoting time.  
को denotes a point of time (at) while में denotes a period (during).  
वह रात को आया। He came at night.  
वह रात में आया। He came during the night.
- But if the noun is qualified (has an adjective), both को, में may be omitted.  
कल रात तुम क्या कर रहे थे?  
उस दिन वह क्यों नहीं आई?
- को is omitted when the verb indicates going to or coming from a place.  
सब अपने-अपने घर (को) चले गए।  
मैं कल आपके घर आया।
- को is to be added with the days of the week and the dates.  
सोमवार को, पाँच तारीख को
- को may be added to inanimate things for emphasis.  
मैंने उस खत को पढ़ा।

### से

- It is used when the verb is कह, बोल, पूछ, माँग, मिल, लड़, डर  
मैंने राम से यह बात नहीं कही।  
मैं कक्षा में किसीसे नहीं बोलता।  
अध्यापक ने छात्रों से सवाल पूछा।

चोर ने जज से क्षमा माँगी।

राम से भरत मिले।

While से मिलना means meet or see, को मिलना means become available

मैं राम से मिला। I met Ram.

वह राम को मिला। Ram got it.

Other longer verbs which take a से are: बात कर, प्रार्थना कर, मुलाकात कर (meet), दोस्ती कर, वादा कर (promise), नफरत कर, मुहब्बत कर (love), खुश हो (pleased) शादी कर, इनकार कर (refuse), प्यार कर.

- In expressions like आँखों से देखना, कानों से सुनना, भूखों मरना, there is no harm if से omitted.

### का/के/की

- Hindi has two kinds of verbs: (i) direct like खाना, पढ़ना, लिखना. (ii) verbs formed by adding कर to a noun like वादा करना, याद करना, यकीन करना (believe), etc.

In English, when we say, 'I expect a telegram,' we use 'expect' as a direct and single verb. There is no direct verb in Hindi for 'expect'. So we have to say: do expectation which can be translated as प्रतीक्षा कर, इंतज़ार कर.

'I expect a telegram' will become 'I do expectation of telegram'. If two nouns are connected by of, the of is translated as का-के-की depending upon the next word (Lesson 9) in Hindi. प्रतीक्षा is feminine while इंतज़ार is masculine.

- I expect a telegram = I do expectation of a telegram.  
मैं तार की प्रतीक्षा करता हूँ।  
मैं तार का इंतज़ार करता हूँ।
- We respect them = We do respect of them.  
हम उनका आदर करते हैं। (का because आदर is masculine)  
हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। (की because इज़्ज़त is feminine)



3. He helps me = He does help of me.  
वह मैं+की मदद/सहायता करता है। (मदद, सहायता feminine)  
वह मेरी सहायता करता है।
4. The teacher praises the student = The teacher does  
praise of the student.  
अध्यापक छात्र की प्रशंसा/तारीफ़ करते हैं। (की because  
प्रशंसा, तारीफ़ feminine)
- b. का/की is used to express the value of a thing.  
तीन रुपये की कलम - a pen costing three rupees.  
हज़ार रुपये का घोड़ा the horse of the value of thousand rupees.
- c. का/की is used to indicate the source of a thing or maker.  
पत्थर का मकान a stone house  
फूलों की माला a garland of flowers  
सोने की अँगूठी a gold ring  
चाँदी की घड़ी a silver watch  
तुलसीदास की रामायण the Ramayana authored by Tulasidas  
पत्थर की दीवारों से जेल नहीं बन जाता। "Stone walls do not a prison  
make" (Richard Lovelace)
- d. का etc. are used to indicate a place or residence  
वेनिस का सौदागर the merchant of Venice  
गाँव का आदमी villager  
जवाहरलाल जी इलाहाबाद के थे Jawaharlal Nehru belonged to  
Allahabad.
- e. का is used to indicate one's age  
दस बरस का लड़का ten year old boy
- f. का denotes strong negation.  
वह जाने का नहीं। He will not (at all) go.

- g. के is used to indicate relationship, parts of the body, property,  
irrespective of the number and gender of the next word in  
Hindi.  
दशरथ के तीन रानियाँ थीं। Dasharatha had three queens.  
राम के एक पुत्री है। Ram has a daughter.  
जानवरों के चार पैर होते हैं। Animals have four legs.  
उस अमीर आदमी के दो घर हैं। That rich man has (possesses) two  
houses.  
अहमद के सिर्फ़ एक हाथ है। Ahmed has only one hand.  
हमारे एक बहिन थी। We had a sister.  
मंत्री साहब के चार सचिव हैं। The minister has four secretaries.  
जिसके आँखें न हों, वह क्या देखे? What can one, who has no eyes,  
see?

### में/पर

- a. में is used adverbially. संक्षेप में - briefly, प्रकट में - openly, गुप्त रूप में  
- secretly.
- b. में denotes price. दस रुपये में कितने सेब मिलेंगे? How many apples  
will one get for ten rupees?
- c. Sometimes में is omitted.  
उस बच्चे का जन्म धोबी के घर (में) हुआ।  
That child was born in a washerman's house.  
उस समय (में) वहाँ कौन था?  
Who was there at that time?  
इन दिनों(में) टमाटर बहुत सस्ता है।  
Nowadays tomato is very cheap.
- d. Sometimes में से, पर से are used to mean from among or for  
emphasis.  
इन फलों में से आम सर्वोत्तम है।  
Among these fruits the mango is the best.

सोना खानों में से निकाला जाता है।

Gold is dug out of mines.

उसने जेब में से घड़ी निकाली।

He took out the watch from the pocket.

मेज़ पर से किताब ले जाओ।

Carry the book from the table.

Other examples are: दोनों में से, समुद्र में से, पेड़ पर से etc.

e. The following verbs take पर before them.

भरोसा रखना rely on, यकीन/विश्वास करना - believe, हमला करना - invade, attack, इलज़ाम लगाना - blame, गुस्सा होना - be angry, जुल्म करना commit atrocity.

f. Sometimes we may omit पर .

मैं आपके पाँव (पर) पड़ता हूँ।

I prostrate before you.

तुम्हारे माथे(पर) बड़ा अपमान लगेगा।

Great disgrace will fall on your head.

पार्सल अपने ठिकाने (पर) पहुँच गया।

The parcel reached its destination.

गरीब आदमी किसके दरवाज़े (पर) जाएगा?

Where will the poor man go to?

उसके पते (पर) यह चिट्ठी भेज दो।

Send this letter to his address.

## 50. PARTING ADVICE

### अलविदा

1. The absolutive form कर (Lesson 40) should be added to the word concerned. It is not to be written separately.  
मिलाकर, खा-पीकर, रो-रोकर
2. In the case of compounds, hyphen should be placed between the nouns concerned.  
राम-लक्ष्मण, माता-पिता, लेन-देन, चाल-चलन, पढ़ना-लिखना।
3. Hyphen should be placed before सा, जैसा  
तुम-सा, आप-जैसा कोई
4. Hyphen should be used in certain words to avoid ambiguity.  
भू-तत्व is different from भूतत्व।
5. In pairs like गए-गये, नई-नयी, use the vowel rather than य. दिखाए गए, के लिए, नई दिल्ली.  
It is to be noted that our currency notes have the word रुपये instead of रुपए.
6. It is no longer the practice to use right-slanting stroke below some Sanskrit words found in Hindi. विद्वान, महान are now in use. विद्वान्, महान् are becoming obsolete.
7. श्री, जी should be written as separate words.  
श्री श्रीराम जी, श्री कन्हैयालाल जी, महात्मा जी
8. प्रति, मात्र, यथा should not be written separately.  
प्रतिदिन, प्रतिशत, मानवमात्र, यथासमय, यथाशक्ति
9. Some words have two forms in currency. Both are acceptable.  
Some examples are:

कुरसी-कुर्सी

गरदन-गर्दन

गरमी-गर्मी

दुकान-दूकान

दोपहर-दुपहर

दोबारा-दुबारा

बरफ़-बर्फ़

बरतन-बर्तन

बरदाश्त-बर्दाश्त

बिलकुल-बिल्कुल

भरती-भर्ती

वापस-वापिस

सरदी-सर्दी

## परिशिष्ट Appendix - I

### वर्गीकृत शब्दावलियाँ CLASSIFIED VOCABULARY

#### फल Fruits

अंगूर	grape
अंजीर	fig
अखरोट	walnut, chestnut
अनन्नास	pineapple
अनार	pomegranate
अमरूद	guava
आलूचा	plum
आडू	peach
आम	mango
आलू बुखारा	plum
कटहल	jack fruit
किशमिश, किसमिस, दाख	currant
केला	banana
कैथ	elephant apple
खजूर	date
खरबूजा	musk melon
खूबानी	apricot
गुलाबजामुन	rose berry
चकोतरा	pompelmoose
चेरी	cherry
जामुन	rose apple
टमाटर	tomato
तरबूज	water melon
धतूरा	thorn apple
नारंगी	orange
नाशपाती	pear
नींबू	lemon
पपीता	papaya
बेर	jujube, plum
बेल	wood apple

मुनक्का	raisin
मौसमी	mozambique
शरीफा	custard apple
संतरा	orange
संतालू	peach
सेब	apple

#### फूल Flowers

कनेर	oleander
कमल	lotus
कमलिनी, कुमुद, कुमुदिनी, कोई	lily
कली	bud
केतकी, केवड़ा	pandanus
गुलदाऊदी	chrysanthemum
गुलनार	flower of pomegranate
गुलबहार	daisy
गुलमेहंदी	balsam
गुललाला	tulip
गुलाब	rose
गेंदा	marigold
चंपा, चंपक	yellow jasmine, magnolia
चमेली	jasmine
जुही	sweet jasmine
जैतून	olive
तुलसी	basil
नरगिस	narcissus
नागफनी	prickly pear
नागभिका	cobra flower
मेहंदी	myrtle
मोगरा	daisy
मोतिया	round jasmine

सूरजमुखी, सूर्यमुखी sun flower  
सेमर, सेमल silk cotton

**वृक्ष और उनके अवयव  
Trees and their Parts**

अंकुर germ  
अमरूद guava  
आम mango  
इमली tamarind  
कलम graft  
काठ wood  
कांटा thorn  
गुठली stone  
गोंद gum  
चीड़ pine  
छाल bark  
छिलका rind  
जटा coir  
जड़ root  
झाऊ conifer  
टहनी, डाल, शाखा branch  
ताड़ palm tree  
घड stem  
नारियल coconut  
नीम margosa  
पत्ता, पत्ती leaf  
पीपल holy banyan tree  
बबूल acacia  
बरगद, बट, वट banyan  
बांस bamboo  
बीज seed  
बेर plum, jujube  
भोजपत्र birch  
पुला pulp  
शहतूत mulberry  
सरो cypress  
सागवान, सागौन teak  
सेहड़ cactus

**सब्जी/तरकारी Vegetables**

अरबी an edible root

आंवला myrobalan  
आलू potato  
इंद्रायन colocynth  
ककड़ी long cucumber  
कद्दू pumpkin  
करेला bitter gourd  
कुंदरू ivy gourd  
कुकुरमुत्ता mushroom  
कुम्हड़ा pumpkin  
कोंहड़ा squash gourd  
खरबूजा musk melon  
खीरा cucumber  
गाजर carrot  
गोभी cabbage  
ग्वार, ग्वारफली cluster beans  
चर्चीडा, चिचिडा snake gourd  
चुकंदर beet root  
जंभीरी sour lemon  
तरबूज water melon  
धनिया coriander  
पालक spinach, potherb  
पुदीना mint  
पेठा pumpkin (white)  
प्याज onion  
फूलगोभी cauliflower  
बंदगोभी cabbage  
बड़ा मिर्च capsicum  
बैंगन brinjal  
भिंडी lady's finger  
मसूरी lentil  
मिरचा chillies  
मूली radish  
मेथी fenugreek  
रतानू, सूरन yam  
लहसुन garlic  
लौकी bottle gourd  
शकरकंद sweet potato  
शलगम turnip  
सहजन drumstick  
साग greens  
सेम sabre beans

**अनाज और दालें  
Grains and Pulses**

अरहर yellow gram  
उड़द black gram  
काबुली चना white gram  
कुलथी horse gram  
गेहूँ wheat  
गोलमटर field pea  
चना gram  
चावल rice  
चिउड़ा, चिवड़ा beaten rice  
जई oats  
जव, जौ barley  
ज्वार millet  
तिल sesame  
दाल pulse  
धान paddy  
बाजरा pearl millet  
शुट्टा, मकई, मक्का maize  
मटर pea  
मसूरा, मसूरी pulse of lentil  
मूँग green gram,  
kidney bean  
मूँगफली ground nut  
मोठी red gram  
रागी finger millet  
लोबिया cow pea  
साबूदाना sago

**खाद्य पदार्थ Eatables**

अंडा egg  
अचार pickle  
अदरक ginger  
इलायची, लाइची cardamom  
ईख, ऊख sugarcane  
कढ़ी curry  
काजू cashew nut  
काली मिर्च pepper  
क्रीमा minced meat  
केसर saffron

खीर rice milk  
गुड़ jaggery  
गोश्त meat  
घी clarified butter  
चटनी sauce  
चीनी, शक्कर sugar  
छाछ, मट्ठा butter milk, whey  
जायफल nutmeg  
जावित्री mace  
जीरा cumin seed  
दही curd  
दालचीनी cinnamon  
दूध milk  
धनिया coriander seed  
नमक salt  
पनीर cheese  
पान betel leaf  
पापड़ thin rice cake  
पाव रोटी loaf  
पिस्ता pistachio  
बादाम almond  
मक्खन butter  
मलाई cream  
माँड Gruel  
मांस meat  
मिर्च pepper  
मिर्चा chillies  
मिठाई sweets  
मिश्री sugar candy  
मुलेठी liquorice  
मुल्बा jam  
राई small mustard  
राब molasses  
रायता salad  
रैंडी castor seed  
रोटी bread  
लस्सी butter milk  
लावा parched rice  
लौंग clover  
शराब wine

शहद	honey
शोरबा	soup
सरसों	yellow mustard
सुपारी	betel nut
सूजी	semolina, coarse flour
सोंठ	dry ginger
सौंफ	aniseed
हलदी, हल्दी	turmeric
हींग	asafoetida

**पक्षी Birds**

अबाबील	swallow
उल्लू	owl
कठफोड़ा	wood pecker
कबूतर	pigeon
कोयल, पपीहा	cuckoo
कौआ	crow
गरुड	eagle
गिद्ध, गीघ	vulture
गोरैया	sparrow
चकवा	ruddy goose
चकोर	red-legged partridge
चमगादड़, चमगीदड़	bat
चील	kite
चूना	chicken
तीतर	partridge
तोता	parrot
नीलकंठ	magpie
बगुला	stork
बटेर	quail
बत्तख	duck, drake
बया	weaver bird
बाज	hawk, falcon
बुलबुल	nightingale
मुर्गा	cock
मुर्गी	hen
मैना, सारिका	canary
मोर	peacock
शतुरमुर्ग	ostrich

सारस	crane
हंस	goose, swan

**पशु, जानवर Animals**

ऊँट	camel
कछुआ	tortoise
कुत्ता	dog
खच्चर	mule
खरगोश	rabbit
खरहा	hare
गधा	donkey, ass
गाय	cow
गिलहरी	squirrel
गोदड़, सियार	jackal
गेंडा	rhino
घड़ियाल	alligator
घोड़ा	horse
चीता	panther, leopard
चूहा	mouse
छहूँदर	mole
जंगली सुअर	boar
जिराफ़	giraffe
टट्टू	pony
तेंदुआ	leopard
दरियायी घोड़ा	hippopotamus
नीलगाय	antelope
नेवला	mongoose
बंदर	monkey
बकरी	goat
बाघ, शेर	tiger
बारहसिंघा	stag
बिल्ली	cat
बैल	ox, bullock
भालू, रीछ	bear
भेड़	sheep
भेड़िया	wolf
भैंस	buffalo
मगर, मगरमच्छ	crocodile
मेमना	lamb
लंगूर	ape
लकड़ बग्घा	hyena

लोमड़ी	fox
शिकारी कुत्ता	hound
शेर बब्बर, सिंह	lion
साँड	bull
सूअर	pig
हाथी	elephant
हिरन	deer

**कीड़े Insects**

अजगर	boa, python
केकड़ा	crab
केंचुआ	earthworm
खटमल	bug
गिरगिट	chameleon
गोजर	centipede
घुन	grain moth
घोंघा	snail
चींटा	black ant
चींटी	ant
छिपकली	lizard
जुगनू	glow worm, fire fly
जूँ	louse
जोंक	leech
झींगा	prawn
झींगुर	cricket
टिड्डा	grasshopper
टिड्डो	locust
ततिया, भिड़	wasp
तितली	butterfly
तिलचट्टा	cockroach
दीमक	white ant
नाग	cobra
पतंगा, फतिगा	moth
पिस्सू	horse flea
बरे	wasp
बिच्छू	scorpion
मकड़ी	spider
मकड़ी	fly
मच्छर	mosquito

मछली	fish
मधुमक्खी	bee
मेंढक	frog
साँप	snake
सीप	oyster

**शरीर के अंग  
Parts of the Body**

अँगूठा	thumb
अंतड़ी, आँत	intestine
अनामिका	ring finger
आँख, नयन, नेत्र	eye
उँगली, अँगुली	finger
एड़ी	heel
ओंठ, होंठ, अधर	lip
कंधा	shoulder
कनपटी	temple
कमर, कटि	waist, loin
कलाई	wrist
काँख	arm pit
कान, कर्ण	ear
कानी उँगली	little finger
कुहनी, कोहनी	elbow
केश, बाल, रोम	hair
खोपड़ी	skull
खून, रक्त, लहू	blood
गरदन	neck
गला, कंठ	throat
गाल	cheek
गुदा	anus
गुर्दा	kidney
गोद	lap
घुटना	knee
चमड़ा, चर्म, खाल	skin
चूची	nipple, teat
चूचुक, स्तन	breast
चूतड़, पुट्टा	buttocks
चेहरा	face
चोटी	braid
छाती	chest

जबड़ा	jaw
जाँघ	thigh
जिगर	liver
जीभ	tongue
टखना	ankle
टाँग	leg
ठुड्डी	chin
तर्जनी	index finger
तलवा	sole
तालु	palate
तिल्ली	spleen
दाँत	tooth
दाढ़	jaw
दाढ़ी	beard
दिमाग	brain
दिल	heart
नथुना	nostrils
नस	vein
नाक, नासिका	nose
नाखून	nail
नाड़ी	pulse
नाभि	navel
पलक	eyelid
पसली	rib
पाँव	foot
पिंडली	calf of the leg
पीठ	back
पुतली	pupil
पेट	stomach
पेशी	muscle
पैर	foot, leg
फेफड़ा	lung
बगल	arm pit
बरीनी	eyelash
बाँह	arm
बाल	hair
भ्रुकुटी, भौंह	eye brow
मसूड़ा	gum
माथा	forehead

मुँह, मुख	mouth, face
मुट्ठी	fist
योनि	vagina
रीढ़	backbone
शिशन	penis
सिर	head
हड्डी	bone
हथेली	palm
हाथ	hand
हृदय	heart

### शरीर के विकार Diseases

अंडवृद्धि	hydrocele
अंधापन	blindness
अजीर्ण, अपच, बदहजमी	indigestion
अतिसार	diarrhoea
कंठमाला	goitre
कब्ज	constipation
कामला, पीलिया	jaundice
काला ज्वर	typhoid
कुबड़ा	hunchbacked
कोढ़	leprosy
खाँसी	cough
खाज	scabies
खुजली	itch
गंजा	baldness
गठिया	gout, rheumatism
गर्भपात	abortion
गलका	whitlow
गूंगा	dumb
चक्कर	giddiness
चेचक	small pox
जलोदर	dropsy
जुकाम	cold
जूड़ी	malaria, ague
ताऊन, महामारी	plague
दमा	asthma
दस्त	diarrhoea
दाढ़	ringworm

दिल का दौरा	heart attack
नासूर	sinus
पथरी	stone
पक्षाघात, लकवा	paralysis
पीलपाँव	elephant
पेचिश	dysentery
फफोला	blister
फुन्सी, मुँहासा, मुहासा	pimple, acne
फोड़ा	abscess
बधिरता	deafness
बवासीर	piles
बुखार	fever
भगंदर	fistula
मधुमेह	diabetes
मिरगी	epilepsy
मोतियाबिंद	cataract
मोतीझरा	chickenpox
यक्ष्मा, क्षय	tuberculosis
लँगड़ा	lame
लँगड़ा बुखार	dengue
शीतज्वर	influenza
शीतला	small pox
सफेद कोढ़	leucoderma
सिरदर्द	headache
सूजन	swelling
हाथीपाँव	elephantiasis
हैजा	cholera

### वस्त्र आदि Clothes

अँगिया	bodice
अँगोछा	napkin
कंबल	blanket
कमीज़, कुरता	shirt
गद्दा, गद्दी	cushion
गाव तकिया	bolster
गिलाफ	cover
गुलूबंद	muffler
घूँघट	veil
चद्दर, चादर	sheet
चोगा	cloak
चोली, जंपर	blouse

जाघिया	underwear, half pant
जुराब	socks
जूता	shoe
टोप	hat
टोपी	cap
तकिया	pillow
तौलिया	towel
दस्ताने	gloves
धोती	dhoti
निकर	half pant
पगड़ी, साफ़ा	turban
पतलून	trousers
परदा	curtain
पलंगपोश	bed cover
पेटी	belt
बुरका	mantle veil
मसनद	bolster
मेज़पोश	table cloth
मोज़ा	socks
मोज़े (बड़े)	stockings
रज़ाई	quilt
ह्माल	handkerchief
लबादा	cloak, gown
लहंगा	petticoat
वरदी	uniform
शमीज़	chemise
सलवार	salwar, trousers
साड़ी	saree

### रत्न और आभूषण Gems and Jewels

अँगूठी	ring
कंगन	bracelet
कड़ा	bangle (iron)
करनफूल, बाली	ear ring
काँटा	hair pin, brooch
कील	nose pin
गोमेद	zircon, sardonyx
चूड़ी	bangle
जवाहरात	gems

तमगा	medal
तोड़ा	wristlet
नथ, नथुनी	nose ring
नीलम	sapphire
नूपुर, पायजेब, पैंजनी	anklet
पन्ना	emerald
पुखराज	topaz
फ़ीरोजा	turquoise
बाजू	armlet
बिल्लौर	pebble
मानिक	ruby, carbuncle
मुकुट	tiara, crown, diadem
मूंगा	coral
मोती	pearl
लहसुनिया	lapiz lazuli, cat's eye
लोलक, झूमक, ताटक	ear pendant
सीप	oyster
सुलेमानी पत्थर	agate
हँसुली	neckband
हार	necklace
हीरा	diamond

**खनिज पदार्थ Minerals**

अभ्रक	mica
इस्पात	steel
कांच	glass
काँसा	bell metal
कोयला	coal
खड़िया	chalk
गंधक	sulphur
गेरू	red ochre
चांदी, रूपा, रजत	silver
चुंबक	magnet
जस्ता	zinc
ताँबा	copper
तारकोल	coal tar
पारा	mercury
पीतल	brass
रामरज	yellow ochre

रौंगा	tin
लोहा	iron
संगमरमर	marble
सीसा	lead
सोना	gold

**संबंधी - Relatives**

काका, चाचा	father's younger brother (uncle)
काकी, चाची	father's younger brother's wife, aunt
जीजा	elder sister's husband
जीजी, दीदी	elder sister
जेठ	husband's elder brother
जेठानी	husband's elder brother's wife
ताई	father's elder brother's wife, aunt
ताऊ, ताया	father's elder brother
दादा	father's father
दादी	father's mother
दामाद	son-in-law
देवर	husband's younger brother
देवरानी	husband's younger brother's wife
नंदोई, ननदोई	husband's sister's husband
ननद	husband's sister
नवासा	daughter's son
नवासी	daughter's daughter
नाती	grandson
नातिन	grand daughter
नाना	mother's father
नानी	mother's mother
पति	husband

पत्नी	wife
पिता, बाप	father
पुत्र, बेटा	son
पुत्री, बेटी	daughter
पोता	son's son
पोती	son's daughter
फुफेरा	father's sister's son
फूफा	father's sister's husband
बहन, बहिन	sister
बहनोई	sister's husband
बहू, पतोहू, पुत्रवधू	daughter-in-law
बुआ, फूफी	father's sister, aunt
भतीजा	brother's son
भतीजी	brother's daughter
भांजा	sister's son
भांजी	sister's daughter
भाई	brother
भाभी, भावज	brother's wife
ममेरा	mother's brother's son
ममेरी	mother's brother's daughter
माँ, माता	mother
मामा	mother's brother, uncle
मामी	mother's brother's wife
मौसा	mother's sister's husband
मौसी	mother's sister, aunt
मौसेरा	mother's sister's son
विमाता, सौतेली माँ	step mother
ससुर	father-in-law
साहू	wife's sister's husband
साला	wife's brother

साली	wife's sister
सास	mother-in-law
सौत	co-wife

**व्यवसाय - Occupations**

अध्यापक	teacher
अभियंता	engineer
अभिनेता, अदाकार	actor
अधिवक्ता	advocate
आढ़तिया	commission agent
कलाकार	artist
क्रसाई	butcher
किसान	farmer
कुजड़ा	green grocer
कुम्हार	potter
खजांची	treasurer
गडरिया	shepherd
गवैया, गायक	musician
ग्वाला	milkman
चपरासी	peon
चौकीदार, पहरेदार	watchman, security
जादूगर	magician
जासूस	detective
जिल्दसाज	binder
जुलाहा	weaver
जौहरी	jeweller
ठेरा	tinker
ठेकेदार	contractor
डाकिया	postman
तमोली	betel leaf seller
तेली	oil vendor
दर्जी	tailor
दलाल	broker
दाई	midwife
दारोगा	sub-inspector
धाय	nurse, guardian (female)
धुनियां	carder
नलसाज	plumber

नाई	barber
नाविक	sailor
पत्रकार	journalist
पनवाड़ी	betel leaf seller
पनसारी	grocer
पहरेदार	watchman
पुरोहित	priest
प्रकाशक	publisher
प्रबंधक	manager
प्रवक्ता, प्राध्यापक	lecturer
फेरीवाला	pedlar
बढ़ई	carpenter
बुनकर	weaver
भंगी	sweeper
मछुआ	fisherman
मजदूर	labourer
मल्लाह, केवट	boatman
महाजन	banker
माली	gardener
मुद्रक	printer
मुंशी	clerk
मुनीम	accountant (traditional)
मूर्तिकार, संगतराश	sculptor
मेहतर	sweeper
मोची	cobbler
रंगरेज	dyer
राज	mason
रसोइया	cook
रोकड़िया	cashier
लिपिक	clerk
लेखक	writer, author
लेखाकार	accountant (modern)
लेखा परीक्षक	auditor
लोहार	blacksmith
वकील	lawyer
वैद्य	physician(native)
व्याख्याता	lecturer
शिक्षक, अध्यापक	teacher
संपादक	editor

संवाददाता	reporter
सचिव	secretary
सिपाही	soldier
सोनार	goldsmith
सौदागर	merchant
हकीम	physician
हज्जाम	barber
हलवाई	confectioner

**इमारत और उसके हिस्से**  
**Building and its Parts**

अटारी	attic, garret
आला	niche
अंगीठी	fire place
आँगन	courtyard
ओरी	eaves
ईंट	brick
खंभा	pillar
खपरैल	tile
खलिहान	granary
खिड़की	window
खूँटी	peg
चबूतरा	platform
चूना	lime
चौखट	door frame
छड़	bar
छत	roof, terrace
छप्पर	thatch
जंगला	window railing
जाली	lattice
जंजीर	chain
झरोखा	peep hole
टट्टी	latrine
दरवाजा	door
देहरी, देहली	door sill
देहलीज, दहलीज	corridor, threshold
नल	tap
नींव	foundation
परनाला	gutter
पलस्तर	plaster

पेशाबखाना	urinal
फर्श	floor
बरसाती	portico
बरामदा	verandah
बैठक	drawing room
मचान	dais
मुंडेर	parapet
मेहराब	arch
मोरी	gutter
रसोईघर	kitchen
रोशनदान	ventilator
शहतीर	rafter
सीढ़ी	stair
स्नानगृह, गुसलखाना	bathroom

**घरेलू सामान**  
**Household goods**

अलमारी	shelf
आईना	mirror
इस्तरी	iron box
ओखली	mortar
कंधी	comb
कटोरा	bowl
कटोरी	small bowl, cup
कड़ाही	frying pan
करछुल	ladle
कांटा	fork
कुरसी	chair
कुल्हाड़ी	axe
केतली	kettle
खरल	tiny mortar for medicine
खाट	cot
घड़ा	pitcher
चटाई	mat
चमचा	spoon
चाबी, चाभी, ताली, कुंजी	key
चायदानी	tea pot
चारपाई	cot
चिमटा	tongs

चूल्हा	fireplace, stove
छड़ी	stick
छलनी, चलनी	sieve
झाड़ू	broom
झूला	swing
टोकरी	basket
डिबिया	small box
डिब्बा	box
डोल	bucket
ढक्कन	lid
ढिबरी	earthen lamp
तंदूर	oven
तकिया	pillow
तख्ता	plank for sitting
तराजू	scale, balance
तवा	pan
तश्तरी, थाली	plate
तार	wire
ताला	lock
तिपाइ	three-legged stool
दतुवन, दतौन	tooth brush
दियासलाई	matches
दीया	earthen lamp
दूधदानी	milk pot
धूपदानी	censer
पतीला	pan
परदा	screen, curtain
पलंग	bed
पायंदाज, पायदान	door mat
पालना	cradle
पिरच	saucer
प्याला	cup
फूलदान	flower vase
बटुवा	purse
बरतन	utensil, pot
बाट्टी	bucket
बुरस	brush
बेलन	pastry roller
बोतल	bottle
बोरा	sack, canvas bag
मथनी, मथानी	churn stick



मूसल	pestle
मेज़	table
मोड़ा	reed stool
मोमबत्ती	candle
रकाबी	dish
रज़ाई	quilt
रस्सा	rope
रस्सी	string
लालटेन, कंडील, कंदील	lantern
लोटा	tumbler, bowl
शीशा	glass pane
शीशी	phial
संदूक	box
सरौता	nut cracker
साबुन	soap
सिल	stone to grind condiments
सुराही	jug, pitcher
सूई	needle
सूप	winnow
हँसिया	scythe
हाँडी	earthen kettle

### औज़ार - Tools

आरी	saw
उस्तरा	razor
कील	nail
कुदाल, कुदाली	spade
कुल्हाड़ी	axe
कैंची	scissors
चाकू	pen knife
छुरा	knife
छुरी	small knife
छेनी	chisel
ढिबरी	nut
घोंकनी	bellows
नशतर	lancet
पिचकारी	syringe
पेंच	bolt screw
पेंचकस	screw driver

फरसा	pick axe
फावड़ा	shovel
फुंकनी	blow pipe
बरसा	auger
मुँगरी	mallet
हँसिया	sickle
हतौड़ी	hammer
हल	plough

### दिशाएं - Directions

पूर्व, प्राची, पूरब	east
पश्चिम	west
दक्षिण	south
उत्तर	north
दायाँ, दाहिना	right
बायाँ, वाम	left
आगे	before
सामने	in front of,
	opposite
पीछे	behind
पास, निकट, समीप,	
नज़दीक	near
दूर	distant
आदि, आरंभ, शुरू	beginning
मध्य, बीच	middle
अंत	end

### रंग - Colours

काला	black
गुलाबी	rose colour
गेरुआ	ochre
नारंगी	orange colour
नीला	blue
पीला	yellow
बैंगनी	violet
भूरा	brown
लाल	red
सफ़ेद	white
सुनहला	golden
हरा	green

### दिनों के नाम Days of the Week

सोमवार	Monday
मंगलवार	Tuesday
बुधवार	Wednesday
बृहस्पतिवार, गुरुवार	Thursday
शुक्रवार	Friday
शनिवार	Saturday
इतवार, रविवार	Sunday

(In Hindi it is customary to begin with Monday)

### (i) महीनों के नाम - Names of Months

जनवरी	January
फरवरी	February
मार्च	March
अप्रैल	April
मई	May
जून	June
जुलाई	July
अगस्त	August
सितंबर	September
अक्टूबर	October
नवंबर	November
दिसंबर	December

### (ii) महीनों के नाम (भारतीय) Names of Months (Indian)

चैत्र, चैत	(Starting around middle of April)
वैशाख, वैसाख	
ज्येष्ठ, जेठ	
आषाढ़, असाढ	
श्रावण, सावन	
भाद्रपद, भादों	
आश्विन, क्वार	
कार्तिक, कार्तिक	
मार्गशीर्ष, अगहन	
पौष, पूस	

माघ, मह	
फालगुन, फागुन	

### ऋतु, मौसम - Seasons

वसंत, बहार	spring
ग्रीष्म, गरमी	summer
वर्षा, पावस, बरसात	rains
शरत्, शरद्,	
शीत, जाड़ा	winter
हेमंत, पतझड़	autumn

### समय, काल - Time

अपराह्न	afternoon
अमावास्या	new moon
आज	today
आधी रात	midnight
कल	tomorrow/ yesterday (according to verb)
कृष्ण पक्ष	dark half of the lunar month
क्षण, पल	moment
घंटा	hour
छमाही	half yearly
तिमाही	quarterly
दिन, दिवस	day time
दुपहर, दोपहर	noon
पक्ष, पखवारा	fortnight (i.e. 14 nights)
परसों	day after tomorrow/ day after yesterday (according to verb)
पूर्णिमा	full moon
पूर्वाह्न	forenoon
प्रभात, भोर, तड़का	dawn
सुबह, सबेरा,	
सवेरा, प्रातः	morning
महीना, मास, माह	month

रात, रात्रि	night
शताब्दी, शती	century
शाम, संध्या, साँझ, सायंकाल	evening
शुक्ल पक्ष	bright half of the lunar month
सदी	century
सप्ताह, हफ्ता	week
सहस्राब्दी	millennium

**अंक - Numerals**

1	...	एक
2	...	दो
3	...	तीन
4	...	चार
5	...	पाँच
6	...	छः
7	...	सात
8	...	आठ
9	...	नौ
10	...	दस
11	...	ग्यारह
12	...	बारह
13	...	तेरह
14	...	चौदह
15	...	पन्द्रह
16	...	सोलह
17	...	सत्रह
18	...	अठारह
19	...	उन्नीस
20	...	बीस
21	...	इक्कीस
22	...	बाईस
23	...	तेईस
24	...	चौबीस
25	...	पच्चीस
26	...	छब्बीस
27	...	सत्ताईस
28	...	अट्ठाईस

29	...	उनतीस
30	...	तीस
31	...	इकतीस
32	...	बत्तीस
33	...	तैंतीस
34	...	चौँतीस
35	...	पैंतीस
36	...	छत्तीस
37	...	सैंतीस
38	...	अड़तीस
39	...	उनतालीस
40	...	चालीस
41	...	इकतालीस
42	...	बयालीस
43	...	तैंतालीस
44	...	चौवालीस
45	...	पैंतालीस
46	...	छियालीस
47	...	सैंतालीस
48	...	अड़तालीस
49	...	उनचास
50	...	पचास
51	...	इक्यावन
52	...	बावन
53	...	तिरपन
54	...	चौवन
55	...	पचपन
56	...	छप्पन
57	...	सत्तावन
58	...	अट्ठावन
59	...	उनसठ
60	...	साठ
61	...	इकसठ
62	...	बासठ
63	...	तिरसठ
64	...	चौंसठ
65	...	पैंसठ
66	...	छियासठ

67	...	सइसठ
68	...	अइसठ
69	...	उनहत्तर
70	...	सत्तर
71	...	इकहत्तर
72	...	बहत्तर
73	...	तिहत्तर
74	...	चौहत्तर
75	...	पचहत्तर
76	...	छिहत्तर
77	...	सतहत्तर
78	...	अठहत्तर
79	...	उनासी
80	...	अस्सी
81	...	इक्यासी
82	...	बयासी
83	...	तिरासी
84	...	चौरासी
85	...	पचासी
86	...	छियासी
87	...	सत्तासी
88	...	अट्ठासी
89	...	नवासी
90	...	नब्बे
91	...	इक्यानबे
92	...	बानबे
93	...	तिरानबे
94	...	चौरानबे
95	...	पंचानबे
96	...	छियानबे
97	...	सत्तानबे
98	...	अट्ठानबे
99	...	निन्यानबे
100	...	सौ
200	...	दो सौ
300	...	तीन सौ
400	...	चार सौ
500	...	पाँच सौ
600	...	छः सौ

700	...	सात सौ
800	...	आठ सौ
900	...	नौ सौ
1000	...	एक हजार

**SPECIAL NUMBERS**

125	...	सवा सौ
150	...	डेढ़ सौ
250	...	ढाई सौ
1500	...	डेढ़ हजार
2500	...	ढाई हजार

**FRACTIONS**

¼	...	चौथाई, पाव
1¼	...	सवा
2¼	...	सवा दो
3¼	...	सवा तीन
¾	...	पौन
1¾	...	पौने दो
2¾	...	पौने तीन
⅓	...	एक तिहाई
⅔	...	दो तिहाई
½	...	आधा
1½	...	डेढ़
2½	...	ढाई
3½	...	साढे तीन
0.1	...	दशमलव एक
0.2	...	दशमलव दो
0.23	...	दशमलव दो तीन
per cent (%)	...	फी सदी, प्रतिशत

**DEVANAGARI FIGURES**

१	२	३	४	५
६	७	८	९	१०

परिशिष्ट Appendix - II

कहावने PROVERBS

1. अंत भला सो सब भला।  
All's well that ends well.
2. अंधा क्या चाहे दो आँखें।  
A blind person will need eyes most.
3. अंधों में काना राजा।  
A one-eyed man is king among blind persons. A figure among ciphers.
4. अधजल गगरी छलकत जाए।  
It is an empty vessel that makes sound.
5. अपना हाथ जगन्नाथ।  
Self-help is the best help.
6. अब पछतात होत क्या जब चिडियाँ चुग गयीं छेत।  
What use calling a doctor after death?
7. अभी दिल्ली दूर है।  
There are miles to go before I sleep.
8. आँख से दूर दिल से दूर।  
Out of sight out of mind.
9. आग लगने पर कुआँ खोदो।  
Prevention is better than cure.
10. आगे कुआँ पीछे खाई।  
Between Scylla and Charybdis.
11. आप भला तो जग भला।  
Good mind good find.
12. आम के आम गुठलियों के दाम।  
Money for money and interest in addition.
13. आवश्यकता आविष्कार की जननी है।  
Necessity is the mother of invention.
14. इलाज से परहेज अच्छा।  
Prevention is better than cure.
15. इस हाथ से दे उस हाथ से ले।  
The hand that gives, gathers.
16. उतने पाँव पसारिये जितनी चादर होय।  
Cut your coat according to the cloth.
17. उधार दीजै दुश्मन कीजै।  
Lending breeds enemies.
18. उलटा चोर कोतवाल को डंटे।  
The pot calls the kettle black.
19. उलटे बाँस बरेली को।  
To carry coals to Newcastle. To sell ice to the Eskimos.
20. ऊँची दूकान फीका पकवान।  
Much cry, little wool. Great boast little roast.
21. ऊँट के मुँह में जीरा।  
A drop in the ocean.
22. ऊधो का लेना न माधो का देना।  
Neither a lender nor a borrower be.
23. एक अनार सौ बीमार।  
One post one hundred candidates.
24. एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा।  
A pimple upon ulcer.
25. एक पंथ दो काज।  
To kill two birds with a single stone.
26. एक म्यान में दो खड्ग देखा सुना न कान।  
Two dogs and a bone never agree.
27. एक हाथ से ताली नहीं बजती।  
It takes two to make a quarrel.
28. ओस चाटे प्यास नहीं बुझती।  
A fog cannot be dispelled by a fan.
29. कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर।  
Every man has his hour.
30. करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान।  
Practice makes one perfect.
31. कहना आसान करना मुश्किल।  
Easier said than done.
32. काला अक्षर भैंस बराबर।  
To the illiterate letter of alphabet means nothing.

33. खाए सो पछताए न खाए सो पछताए।  
Everyone is unhappy in his own way.
34. खान-पान में आगे, कामकाज से भागे।  
To quake at work but sweat at food.
35. खाली दिमाग शैतान का घर।  
An empty mind is the devil's workshop.
36. खून सिर पर चढ़कर बोलता है।  
Murder will speak out.
37. खोदा पहाड़ निकली चुहिया।  
Much ado about nothing.
38. गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास।  
Do in Rome as the Romans do.
39. गरीबी में आटा गोला।  
Misfortune seldom comes alone.
40. गिरजे के नज़दीक खुदा से दूर।  
Nearer the temple, farther from god.
41. घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध।  
A prophet is not honoured in his own place.
42. घर का भेदी लंका ढाप।  
Traitors are the worst enemies.
43. घायल की गति घायल जाने।  
The wearer knows where the shoe pinches.
44. चलती का नाम गाड़ी।  
Nothing succeeds like success.
45. चार दिन की चाँदनी फिर अँधेरी रात।  
A nine day's wonder. Earthly glory is transient (Sic transit gloria mundi).
46. चिराग तले अँधेरा।  
Shadow under the lamp.
47. जब तक साँस तब तक आस।  
While there is life there is hope.
48. जल में रहकर मगर से बैर।  
It is hard to live in water and antagonize the crocodile.
49. जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवार?  
What use the sword where a needle is needed.
50. जहाँ चाह वहाँ राह।  
Where there is a will, there is a way.
51. जादू वह जो सिर पर चढ़कर बोले।  
The proof of the pudding is in the eating.
52. जान बची लाखों पाये। जान है तो जहान है।  
Have life have everything.
53. जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ।  
Much effort much profit.
54. जियो और जीने दो।  
Live and let live.
55. जिस थाली में खायें उसीमें छेद करें।  
To bite the hand that feeds.
56. जिसका खाना उसका गाना।  
Praise the one who pays.
57. जिसकी लाठी उसकी भैंस।  
Might is right.
58. जैसा आया वैसा गया।  
Evil got, evil spent.
59. जैसा देश वैसा भेष।  
Do in Rome as the Romans do.
60. जैसा बाप, वैसा बेटा।  
Like father, like son.
61. जैसा बोओगे वैसा काटोगे।  
As you sow, so you will reap.
62. जैसा राजा वैसी प्रजा।  
As the king so are the subjects.
63. जैसी करनी वैसी भरनी।  
As you sow, so you will reap.
64. जैसे को तैसा।  
Tit for tat. An eye for an eye and a tooth for a tooth.
65. जो गरजते हैं वे बरसते नहीं।  
Barking dogs seldom bite.
66. जो तोको कांटा बुवै ताहि बोज तू फूल।  
Return good for evil.
67. जो बीत गयी सो बात गयी। जो हुआ सो हुआ।  
Let bygones be bygones.
68. जो होना है, होगा ही।  
Whatever will be, will be. Que sera, sera.

69. डूबते को तिनके का सहारा।  
A drowning man clutches a straw.
70. दान की बछिया का दाँत नहीं देखा जाता।  
Never look a gift horse in the mouth.
71. दाल में कुछ काला है।  
There is something rotten.
72. दीवार के भी कान होते हैं।  
Even walls have ears.
73. दुआ सलाम सबसे, दोस्ती कुछेक से।  
Have many acquaintances but friends very few.
74. दुविधा में दोनों गये माया मिली न राम।  
Between two stools one falls on the ground.
75. दूध का जला छाल फूँककर पीता है।  
A burnt child dreads the fire.
76. दूध का दूध और पानी का पानी।  
Oil and truth will come to the surface.
77. दूर के ढोल सुहावने।  
Distant drums sound well.
78. देखिए ऊँट किस करवट बैठता है।  
Let us see which way the wind blows.
79. देर से आये दुहस्त आये।  
Better late than never.
80. धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का।  
A rolling stone gathers no mass.
81. न बांसुरी बजेगी न राधा नाचेगी।  
No flute, no dance. No priest, no prayer.
82. न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपैया।  
Money is everything.
83. न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी।  
No source, no result.
84. नयी बहू नौ दिन की।  
Glamour does not last long.
85. नाच न जाने आँगन टेढ़ा।  
A bad workman quarrels with his tools.
86. नानक, नन्हा ही रहो, जैसे नन्ही दूब।  
Humility always works.

87. नाम बड़े, दर्शन छोटे।  
Much cry little wool.
88. नीम न मीठी होय चाहो सींचो गुड़ घी से।  
Crows are never the whiter for washing.
89. नीम हकीम खतरे जान।  
A little learning is a dangerous thing.
90. नेकी कर दरिया में डाल।  
Do good and forget it.
91. नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।  
Sinning all six days and going to church on Sundays.
92. पर उपदेश कुशल बहुतेरे।  
There are plenty to preach but they don't practise.
93. पराधीन सपनेहुँ सुख नहीं।  
A slave cannot even dream of happiness.
94. पूत कपूत पालने में ही पहचाने जाते हैं।  
The child is the father of the man.
95. पैसा अच्छा सेवक पर बुरा स्वामी है।  
Money is a good servant but a bad master.
96. प्रेम और तर्क का कोई संबंध नहीं।  
Love and logic have no relation.
97. बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद।  
A blindman is no judge of colours.
98. बकरी की माँ कब तक छैर मनावेगी।  
Butcher's knife cannot wait indefinitely.
99. बगल में छुरी मुख में राम-राम।  
A wolf in lamb's skin.
100. बद अच्छा बदनाम बुरा।  
To be a badman is better than to have a bad name.
101. बहती गंगा में हाथ धोना।  
Make hay while the sun shines.
102. बिना आग धुआँ नहीं उठता।  
There is no smoke without fire.
103. बिना सेवा मेवा नहीं।  
No pains no gains.

104. बिना मरे स्वर्ग नहीं।  
Unless you yourself go, much cannot be accomplished.
105. बीती ताहि बिसार दे आगे की सुधि लेय।  
Let the past bury its dead and think of the future.
106. बीमार की रात पहाड़ बराबर।  
Sorrow makes the hour longer.
107. बूँद-बूँद से घड़ा भरता है।  
Little drops make the ocean.
108. बेकार से बेगार भली।  
Better to wear out than to rust out.
109. बोये पेड़ बबूल के आम कहाँ से होय?  
Sow thistles and expect pickles.
110. भूखे भजन न होय गोपाला।  
No prayer in empty stomach.
111. ब्रैस के आगे बीन बजाये।  
Casting pearls before swine.
112. मन चंगा तो कठौती में गंगा।  
To a pure mind, tub water becomes the Ganges.
113. मरज (मर्ज) बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की।  
The remedy is worse than disease.
114. मरता क्या नहीं करता।  
A desperate man clings to anything.
115. मरे हुए को न मारो।  
Don't hit a man when he is down.
116. मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी?  
When two people agree, no scope for intermediary.
117. यथा राजा तथा प्रजा।  
As the king so are his subjects.
118. रंग लाती है हिना पत्थर पै पिस जाने के बाद।  
Sweet are the uses of adversity.
119. रसरी आवत जात से सिल पर परत निसान।  
Constant use wears out anything.
120. रस्सी जल गयो पर बल न गया।  
The lion has lost its teeth but not its roar.
121. रोज़ कुआँ खोदना रोज़ पानी पीना।  
Living from hand to mouth.
122. लकड़ी के डर बंदर नाचे।  
Threat works.

123. लक्ष्मी चंचला है।  
Riches have wings.
124. लातों के देवता बातों से नहीं मानते।  
Rod is the logic of fools.
125. शराब भीतर तो बुद्धि बाहर।  
When wine is in, wit is out.
126. सबै सहायक सबल के।  
All side with the strongest.
127. समझदार को इशारा काफी।  
A word is enough to the wise.
128. सिर मुंडाते ही ओले पड़े।  
Misfortune at the very outset.
129. सारा जाता देखिये आधा लीजे बाँट।  
Better give the wool than surrender the whole sheep.
130. सीधी उँगली से घी नहीं निकलता।  
Softness does not pay.
131. सूरज पूरब में ही उगेगा।  
Things follow their own inclination.
132. हरफन मौला, हरफन अधूरा।  
Jack of all trades, master of none.
133. हराम की कमाई, हराम में गंवाई।  
Evil got, evil spent.
134. हाथ कंगन को आरसी क्या?  
A fair face needs no makeup.
135. हीरा होरे को काटता है।  
Diamond cuts diamond.
136. होनहार बिरवान के होत चीकने पात।  
The child is the father of the man.

**पदनाम : DESIGNATIONS**

- अंगरक्षक-bodyguard  
अंगुलीछाप विशेषज्ञ-finger-print expert  
अंचल अधिकारी-zonal officer  
अग्निशमन अधिकारी-fire-fighting officer  
अधिवक्ता-advocate  
अधीक्षक-superintendent  
अध्यक्ष-chairman, head  
अनुभाग अधिकारी-section officer  
अनुसंधान अधिकारी-research officer  
अभिकर्ता-agent  
अरण्यपाल-conservator of forests

अर्थशास्त्री - economist  
 अल्प बचत अधिकारी - small savings officer  
 आचार्य - professor  
 आयकर अधिकारी - income tax officer  
 आयुक्त - commissioner  
 आयोजक - organizer  
 आरक्षण लिपिक - reservation clerk  
 आशुलिपिक - stenographer  
 आहारविद - dietician  
 उच्च श्रेणी लिपिक - upper division clerk  
 उच्चायुक्त - high commissioner  
 उद्यानिकीविद - horticulturist  
 उपकुलपति - vice-chancellor  
 उपनिदेशक - deputy director  
 उपमंडल अधिकारी - sub divisional officer  
 उपराज्यपाल - lieutenant governor  
 उपराष्ट्रपति - vice-president  
 उपाध्यक्ष - vice-chairman  
 कमान अधिकारी - officer commanding  
 कर्मशाला प्रबंधक - works manager  
 कारखाना निरीक्षक - factory inspector  
 कारीगर - artisan, tradesman  
 कीट विज्ञानी - entomologist  
 कुक्कुट विकास अधिकारी - poultry development officer  
 कुलसचिव - university registrar  
 कृषि अधिकारी - agricultural officer  
 केन्द्र निदेशक - station director  
 कोषाध्यक्ष - treasurer  
 क्षेत्रीय निदेशक - regional director  
 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी - regional transport officer  
 क्षेत्रीय प्रबंधक - regional manager  
 खजाना अधिकारी - treasury officer  
 खनन अधिकारी - mining officer  
 खाद्य निरीक्षक - food inspector  
 गुप्तचर - detective  
 चिकित्सा अधिकारी - medical officer  
 जनगणना अधिकारी - census officer

जनसंपर्क अधिकारी - public relations officer  
 जांच अधिकारी - enquiry officer  
 टंकक - typist  
 डाकघर अधीक्षक - superintendent of post offices  
 डाकपाल - postmaster  
 डाकिया - postman  
 तकनीकी सलाहकार - technical officer  
 तहसीलदार - tahsildar  
 तार बाबू - telegraph clerk  
 तोपची - gunner  
 थानेदार - station house officer  
 दंतचिकित्सक - dentist  
 दरबान - gatekeeper  
 नायब तहसीलदार - deputy tahsildar  
 नाविक - sailor  
 निजी सचिव - private secretary  
 निदेशक, निर्देशक - director  
 नियंत्रक - controller  
 नियोजन अधिकारी - employment officer  
 निरीक्षक - inspector  
 निर्वाचन अधिकारी - election officer  
 न्यायमूर्ति, न्यायाधीश - judge  
 पंजीकार - registrar  
 पंजीयन लिपिक - registration clerk  
 पत्तन अधिकारी - port officer  
 पत्रकार - journalist  
 पदेन सचिव - ex-officio secretary  
 परिवहन अधिकारी - transport officer  
 परीक्षक - examiner  
 पर्यटन अधिकारी - tourist officer  
 पर्यवेक्षक - supervisor  
 पशुचिकित्सक - veterinary doctor  
 पारपत्र अधिकारी - passport officer  
 पार्षद - councillor  
 पुरातत्व अधिकारी - archaeological officer  
 पुरातत्ववेत्ता - archaeologist  
 पुरालेखविद - epigraphist

पुलिस अधीक्षक - superintendent of police  
 पुलिस आयुक्त - police commissioner  
 प्रकाशन अधिकारी - publication officer  
 प्रचार अधिकारी - publicity officer  
 प्रधान अध्यापक - head master  
 प्रधानमंत्री - prime minister  
 प्रधानाचार्य - principal  
 प्रबंधक - manager  
 प्रबंध-संपादक - managing editor  
 प्रमुख सचिव - principal secretary  
 प्रशासक - administrator  
 प्रशासन अधिकारी - administrative officer  
 प्रशिक्षक - instructor  
 प्राध्यापक - lecturer  
 प्रेषक - sender, despatcher  
 प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी - adult education officer  
 बाट और माप निरीक्षक - inspector of weights and measurements  
 भंडारी - storekeeper  
 मंत्रिमंडल सचिव - cabinet secretary  
 मंत्री - minister  
 मतदान अधिकारी - polling officer  
 महाडाकपाल - postmaster general  
 महाधिवक्ता - advocate general  
 महानिदेशक - director general  
 महानिरीक्षक - inspector general  
 महापौर - mayor  
 महालेखापाल - accountant general  
 माल बाबू - goods clerk  
 मुख्य अभियंता - chief engineer  
 मुख्य निर्वाचन आयुक्त - chief election commissioner  
 मुख्य न्यायाधीश - chief judge  
 मुख्य न्यायमूर्ति - chief justice  
 मुख्य मंत्री - chief minister  
 मुख्य सचिव - chief secretary  
 यांत्रिक इंजीनियर - mechanical engineer  
 यात्रा टिकट परीक्षक - travelling ticket examiner

योजना अधिकारी - planning officer  
 राजदूत - ambassador  
 राज्यपाल - governor  
 राष्ट्रपति - president  
 रोकड़िया - cashier  
 रोजगार अधिकारी - employment officer  
 लेखा परीक्षक - auditor  
 लेखपाल - accountant  
 वन्यजीव अभिरक्षक - wild life warden  
 वाणिज्य कर अधिकारी - commercial tax officer  
 विक्रय कर अधिकारी - sales tax officer  
 विभागाध्यक्ष - head of department  
 विमान चालक - pilot  
 श्रम आयुक्त - labour commissioner  
 संयुक्त सचिव - joint secretary  
 सचिव - secretary  
 समाज कल्याण अधिकारी - social welfare officer  
 सर्वेक्षक - surveyor  
 सहकारिता अधिकारी - cooperative officer  
 सुरक्षा अधिकारी - security officer  
 सूचना अधिकारी - information officer  
 स्वागत अधिकारी - reception officer  
 स्वास्थ्य अधिकारी - health officer

प्रशासनिक शब्द :  
**ADMINISTRATIVE TERMS**

abolition - उन्मूलन, अंत  
 above cited - ऊपर उद्धृत  
 absence - अनुपस्थिति, गैरहाजिरी  
 abstract - सार  
 acceptance - स्वीकृति, स्वीकार  
 accommodation - आवास  
 accord - प्रदान करना  
 accordingly - तदनुसार  
 account - लेखा, खाता, हिसाब  
 acknowledgement - पावती, प्राप्ति सूचना, प्राप्ति स्वीकृति  
 act - अधिनियम

acting-कार्यवाहक  
 action-कार्रवाई, कार्यवाही  
 ad hoc-तदर्थ  
 adjourn-स्थगित करना  
 adjournment-स्थगन  
 administration-प्रशासन  
 administrative-प्रशासकीय, प्रशासनिक  
 administrator-प्रशासक  
 ad valorem-यथामूल्य  
 advance-पेशगी, अग्रिम  
 advice-सलाह  
 affidavit-शपथपत्र, हलफनामा  
 affix-लगाना  
 aforesaid-पूर्वोक्त  
 age limit-आयु सीमा  
 agriculture-कृषि, खेती  
 allowance-भत्ता  
 amendment-संशोधन  
 amount-राशि, रकम  
 annexure-अनुबंध  
 announcement-एलान, घोषणा  
 annul-रद्द करना  
 appendix-परिशिष्ट  
 application-आवेदन पत्र  
 appointment-नियुक्ति  
 approval-अनुमोदन  
 arrears-बकाया  
 article-अनुच्छेद  
 as per-के अनुरूप  
 as regards-के बारे में, के विषय में  
 assent-अनुमति  
 attestation-साक्ष्यांकन  
 audit-लेखा परीक्षा  
 ban-रोक  
 basic pay-मूल वेतन  
 bearer-वाहक  
 bribery-पूसखोरी, रिश्वतखोरी  
 by order-आदेश से, हुक्म से  
 by return of post-लौटती डाक से  
 bye-law- उपनियम  
 cadre-संवर्ग

cancel-रद्द करना  
 casual leave-आकस्मिक छुट्टी  
 certificate-प्रमाणपत्र  
 charge-प्रभार, कार्यभार  
 circular-परिपत्र, गश्ती चिट्ठी  
 clarification-स्पष्टीकरण  
 classification-वर्गीकरण  
 come into force-अमल में आना, लागू होना  
 competent-सक्षम  
 concession-रियायत  
 concurrence-सहमति  
 condition-शर्त  
 condone-माफ़ करना  
 confidential-गोपनीय  
 confirmation-पुष्टि  
 consent-स्वीकृति  
 consultation-परामर्श  
 context-संदर्भ  
 contingencies-फुटकर  
 copy-प्रतिलिपि  
 correspondence-पत्रव्यवहार  
 counter signature-प्रतिहस्ताक्षर  
 dearness allowance-महंगाई भत्ता  
 decision-निर्णय  
 demi official letter-अर्ध सरकारी पत्र  
 department-विभाग  
 departmental-विभागीय  
 designation-पदनाम  
 despatch-प्रेषण  
 direction-निर्देशन  
 discharge-अदा करना  
 discipline-अनुशासन  
 disciplinary action-अनुशासनिक कार्रवाई  
 dismiss-हटा देना, बरखास्त करना  
 dispose-निपटाना  
 draft for approval-अनुमोदनार्थ मसौदा  
 earliest possible-यथाशीघ्र  
 earned leave-अर्जित छुट्टी  
 enclosure-संलग्न पत्र  
 endorsement-पृष्ठांकन  
 enquiry-पूछताछ

exemption-छूट  
 expedite-शीघ्र कार्रवाई करना  
 explanation-स्पष्टीकरण  
 favourable-अनुकूल  
 figures-आंकड़े  
 file-मिसिल  
 financial year-वित्त (वित्तीय) वर्ष  
 following-निम्नलिखित  
 for consideration-विचारार्थ  
 for disposal-निपटाने के लिए  
 for information-सूचनार्थ  
 for signature-दस्तखत के लिए  
 foregoing-पूर्ववर्ती  
 forthcoming-आगामी  
 forthwith-तुरंत, तत्काल  
 further action-आगे की कार्रवाई  
 gazette-राजपत्र  
 gazetted-राजपत्रित  
 grade-पदक्रम  
 grant-अनुदान  
 handover-सौंपना  
 honorarium-मानदेय  
 honourable-माननीय  
 in accordance with-के अनुसार  
 in addition to-इसके अतिरिक्त  
 in connection with, in continuation  
 of-के संबंध में  
 in due course-यथासमय  
 in force-लागू  
 in general-आम तौर पर  
 in lieu of-के स्थान में  
 in respect of-के विषय में  
 in view of-देखते हुए  
 increment-वेतन वृद्धि  
 indemnify-क्षतिपूर्ति करना  
 indiscipline-अनुशासनहीनता  
 initials-प्रथमाक्षर  
 inspection-निरीक्षण  
 instruction-अनुदेश, हिदायत  
 interim-अंतरिम

investigation-जांच  
 issue-जारी करना  
 joining date-सेवारंभ तिथि  
 necessary action, the needful-आवश्यक कार्रवाई  
 office memorandum-कार्यालय ज्ञापन  
 officiating-स्थानापन्न  
 on behalf of-की ओर से  
 ordinance-अध्यादेश  
 original copy-मूल प्रति  
 pass-अनुमति पत्र  
 pay-वेतन, तनख्वाह  
 pending-निलंबित  
 permanent-स्थायी  
 petition-याचिका, अर्जी  
 please acknowledge receipt-पावती भेजिए  
 post-पद  
 posting-तैनाती  
 postpone-स्थगित/मुलतवी करना  
 prescribed-नियत  
 priority-प्राथमिकता  
 probation-परख, परिबीक्षा  
 proceedings-कार्यवाही  
 proclamation-घोषणा  
 promotion-पदोन्नति, तरक्की  
 proposal-प्रस्ताव  
 provident fund-भविष्य निधि  
 provision-प्रबंध  
 public-सार्वजनिक, आम  
 put up-पेश कीजिए, प्रस्तुत करें  
 qualification-योग्यता  
 qualified-योग्य  
 rank-ओहदा  
 recall-वापस बुलाना  
 receipt-रसीद, प्राप्ति  
 recommendation-सिफारिश  
 reference-संदर्भ, हवाला  
 reinstate-बहाल करना  
 reminder-अनुस्मारक

remission-माफी  
 remuneration-पारिश्रमिक, मेहनताना  
 representation-प्रतिवेदन  
 resignation-त्यागपत्र, इस्तीफा  
 resolution-संकल्प  
 retire-सेवा निवृत्त होना  
 retrenchment-छंटनी  
 rule-नियम, कायदा  
 sanction-स्वीकृति, मंजूरी  
 salary-वेतन  
 scale of pay-वेतन मान  
 schedule-अनुसूची  
 scheme-योजना  
 seal-मोहर  
 sealed-मोहरबंद  
 section-अनुभाग, धारा  
 seniority-वरिष्ठता, वरीयता  
 serial number-क्रमांक  
 sir-महोदय  
 specimen-नमूना, बानगी  
 staff-कर्मचारी वर्ग, अमला  
 stamp (revenue)-रसीदी टिकट  
 statement-वक्तव्य, बयान  
 submit-पेश करना  
 subordinate-अधीनस्थ, मातहत  
 substitute-एवजी  
 surety-जामिन  
 surplus-अधिशेष  
 survey-सर्वेक्षण  
 suspend-निलंबित करना  
 suspension-निलंबन  
 temporary-अस्थायी, तात्कालिक  
 tender-निविदा  
 through proper channel-विधिवत्  
 tour-दौरा  
 transfer-स्थानांतरण, बदली  
 true copy-सही प्रतिलिपि  
 typing-टंकण  
 under consideration-विचाराधीन  
 undersigned-अधोहस्ताक्षरी  
 until further orders-दूसरे आदेश मिलने तक

urgent-तुरंत  
 vacancy-रिक्ति  
 vacant-रिक्त  
 verification-सत्यापन  
 warning-चेतावनी  
 with regard to-के संबंध में  
 yours faithfully-भवदीय  
 yours sincerely, yours truly-आपका

### PREFIXES - उपसर्ग

Prefixes are words which are not used independently but modify the meaning of a word, when attached to it in the beginning.

#### Primary Prefixes (from Sanskrit)

- अ denotes negation/lack  
 न्याय - अन्याय  
 हिंसा - अहिंसा  
 अ becomes अन् before vowel  
 उचित - अनुचित  
 आदि - अनादि
- अप=contrary  
 अपमान, अपशकुन
- अव=contrary, inferior  
 अवगुण, अवमूल्यन
- आ=until, contrary  
 आजन्म, आमरण  
 आदान (taking)  
 आगमन (coming)
- उप=near, vice, sub  
 उपवास, उपकुलपति, उपनगर
- दुर्=evil, difficult  
 दुर्गुण, दुर्लभ
- निर्=without  
 निर्भय, निरपराध
- प्र=very, forward  
 प्रबल, प्रगति
- प्रति=against, opposite, every  
 प्रतिवादी, प्रतिध्वनि, प्रतिदिन
- वि=without, special, away  
 विमल, विज्ञान, विदेश

### SUFFIXES-प्रत्यय

Suffixes are elements attached to a verb root, noun, pronoun, adjective for forming related words.

#### Primary Suffixes

(attached to root)

- root itself used as noun  
 खेलना-खेल (sport)
- lengthening/modifying the vowel of the root  
 चलना-चाल (gait)  
 मिलना-मेल (friendship)
- अक्कड़=doing habitually  
 पियक्कड़ (drunkard)
- आ, आई abstract nouns  
 झगड़ा (quarrel), लड़ाई
- आऊ=fit for  
 बिकाऊ=saleable
- आक=doing habitually  
 तैराक (swimmer)
- आव, आन, आवट, आवा, आहट, ई, त,  
 ती, न form abstract nouns.

- बचाव (protection)
- लगान (tax)
- सजावट (decoration)
- बुलावा (invitation, call)
- चिल्लाहट (cry)
- हंसी (laughter)
- बचत (savings)
- गिनती (counting)
- मुसकान (smile)
- ना forms gerund/verbal noun  
 डूबना (drowning)
- वाला one who does/works with  
 दूधवाला, जानेवाला

#### Secondary Suffixes

(attached to a noun/ adjective)

- आई, आस, आहट, ई, पन, पा form abstract nouns  
 मिठाई (sweetmeat)  
 खटास (sourness)

- सु=good, easy  
 सुकर्म, सुगम
- अंतर=inter  
 अंतराष्ट्रीय
- कु=bad  
 कुकर्म
- पुनर्=again, re  
 पुनर्जन्म
- स=with, same  
 सफल, सजीव
- सह=with  
 सहपाठी

#### Secondary Prefixes (indigenous)

- अ, अन=without, lacking  
 अपढ़, अनजान
- कु=bad, evil  
 कुचाल
- दु=lacking  
 दुबला
- नि=without  
 निडर
- बिन=without  
 बिन-ब्याहा (unmarried)
- भर=full  
 भरपेट

#### Arabic and Persian Prefixes

- गैर=without, against, un  
 गैरहाज़िर, गैरकानूनी, गैरसरकारी
- ना=without  
 नालायक
- फी=per  
 फी रुपया (per rupee)
- ला=without  
 लापता
- बद=bad  
 बदबू
- बे=without  
 बेईमान
- हर=every  
 हर रोज़

- कड़वाहट (bitterness)  
 गरीबी (poverty)  
 पागलपन (madness)  
 बुढ़ापा (old age)
2. आ, इया, ई, ईला, ऊ form adjectives  
 प्यासा (thirsty)  
 कलकतिया (of Kolkata)  
 गुलाबी (rosy)  
 ज़हरीला (poisonous)  
 बाज़ारू (of the market place)
3. इया, ई form diminutives  
 बिटिया (young daughter)  
 पहाड़ी (hill)
- Persian Suffixes**
1. ई forms abstract nouns  
 खुशी (pleasure)
2. गर, गार=dealing in  
 जादूगर (magician)  
 मददगार (helper)
3. आना, नाक, ईन, मंद, दार form adjectives  
 सालाना (annual)  
 खतरनाक (dangerous)  
 नमकीन (salty)  
 दौलतमंद (wealthy)  
 ज़मींदार (landlord)

खरीद	buy
खा	eat
खिल	bloom
खिला	feed
खींच	pull
खुल	open (itself)
खेल	play
खो	lose
खोद	dig
खोल	(you) open
गा	sing
गाड़	bury
गिन	count
गिर	fall
गुंथ	to be threaded
घिस	wear out
घुस	enter
घूम	wander
चख	taste
चढ़	climb
चमक	shine
चर	graze
चल	walk, go
चला	drive, conduct
चाट	lick
चिल्ला	shout
चीख	scream
चुरा	steal
चूम	kiss
छांट	select
छाप	print
छिप	hide
छीन	seize
छू	touch
छोड़	give up
जगा	wake up another
जल	burn
जा	go
जाग	wake up
जान	know
जी	live
जीत	win
जोड़	add, connect

जोत	plough
झुक	bend, bow
झूल	swing
ठपक	fall
टहल	stroll
टाल	evade, postpone
टिक	remain
टूट	break
ठग	cheat
ठहर	stay, wait
उर	be afraid
उरा	frighten
डाल	put down
डूब	drown
डोल	swing
ढक	close, put lid on
ढकेल	push, jostle
ढूँढ	search
ढो	carry
तोड़	break, smash
तैर	swim
थपा	pat
थूक	spit
दबा	press, suppress
दिखा	show
दे	give
देख	see
दौड़	run
धमका	frighten
धो	wash
नहा	bathe
नाच	dance
निकल	start, get out
पकड़	catch
पका	cook
पढ़	read
परोस	serve
पहचान	recognize
पहन	wear
पहुँच	reach
पाल	bring up
पिघल	melt
पीट	beat

पी	drink
पीस	grind
पूछ	ask, enquire
फँस	get caught
फट	get torn
फाड़	tear
फेंक	throw
फैल	spread
बच	escape
बचा	save
बज	clock strike
बजा	ring a bell
बढ़ा	increase
बता	tell
बदल	change
बह	flow
बांट	divide
बाँध	tie
बुन	weave
बुला	call
बेच	sell
बैठ	sit
बो	sow
बोल	speak
भटक	wander
भर	fill up
भाग	run away, escape
भूंक	bark
भूल	forget
भेज	send
भौंक	bark
मर	die
मना	refuse, reject
माँग	demand
मान	accept
मार	beat
मिल	meet, get
मुस्करा	smile
रख	put, keep
रह	live
रेंग	crawl
रो	weep, cry
रोक	stop, prevent

**DIRECT VERBS**  
(without using कर/do)

आ	come
उठ	get up
उड़	fly
उतर	get down
उतार	unload, remove
ओढ़	wear
कमा	earn
कर	do
कह	tell
काँप	shiver
काट	cut
कूद	jump
खटखटा	knock



लड़	fight
लांघ	jump
ला	bring
लाद	load
लिख	write
ले	take
लेट	lie down
लौट	return
सजा	decorate
सड़	rot
समझ	understand
सह	endure, put up with
सिखा	teach
सी	sew
सीख	learn
सुन	hear
सुला	make (baby) sleep
सो	sleep
सोच	think
सौंप	entrust, handover
हंस	laugh
हट	go away
हरा	defeat
हिल	sway
हिला	give a jerk

विशेषण  
LIST OF ADJECTIVES

अलग	separate
अचल	steady
अधिक	much
असभ्य	uncivilized
अनेक	many
अशांत	restless
अधूरा	half done
अजीब	strange
अंतिम	final
अंधा	blind
अनुचित	improper
अयोग्य	unsuitable
अकेला	alone
अस्थायी	temporary
अच्छा	good

अमीर	rich
अंतर्राष्ट्रीय	international
आध्यात्मिक	spiritual
आखिरी	final
आसान	easy
आज़ाद	independent
आधुनिक	modern
ईमानदार	honest
उचित	suitable
उल्टा	opposite
उदार	liberal
उपयोगी	useful
उदास	sad
ऊँचा	high, tall
ऊबड़ खाबड़	rough, uneven
ऐतिहासिक	historical
ओछा	mean
औँधा	upside down
कई	many
कठिन	difficult
कठोर	severe, cruel
कंजूस	miserly
कम	less
कमज़ोर	weak
कुछ	few, little, something
कच्चा	raw
काफी	sufficient
केन्द्रीय	central
कोमल	soft
कंटीला	thorny
कुल	total
कटा	cut
काला	black
कड़वा, कड़ुआ	bitter
कायर	coward
खूबसूरत	beautiful
खुश	happy
खाली	empty
खास	special
खुरदरा	rough, uneven
खुला	open
खराब	bad
खट्टा	sour

गंदा	dirty
गहरा	deep
गीला	wet, damp
गोल	round
गूंगा	dumb
गरीब	poor
गर्वीला	proud
गरम	hot
गलत	wrong
गुनगुना	lukewarm
गेरुआ	ochre
गुलाबी	rose
ग्रामीण	rural
घना	dense, thick
घमंडी	proud
घायल	wounded
घटिया	inferior
चौड़ा	broad
चिड़चिड़ा	irritable
चतुर	clever
चुस्त	alert, tight
चालाक	cunning
चमकीला	glittering
चिकना	smooth
चटपटा	pungent
छोटा	small
जिद्दी	obstinate
ज्यादा	much
झूठा	false
टेढ़ा	crooked
टूटा	broken
ठंडा	cold
ठीक	correct
ढीला	loose
तगड़ा	strong
तेज	fast, sharp, intelligent
तंदुरुस्त	healthy
ताज़ा	fresh
तीखा	pungent
थोड़ा	little
दायाँ	right (side)
दुबला	lean, weak
धीमा	slow, faint

निडर	fearless
निराला	unique
नाटा	short
नटखट	mischievous
नुकीला	pointed, sharp
नाराज़	angry
नालायक	useless
नन्हा	tiny
नीचा	low
नया	new
नामी	famous
नीला	blue
नमकीन	salty
पीला	yellow
पूरा	full
पर्याप्त	enough
पवित्र	pure, holy
प्यारा	lovable
पुराना	old
प्राचीन	ancient
पका	ripe, cooked
पढ़ा-लिखा	educated
प्यासा	thirsty
पौष्टिक	nutritious
पिछला	last, previous
पक्का	definite
प्रसन्न	happy
प्रत्येक	every
प्रसिद्ध	famous
फटा	torn
फीका	tasteless
बैंगनी	violet
बेकार	wasteful
बूढ़ा	old
बंद	closed
बाकी	balance
बदमाश	roguish
बदसूरत	ugly
बदनाम	notorious
बीमार	sick
बेहोश	unconscious
बहुत	plenty
बेईमान	dishonest

बहरा	deaf	विशिष्ट	special
बेवकूफ	foolish	विशाल	broad, liberal
बराबर	equal	विचित्र	strange, peculiar
बासी	stale	शरारती	mischievous
बढ़िया	grand, superb	शहरी	urban
बायाँ	left	शेष	balance
भद्दा	ugly	शुद्ध	clean
भोला-भाला	innocent	शांत	calm, peaceful
भारी	heavy	शिक्षित	educated
भरा	full	सरकारी	official, government
भड़कीला	showy	सुंदर	beautiful
भूखा	hungry	स्वच्छ	clean, pure
भयानक	terrible	सूखा	dry
भुलक्कड़	forgetful	सरल	easy
भूरा	brownish	सीधासादा	straightforward
मीठा	sweet	सही	correct
मुरझाया	faded	साधारण	ordinary
मासिक	monthly	साफ	clean
महान	great	सुस्त	lazy
मशहूर	famous	संतुष्ट	satisfied
मजबूत	strong	साहसी	courageous
मोटा	fat	सुगंधित	sweet smelling
मनमाना	wanton	सभ्य	civilized
मामूली	ordinary	सीधा	straight
मुश्किल	difficult	सुरक्षित	safe
मेहनती	hardworking	सस्ता	cheap
मनोहर	charming	सराहनीय	praiseworthy
मधुर	sweet	सुनसान	desolate
मूर्ख	foolish	सुनहला	golden
महँगा	costly	सफ़ेद	white
योग्य	suitable	स्वस्थ	healthy
रुचिकर	tasty	स्वतंत्र	independent
राज नीतिक,		स्वादिष्ट	tasty
राजनैतिक	political	स्थायी	permanent
रोचक	interesting	हरा	green
लाल	red	हरा भरा	prosperous
लायक	suitable	हँसमुख	ever smiling
लंगड़ा	lame	होशियार	clever
लंबा	long	हवादार	airy
विदेशी	foreign	हर	every
विरल	rare	हल्का	light weight